تلفظ

तलफ़्फ़ुज़

उर्दू उच्चारण



شکیل حسن شمسی

शकील हसन शमसी

تلفظ

तलफ़्फ़ुज़

उर्दू उच्चारण

مؤلف

شکیل حسن شمسی

लेखक

शकील हसन शमसी

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

नाम पुस्तक	:	तलफ़्फ़ुज़' उर्दू उच्चारण
लेखक	:	शकील हसन शमसी
सम्पादन	:	ए. रहमान, (चेयरमैन आलमी उर्दू ट्रस्ट)
		निकुंज मिश्र 'किश्वर' (सदस्य, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, कार्य कारणी)
ससंस्करण	:	प्रथम
प्रकाशन वर्ष	:	मार्च 2019
प्रकाशक	:	NCPUL
मूल्य	:	

نام کتاب	:	تلفظ (اردو اچّارن)
مصنف	:	شکیل حسن شمسی
ایڈیٹنگ	:	اے رحمان (چیرمین عالمی اردو ٹرسٹ)
	:	نکنج مشر کشور (رکن مجلس عاملہ، اترپردیش اردو اکادمی)
ایڈیشن	:	اوّل
اشاعت کا سال	:	مارچ 2019
قیمت	:	
ناشر	:	قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

پیش لفظ

افراد و اجتماع کی ترقی آگہی اور معلومات سے مشروط ہے اور آگہی کے تمام دروازے کتابوں کے ذریعے ہی کھلتے ہیں۔ کتابیں ہمیں روشنی کی ایک نئی دنیا سے روشناس کراتی ہیں اور ہمارے احساس واظہار کو تحریک عطا کرتی ہیں۔ مگر صارفی معاشرت نے ہماری ترجیحات بدل دی ہیں۔ کتابوں سے ذہنوں کا رشتہ کمزور پڑ تا جارہا ہے۔ ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی وجہ سے متبادل قرأت کی ایک نئی صورت جنم لے رہی ہے۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ مطبوعہ کتابوں کی معنویت کم نہیں ہوئی بلکہ کتابیں ہمیشہ زندہ رہیں گی کیونکہ مطبوعہ کتابوں کے لمس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی سبب نے گو کہ قاری کا ایک نیا طبقہ پیدا کیا ہے مگر مطبوعہ کتابوں سے آج بھی دنیا کی بڑی آبادی کا رشتہ قائم ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ حسب سابق جاری وساری ہے۔

علمی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ ہمیشہ سے ایک اہم مسئلہ رہا ہے اور ہمارے ارباب نظر نے اس کے تحفظ کے لیے مختلف صورتیں بھی نکالی ہیں۔ قومی اردو کونسل بھی ایک ایسا ادارہ ہے جس نے علمی اور

تہذیبی وراثت کے تحفظ کے لیے مختلف علوم و فنون کی نہ صرف کتابیں شائع کی ہیں بلکہ '' ای کتاب'' کے ذریعے بھی اس کے تحفظ کی ایک نئی صورت نکالی ہے۔ قومی اردو کونسل نے جہاں لسانیات، ادبیات، تکنیکی و سائنسی علوم، ریاضیات، سماجیات اور دیگر علوم کی فرہنگ و اصطلاحات، کلاسیکی ادب پاروں، نادر و نایاب کتابوں کی اشاعت کا سلسلہ قائم رکھا ہے وہیں '' ای کتاب'' اور '' ای لائبریری'' کے ذریعے اہم کتابوں کے تحفظ کی بھی کوشش کی ہے۔ کونسل نے ذو لسانی (اردو اور انگریزی) ایپ ''ای کتاب'' تیار کیا ہے جس میں گلوبل لینگویج سپورٹ کے علاوہ انٹریکٹو فہرست کے ذریعے مطلوبہ باب تک رسائی اور الفاظ کے معانی دیکھنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ کونسل سے شائع شدہ اہم کتابیں اس کی ویب سائٹ (ای لائبریری) پر موجود ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کونسل کی اہم مطبوعات سے استفادہ کر سکیں۔ قومی اردو کونسل نے کم قیمت پر اردو زبان و ادب کا سرمایہ شائقین تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور کونسل اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہے کہ اس کی کتابیں صرف برصغیر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ کونسل ترجیحی طور پر ان کتابوں کی اشاعت کرتی ہے جس کے ذریعے ہم حیات و کائنات کے رموز و اسرار، آداب زندگی اور قرینہ اظہار سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔

یہ کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کتاب اساتذہ اور طلبا کے علاوہ عام قارئین کے لیے بھی بے حد مفید ثابت ہوگی۔

شیخ عقیل احمد

ڈائرکٹر

इस क्रम में शब्द तलाश करें

حروف کی حسب ذیل ترتیب کے مطابق الفاظ تلاش کریں

अक्षर/ حرف		पृष्ठ/ صفحہ	अक्षर/ حرف		पृष्ठ/ صفحہ
अ	(ا،ع)	2	ट	(ٹ)	54
आ	(آ،ع)	7	ठ	(ٹھ)	54
इ	(ای)	11	ड	(ڈ)	55
ई	(ای)	15	ढ	(ڈھ)	56
उ	(او،ع)	16	त	(ت)	57
ऊ	(او،ع)	17	थ	(تھ)	67
ए	(اے،ع)	17	द	(د)	68
ऐ	(اے،ع)	18	ध	(دھ)	74
ओ	(او،ع)	18	न	(ن)	75
औ	(او،ع)	18	प	(پ)	84
क	(ک)	19	फ	(پھ)	88
क़	(ق)	25	फ़	(ف)	89
ख	(کھ)	29	ब	(ب)	93
ख़	(خ)	30	भ	(بھ)	103
ग	(گ)	34	म	(م)	105
ग़	(غ)	38	य	(ی،ے)	129
घ	(گھ)	40	र	(ر)	131
च	(چ)	41	ल	(ل)	138
छ	(چھ)	45	व	(و)	143
ज	(ج)	45	श	(ش)	146
ज़	(ذ،ز،ژ،ض،ظ)	49	स	(س)	154
झ	(جھ)	53	ह	(ح،ہ،ھ)	168

हिंदी के माध्यम से उर्दू का प्रसार

हिंदी और उर्दू दो सगी बहनों की तरह हैं। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा है। इनके रूप रंग को भारत की महान सभ्यता और इंद्रधनुषी संस्कृति ने संवारा है। इसलिए बोल-चाल के समय कहीं-कहीं इन दोनों भाषाओ में यह पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि बोलने वाला व्यक्ति हिंदी बोल रहा है या उर्दू। इतना कम फ़र्क़ होने के साथ-साथ दोनों भाषाओं की अपनी खूबियां हैं। जैसे हिंदी की विशेषता यह है कि इसमें जो लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है लेकिन उर्दू के साथ ऐसा नहीं है। कई शब्दों को अंदाज़े से पढना पड़ता है। इस वजह से हिंदी भाषा उर्दू शब्दों के सही उच्चारण में सहायक हो सकती है। इसे दैनिक इंक़िलाब के संपादक शकील शमसी ने गहराई से समझा और एक ऐसी पुस्तक लिख डाली जिसमें न सिर्फ उर्दू के शब्दों का सही उच्चारण है बल्कि हर शब्द के अनेकानेक अर्थ भी लिखे हैं।

मुझे लगता है कि यह पुस्तक उन सभी लोगों के लिए उपयोगी सिद्‌ध होगी जो उर्दू से प्रेम तो करते हैं लेकिन उसकी लिपि पढ़ नहीं पाते हैं। इसके साथ यह पुस्तक उन तमाम पाठकों के लिए भी अपनी उपयोगिता साबित करेगी जो उर्दू के शब्दों से तो परिचित हैं लेकिन उनका सही अर्थ पता नहीं है। इस कारण वे उर्दू के शब्दों का प्रयोग उचित जगह पर नहीं कर पाते हैं। हमारे देश के समाचार पत्रों में भाषा के स्तर को बनाए रखने के भरसक प्रयत्न किए जाते हैं। विशेष रूप से दैनिक जागरण में तो हम छान फटक कर ही एक-एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मीडिया का प्रभाव समाज पर इतना अधिक हो गया है कि मीडिया में प्रयोग होने वाली भाषा ही आम जन की भाषा बनती जा रही है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि जो सुनता है, वही बोलने लगता है। इसलिए मीडिया जगत में सही भाषा के लिए अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए।

मुझे लगता है कि श्री शकील शमसी की यह पुस्तक काफी पसंद की जाएगी क्योंकि सही उर्दू बोलने की तमन्ना रखने वाले लोगों को हिंदी के माध्यम से उर्दू के सही शब्द और उनका अर्थ जानने में सहूलियत हो जाएगी। मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए श्री शमसी को बधाई देता हूँ।

संजय गुप्त

प्रधान संपादक एवं सीईओ, दैनिक जागरण

ہندی کے ذریعہ اردو کی نشرواساعیب

ہندی اور اردو دو سگی بہنوں کی طرح ہیں۔ دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے۔ ان کے روپ رنگ کو بھارت کی عظیم تہذیب اور قوسِ قزح جیسی ثقافت نے سنوارا ہے۔ لٰہذا بول چال کے دوران دونوں زبانوں میں یہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گفتگو کرنے والا ہندی بول رہا ہے یا اردو۔ بہت کم فرق کے ساتھ ساتھ، دونوں زبانوں کی اپنی اپنی خوبیاں بھی ہیں۔ جیسے ہندی کی یہ خوبی ہے کہ اس میں جو لکھا جاتا ہے وہی پڑھا جاتا ہے، لیکن اردو کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بہت سے الفاظ کو اندازے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے، اردو الفاظ کے درست تلفظ میں ہندی زبان مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس بات کو روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر شکیل حسن شمسی نے گہرائی سے سمجھا اور ایک ایسی کتاب تحریر کر دی جس میں نہ صرف یہ کہ اردو کے الفاظ کا درست تلفظ ہے بلکہ ہر لفظ کے کئی کئی معنی بھی دیے گئے ہیں۔

مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب ان سب ہی لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو گی جو اردو سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ، یہ کتاب ان قارئین کے لیے بھی بہت

مفید بابت ہو گی جو اردو کے الفاظ سے تو واقف ہیں لیکن ان کے صحیح معنی نہیں جانتے۔ اسی سبب سے بہت سے لوگ اردو الفاظ کو مناسب جگہ پر استعمال نہیں کر پاتے۔

ہمارے ملک کے اخباروں میں زبان کے معیار کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ خاص طور پر دینک جاگرن میں، ہم ایک ایک لفظ اچھی طرح چھان پھٹک کر استعمال کرتے ہیں۔ آج کل میڈیا کے اثرات سماج پر بہت مرتب ہو رہے ہیں یہاں تک کہ میڈیا میں استعمال ہونے والی زبان عام آدمی کی زبان بنتی جا رہی ہے۔ انسان فطری طور پر ایسا ہے کہ جو سنتا ہے، وہی بولتا ہے۔ لہٰذا میڈیا کی دنیا میں صحیح زبان کو رائج کرنے کے لیے مزید کوشش کی جانی چاہیے۔

مجھے اعتماد ہے کہ شری شکیل حسن شمسی کی اس کتاب کو بہت پسند کیا جائے گا کیونکہ لوگ جو درست اردو بولنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہندی کے ذریعے اردو کے صحیح الفاظ اور معنی کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں اس اہم کام کو انجام دینے کے لیے شکیل حسن شمسی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔

سنجے گپت

مدیر اعلیٰ اور سی ای او، دینک جاگرن

उर्दू का परिचय

पहले उर्दू को हिन्दवी, हिंदी, हिन्दोस्तानी और रेख़्ता कहा जाता था मगर वक़्त के साथ-साथ इसका नाम उर्दू हो गया। असल में उर्दू तुर्की का शब्द है इस को वहाँ Ordu लिखा जाता है और इसका अर्थ होता है सेना । यह नाम पड़ने की वजह यह थी कि उस समय भारत में जो शासक थे उनकी सेना में अरबी तुर्की फ़ारसी और विभिन्न भारतीय भाषाएँ बोलने वाले सैनिक शामिल थे। वह सैनिक आपस में और नगर की जनता से बात करने के लिए अपनी-अपनी ज़बानों और बोलियों के जो शब्द प्रयोग करते थे उन्हीं से मिल कर एक नयी भाषा पैदा हुई और ज़बान ए उर्दू (सेना की भाषा) कहलाई।

उर्दू से देश के लोगों ने इस लिए प्यार किया कि इसमें सभी भारतीय भषाओं की खुशबू शामिल थी। लेकिन उर्दू को लोकप्रिय बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी शाएरी का है। उर्दू में शाएरी इतनी उच्च कोटि की हुई कि उर्दू मोहब्बत करने वालों की ज़बान बन गई। इसी मोहब्बत ने ऐसा रंग

दिखाया कि आज भारत में उर्दू के आधा दर्जन चैनल हैं, सैकड़ों साप्ताहिक और दैनिक पत्र निकलते हैं और फ़िल्मी गीतों ने लोकप्रियता की सारी हदें पार कर ली हैं ।

आज़ादी से पहले तक हिंदी और उर्दू में फ़र्क़ करना मुमकिन नहीं था लेकिन 1947ई० में देश के विभाजन के समय जब उर्दू को पाकिस्तान की सरकारी ज़बान बना दिया गया तो उर्दू पर भी एक मज़हब की भाषा होने का ठप्पा लग गया हालाँकि पाकिस्तान में आज भी 70% लोग पंजाबी, सिंधी और पश्तो बोलते हैं और उर्दू केवल मुहाजिरों (भारतीय शरणार्थियों) की ज़बान बन कर रह गई है। विभाजन के बाद के कुछ वर्षों तक उर्दू को भारत में भी कठिनाई का सामना करना पड़ा मगर धीरे-धीरे लोगों की समझ में आ गया कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। जिस तरह हिंदी हिन्दुओं की भाषा नहीं है उसी प्रकार उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। ख़ुशी की बात यह है कि जनता में जो ज़बान बोली जाती है वह न तो पूरी तरह से हिंदी है और न ही पूरी तरह से उर्दू, इसको आप हिंदुस्तानी ज़बान कह सकते हैं।

उर्दू भाषा में जो कशिश है उसकी वजह से बहुत से लोग उर्दू अलफ़ाज़ का अर्थ या सही उच्चारण जाने बिना भी उन्हें अपनी रोज़मर्रा की भाषा में ख़ूब बोलते हैं और कभी-कभी तो बिना समझे ही उर्दू भाषा के अलफ़ाज़ का आनंद लेते हैं। इसकी मिसाल देने के लिये मैं एक क़िस्सा बताता चलूँ। मेरे एक दोस्त गाना बहुत अच्छा गाते थे एक बार उन्होंने एक महफ़िल में फिल्म 'वक़्त' का मशहूर गाना "ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं" गाया और फिर जब वह वाह वाही लूट चुके और मेरे साथ खाना खाने बैठे तो मेरे कान में उन्होंने कहा "भाई शमसी ज़ोहरा जबीं का मतलब क्या होता है?" तो मुझे बहुत हंसी आई मैंने कहा "इतने बरस से गाना गा रहे हो और ज़ोहरा जबीं का मतलब नहीं मालूम?" तो उन्होंने बहुत सुंदर सा जवाब देते हुए कहा "उर्दू भाषा की यही तो ख़ूबी है कि उसके शब्द समझ में नहीं आते लेकिन सुनने में भले लगते हैं । " फिर मैंने उनको बताया की

वीनस नाम के उस तारे को उर्दू में ज़ोहरा कहते हैं जिसको रोम वाले मोहब्बत की देवी के रूप में पूजते थे और जबीं माथे को कहते हैं अत: ज़ोहरा जबीं का अर्थ यह हुआ कि मोहब्बत की देवी जैसा चमकता हुआ माथा रखने वाली औरत। मुझे लगता है कि बहुत से पाठकों को ज़ोहरा जबीं का अर्थ इस पुस्तक से ही मालूम हुआ होगा जबकि वह पिछले कई दशकों से यह गाना सुनते रहे हैं।

इस क़िस्से से आपको पता चल गया होगा कि उर्दू के बहुत से शब्दों को भारतवासी रोज़ बोलते तो हैं लेकिन उनके सही अर्थ से परिचित न होने की वजह से उनका ग़लत इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिन से मेरे दिल में यह ख़याल बार-बार आ रहा था कि उर्दू के सही शब्द, उर्दू के अलफ़ाज़ का सही मतलब और उच्चारण उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूं जो उर्दू के स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाते। इसी लिए मैंने यह छोटा सा प्रयास किया है। यहाँ पर कहता चलूँ कि किसी एक पुस्तक में उर्दू के सभी शब्दों को समेटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस लिए मैं सिर्फ ऐसे अलफ़ाज़ को इस पुस्तक में शामिल कर रहा हूँ, जो रोज़मर्रा की बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उर्दू शब्दों से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां और अधिकतर ग़लत बोले जाने वाले शब्दों पर कुछ महत्व पूर्ण बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, साथ ही साथ उर्दू के कुछ ऐसे लफ़्ज़ पेश कर रहा हूँ जिनके ग़लत उच्चारण (तलफ़्फ़ुज़) या ग़लत प्रयोग से उनका मतलब ही बदल जाता है।

अक्षरों की बात

मैं पहले बता चुका हूँ कि उर्दू विभिन्न भाषाओं से मिल कर बनी है। उर्दू में कई अक्षर ऐसे हैं जो उसने संस्कृत, अरबी, फ़ारसी, और तुर्की से लिए हैं, लेकिन आगे बात करने से पहले यह बताना ज़रूरी है कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों को उर्दू के कुछ शब्दों को बोलने में इस लिए

दिक़्क़त होती है कि उर्दू में अनेक ऐसे अक्षर भी इस्तेमाल होते हैं जो हिंदी की अक्षर माला और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में नहीं हैं। इन में क़ फ़ ज़ और ग़ शामिल हैं। हिंदी और उर्दू के प्रेमियों ने इस का हल यूँ निकाला कि इन अक्षरों के नीचे बिंदु लगाया जाने लगा जिस के कारण उर्दू के शब्दों को उच्चारित करना हिंदी भाषी लोगों के लिए आसान हो गया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हिंदी के कुछ नामचीन लोगों ने हिंदी अक्षरों के नीचे से बिंदु या नुक़्ता हटाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से कुछ शब्दों का न केवल अर्थ बदल गया बल्कि कई मामलों में तो बिलकुल उल्टा हो गया है, जैसे की ज़लील शब्द को हम यदि बिना नुक़्ते के पढ़ें तो जलील होगा। जलील का अर्थ होता है उच्च या बड़ा और ज़लील का अर्थ होता है तुच्छ या गिरा हुआ। अब आप खुद सोचिये कि नुक़्ता हटा देने से एक तुच्छ व्यक्ति कितनी आसानी से उच्च बन जायेगा।

इतना ही नहीं उर्दू भाषा की अपनी एक ख़ूबी यह भी है कि उसमें अ की आवाज़ निकालने वाले तीन अक्षर हैं अलिफ़, अलिफ़मद और ऐन। इसी प्रकार ह की आवाज़ वाले तीन अक्षर हैं, बड़ी हे, छोटी हे और दो चश्मी हे तथा स की आवाज़ वाले भी तीन अक्षर हैं यानी से, सुआद और सीन। ज़ की आवाज़ वाले चार अक्षर हैं इनके नाम इस प्रकार हैं ज़े, ज़ाल , ज़ुआद और ज़ोए। ख़ास बात यह है कि हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द का मतलब अलग होता है। इसके अलावा उर्दू अक्षर माला में एक कमी यह है की इस में उ और बड़ा ऊ नहीं है। इस कारण इन को अलिफ़ और वाओ अथवा ऐन और वाओ को मिला कर उच्चारित किया जाता है, लेकिन हम आप को इसमें उलझाना नहीं चाहते हम तो केवल उन शब्दों का सटीक उच्चारण पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम और आप रोज़ बोलते हैं। उर्दू लिखी तो जाती है Perso- Arabic (अरबी/फ़ारसी) स्क्रिप्ट में लेकिन कोई इंसान अगर केवल अरबी या फ़ारसी पढ़ सकता है तो वह उर्दू नहीं पढ़ सकेगा क्योंकि उर्दू ने अरबी की अक्षरमाला से 28 अक्षर लिये तो फ़ारसी से चे, पे, गाफ़, ज़े, और छोटी ये जैसे अक्षर लिए और संस्कृत से

ट, ड, ढ , ढ़ और ड़ अपनी अक्षर माला में जोड़े । उर्दू में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ध, फ और भ भी नहीं है । उनकी आवाज़ के लिए दो अक्षरों को जोड़ा जाता है ।

कुछ ग़लत बोले जाने वाले शब्द

ख़ुलासा = उर्दू में इसका अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप परन्तु पत्रकार इसको भेद खुलने या विस्तार करने के अर्थ में प्रयोग करते हैं।

जज़बातों = उर्दू में एक शब्द है जज़्बा उसी का बहुवचन है जज़्बात लेकिन बहुत से लोग जज़बातों कह कर बहुवचन को डबल बहुवचन बना देते है जो ग़लत है ।

एहसास = इसी प्रकर एहसास शब्द का बहुवचन **एहसासात** है मगर अनेक लोग उसको एहसासों कहते हैं जो ठीक नहीं है।

तमाम = इस शब्द का अर्थ होता है समस्त या समपूर्ण लेकिन आम तौर पर इसको लोग कुछ या अनेक के अर्थ में प्रयोग करने लगे हैं जो सही नहीं है।

लफ़्ज़ = इस शब्द का बहुवचन अलफ़ाज़ है मगर हमारे कुछ दोस्त बहुवचन का भी बहुवचन 'अल्फ़ाज़ों' के रूप में बना देते हैं जो ग़लत है।

ख़ुदकुशी या गौकुशी = उर्दू में कुश का अर्थ होता है हत्या करना और कश का मतलब होता है खींचना। इस लिए ख़ुदकुशी या गौकुशी को ख़ुदकशी या गौकशी कहना ग़लत है। जब कोई हुक़्क़ा पियेगा तो उसको हुक़्क़ा कशी कहेंगे या जब कोई रस्सा खींचने की प्रतियोगिता में भाग लेगा तो उस को रस्साकशी कहेंगे। लेकिन हत्या करने के लिए कुशी ही लिखेंगे।

जो लोग उर्दू शब्दों के नीचे बिन्दु लगाने को लेकर कुछ अधिक ही उत्साहित होते हैं वह कई बार शब्द को बिगाड़ देते हैं।

फिर को फ़िर जावेद को ज़ावेद, खाने को ख़ाने, फल को फ़ल, सांप के फन को फ़न, बेगम को बेग़म करीम को क़रीम और जनाब को ज़नाब करने वाले भी उर्दू प्रेमी यहाँ कम नहीं हैं, जबकि इस तरह के शब्दों में नुक़्ता लगाना ग़लत है । कमाल तो यह है कि कई लोग फूल को भी फ़ूल कहते हैं जबकि सब जानते हैं कि फूल पुष्प को और फ़ूल मूर्ख को कहते हैं।

बिंदु लगाते वक़्त अगर सावधानी बरतने की ज़रूरत है तो वहीं बिंदी हटाते वक़्त भी इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिंदु हटाने से भी शब्दों का अर्थ बिलकुल बदल जाता है। जैसे ख़ान में बिंदु न लगी हो तो वह खान अर्थात खदान में बदल जाएगा। बिंदु हटने से लोहे पर लगने वाले ज़ंग और मैदान में लड़ी जाने वाली जंग अर्थात युद्ध में कोई फ़र्क़ नहीं रह जाएगा।

इसी तरह भारत में विरोध करने के लिए एक शब्द ख़िलाफ़त बहुत प्रचलित हो गया है,क्योंकि लोग समझते हैं कि यह शब्द ख़िलाफ़ (विरूद्ध) से बना है, जबकि ख़िलाफ़त इस्लामी शासन प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है। विरोध के लिए उचित शब्द है मुख़ालिफ़त। हमारे बहुत से राजनेता और लीडर ज़िम्मेदारी शब्द को ज़िम्मेवारी कहते हैं जो ग़लत है जिस प्रकार से चौकीदारी शब्द को हम चौकीवारी नहीं कह सकते उसी तरह ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेवारी भी नहीं कह सकते।

उर्दू के अनेक शब्दों में ए लगाने का चलन है जैसे कि शहर-ए-दिल्ली, अहद-ए- क़दीम, लज़्ज़त-ए-लखनऊ, उस्ताद-ए-फ़न और कलाम-ए-शाएर इत्यादि, लेकिन ए केवल उन्हीं दो शब्दों के बीच में लगाया जा सकता है जो फ़ारसी भाषा से लिये गए हों जैसे कि राह-ए-आम तो कह

सकते हैं सड़क-ए- आम नहीं कह सकते, बल्कि हम उसे आम सड़क कहेंगे। इसी प्रकार फ़िल्म स्टार्स को सितारा-ए-फ़िल्म नहीं बल्कि फ़िल्मी सितारा कहना ही सही होगा। इसी तरह भारत सरकार को हुकूमत-ए-हिन्द तो कह सकते है हुकूमत-ए- भारत कहेंगे तो ग़लत होगा भारतीय हुकूमतअलबत्ता कहा जा सकता है ।

एक और अहम बात की ओर आप का ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे और वह है कि उर्दू में ई के लिए 'छोटी ये' नाम का अक्षर प्रयोग होता है जिसको याये निस्बती (संबंध दर्शाने वाली 'ये') कहा जाता है। इसका प्रयोग करके हम लखनऊ वाले को लखनवी, गुजरात वाले को गुजराती, भोपाल वाले को भोपाली और पंजाब वालों को पंजाबी कहते हैं लेकिन किसी नगर या स्थान के नाम के अंत में अगर ई या अ लगा हो तो हमको संबंध जोड़ने के लिए व और ई दोनों का प्रयोग करना पड़ता है इसी कारण देहली वालों को हम देहलवी कहते हैं और हरियाणा वालों को हरयाणवी। थाना ज़िले के रहने वालों को थानवी और चंदौली वालों को चंदौलवी कहते हैं। इसी प्रकार के सैकड़ों शब्द है जिनको लोग ग़लत बोलते हैं या फिर उस का ग़लत अर्थ निकालते हैं।

कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनके दो उच्चारण प्रचलित हैं, जैसे लखनऊ वाले तट को किनारा बोलते हैं तो दिल्ली वाले कनारा बोलते हैं । प्यास के लिये लखनऊ वाले तशनगी बोलते हैं तो दिल्ली के उर्दू सहित्यकार तिशनगी बोलते हैं । इसी प्रकार भाषा या जीभ को भी कोई ज़बान और कोई ज़ुबान कहता है । मोहब्बत और मुहब्बत, मोहम्मद और मुहम्मद, मोहर्रम और मुहर्रम और चिराग़ तथा चराग़ जैसे शब्दों का दोनों प्रकार का उच्चारण ठीक माना गया है इसलिए इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और कह दूँ कि उर्दू में कवि को 'शाएर' कहा जाता है लेकिन हिंदी में लोग 'शायर' लिखने लगे हैं, इस शब्द को दोनों प्रकार से लिखा जाना सही है।

आशा है आप इस किताब को पसंद करेंगे और इस में जो कमियां आप को नज़र आयें या कुछ अन्य अज्ञात शब्द आप के सामने आएं तो उनका अर्थ पूछने में संकोच नहीं करेंगे। आप ई मेल द्वारा मुझ से संपर्क कर सकते हैं ।

धन्यवाद

शकील हसन शमसी

संपादक, दैनिक इन्क़िलाब

पूर्व रेज़िडेंट एडिटर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा

पूर्व कन्सल्टेंट लोक सभा टीवी

पूर्व समाचार प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन

पूर्व कमेंट्री राईटर फ़िल्म्स डिवीज़न ऑफ़ इण्डिया

shakeelhshamsi@gmail.com

اردو کا تعارف

پہلے زمانے میں اردو کو ہندوی، ہندی، ہندوستانی اور ہندی کہا جاتا تھا، لیکن ویپ کے ساتھ ساتھ اس کا بام اردو ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو ترکی کا لفظ ہے، اس لفظ کو وہاں Ordu لکھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے فوج۔ یہ بام پڑنے کا سبب یہ تھا کہ اس ویپ ہندوستان میں جو حکمراں تھے ان کی فوج میں عربي، ترکی، فارسی اور مختلف ہندوستانی زبانیں بولنے والے فوجي سامل تھے۔ وہ لوگ آپس میں اور شہر کے عوام سے بات کرنے کے لیے اپنی اپنی زبانوں اور بولیوں کے جو الفاظ استعمال کرتے تھے ان سے مل کر یہاں ایک نئی زبان پیدا ہوئی جو زبان اردو کہلائی۔

اس ملک کے لوگوں نے اردو سے اس لیے پیار کیا کہ اس میں کئی ہندوستانی زبانوں کی خوشبو سامل تھی، مگر اردو کو مقبول بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اردو ساعری کا ہے۔ اردو میں اتنے اعلیٰ معیار کي ساعری ہوئی کہ اردو محبت کرنے والوں کی زبان بن گئی۔ اسی محبت نے ایسار بگ دکھایا ہے کہ آج ہمارے ملک میں اردو کے نصف درجن چینلز ہیں، سینکڑوں ہفت بامے اور روزبامے سائع ہوتے ہیں اور فلمی گیتوں نے تو مقبولیت کی ساری حدیں ہی پار کر لی ہیں۔

آزادی سے پہلے ہندی اور اردو میں فرق کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن 1947 میں ملک کی تقسیم کے وقت جب کو پاکستان کی سرکاری زبان بنادیا گیا تو اردو پر بھی ایک مذہب کی زبان ہونے کا ٹھپہ لگ گیا حالانکہ پاکستان میں آج بھی 70 فیصد لوگ پنجابی، سندھی اور پشتو بولتے ہیں، اور اردو صرف مہاجروں کی زبان بن گئی ہے۔ادھر ہندوستان میں بھی تقسیم کے بعد کئی سال تک اردو کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آگیا کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جیسے ہندی ہندوؤں کی زبان نہیں ہے، اسی طرح اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔خوشی کی بات یہ ہے کہ عوام میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ پوری طرح سے نہ تو ہندی ہے نہ ہی اردو، آپ اسے ہندوستانی زبان کہہ سکتے ہیں۔

اردو زبان میں جو کشش ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اردو الفاظ کے معنی یا درست تلفظ جانے بغیر انھیں اپنی روزمرہ کی زبان میں خوب بولتے ہیں اور کبھی کبھی تو بغیر سمجھے ہی اردو زبان کے الفاظ کا لطف بھی لے لیتے ہیں۔اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا چلوں۔ میرے ایک دوست گانا بہت اچھا گاتے تھے ایک بار انھوں نے ایک محفل میں فلم 'وقت' کا مشہور گانا ''اے میری زہرہ جبیں تجھے معلوم نہیں'' گایا اور پھر جب وہ داد حاصل کر چکے اور میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو میرے کان میں انھوں نے کہا ''بھائی شمسی زہرہ جبیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟'' تو مجھے بہت ہنسی آئی میں نے کہا ''اتنے برس سے گانا گا رہے ہو اور زہرہ جبیں کا مطلب نہیں معلوم؟'' تو انھوں نے بہت خوبصورت جواب دیتے ہوئے کہا ''اردو زبان کی یہی تو خوبی ہے کہ اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے لیکن سننے میں بھلے لگتے ہیں۔'' پھر میں نے ان کو بتایا کہ وینس نام کے اس ستارے کو اردو میں زہرہ کہتے ہیں جس کو روم والے محبت کی دیوی کے طور پر پوجتے تھے اور جبیں پیشانی کو کہتے ہیں۔ زہرہ جبیں کا مطلب ہوا محبت کی دیوی جیسی چمکتی ہوئی پیشانی رکھنے والی حسینہ۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے ہندی جاننے والے حضرات کو زہرہ جبیں کا مطلب اس کتاب سے ہی معلوم ہوا ہوگا جبکہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ گانا سنتے چلے آرہے ہیں۔

اس قصے سے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اردو کے بہت سے الفاظ کو ہندستانی روز بولتے تو ہیں لیکن ان کے حقیقی معنی سے واقف نہ ہونے کے باعث ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بہت دن سے میرے دل میں یہ خیال آرہا تھا کہ اردو کے صحیح الفاظ، ان کا صحیح مطلب اور تلفظ ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں جو اردو رسم الخط کو پڑھ نہیں پاتے۔ایسے ہی لوگوں کے لیے میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی

ہے۔ یہاں پر کہتا چلوں کہ کسی چھوٹی سی کتاب میں اردو کے ان تمام الفاظ کو سمیٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے جن کا غلط تلفظ ادا کیا جاتا ہے یا جن کے صحیح معنی لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ لہذا اس کتاب میں صرف وہی الفاظ سامل کیے گئے ہیں، جو روزمرہ کی بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اردو الفاظ سے وابستہ کچھ اہم معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ر غلط بولے جانے والے الفاظ پر کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اردو کے کچھ ایسے الفاظ بھی پیش کر رہا ہوں جن کے غلط تلفظ یا غلط استعمال سے نہ صرف ان کا مطلب بدل جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔

حروف کی بات

میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اردو کئی مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے۔ اردو میں بہت سے حروف ایسے ہیں جو اس نے سنسکرت، عربی اور فارسی سے لیے ہیں، لیکن آگے بات کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہندی اور انگریز ی پڑھنے والے طالب علموں کو اردو کے کچھ الفاظ بولنے میں اس لیے دقت ہوتی ہے کہ اردو میں بہت سارے ایسے حروف موجود ہیں جو ہندی اور انگریز ی کے حروف تہجی میں نہیں ہیں۔ ان میں خصوصاً خ، ذ، ز، ژ، ض، ظ، ف، ق اور غ سامل ہیں۔ ہندی اور اردو سے محبت کرنے والوں نے اس کا یہ حل نکالا کہ ان حروف کے نیچے نقطہ لگایا جانے لگا جس کی وجہ سے اردو کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا (ہندی بولنے والے لوگوں کے لیے) آسان ہو گیا، لیکن گزشتہ چند برسوں سے ہندی کے کچھ نامور لوگوں نے ہندی حروف کے نیچے سے نقطہ ہٹانا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کچھ الفاظ کے نہ صرف معنی بدل جاتے ہیں بلکہ کئی معاملات میں تو بالکل الٹے ہو جاتے ہیں، جیسے ذلیل لفظ کو ہم اگر بغیر نقطے کے پڑھتے رہیں تو، اس کو جلیل پڑھنا پڑے گا۔ جبکہ جلیل کا مطلب بڑا یا اعلیٰ ہوتا ہے اور ذلیل کا مطلب ہے حقیر یا گرا ہوا، یعنی نقطے کو ہٹانے سے، ایک حقیر شخص فوراً ہی اعلیٰ ہو جائے گا۔

اردو زبان کی اپنی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں अ کی آواز نکالنے والے تین حروف ہیں الف، الف مد ہمزہ اور عین۔ اسی طرح ह کی آواز والے تین حروف ہیں، بڑی ح، چھوٹی ہ اور دو چشمی ھ۔ اسی طرح स کی آواز والے بھی تین حروف ہیں ث، س اور ص۔ ज़ کی آواز کے لیے چار حرف ہیں ذ، ز، ض اور ظ۔ خاص بات یہ ہے کہ ہر حرف سے شروع ہونے والے لفظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ اردو میں ऊ اور उ نہیں ہیں، ان دونوں حروف کی ادائیگی کے لیے الف اور واؤ یا عین اور واؤ کو ملا کر لکھا

جاتا ہے۔، لیکن ہم اردو رسم الخط سے نابلد لوگوں کو اس میں الجھانا نہیں چاہتے اور ہم صرف ان الفاظ کا درست تلفظ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک عام ہندوستانی روز بولتا ہے۔اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اردو لکھی تو جاتی ہے Persio- Arabic (عربی / فارسی) سکرپٹ میں لیکن کوئی شخص اگر صرف عربی یا فارسی پڑھ سکتا ہے تو وہ اردو پڑھ لے گا یہ ضروری نہیں کیونکہ اردو نے عربی سے 28 حروف لیے ہیں تو فارسی سے چ، پ، گ، ژ، اور ی جیسے حروف لیے ہیں اور سنسکرت سے ट , ड, ड़, ढ़, ढ جیسے حروف تہجی کو لے لیا ہے، مگر کچھ آوازیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے نئے حروف بنانے کے بجائے اردو والوں نے دو حروف کو جوڑ کر لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا جیسے ख (ک+ھ= کھ) घ (گ+ھ= گھ) छ (چ + ھ = چھ) झ (ج + ھ = جھ) ठ (ٹ +ھ=ٹھ) थ (ت+ھ=تھ) (پ+ھ=پھ) اور भ (ب+ھ=بھ)

کچھ غلط بولے جانے والے الفاظ

خلاصہ=اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے مختصر یا چھوٹا کرنا لیکن ہمارے صحافی عام طور پر اس لفظ کو انکشاف یا بھید کھلنے یا پھر توسیع کیے جانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جو غلط ہیں۔

جذبات=اردو لفظ جذبہ کی جمع ہے جذبات لیکن بہت سے لوگ 'جذباتوں' کہہ کر اس کی جمع الجمع بنا دیتے ہیں جو غلط ہے۔

احساس=اسی طرح اردو میں ایک لفظ ہے احساس، جس کی جمع احساسات ہے لیکن بہت سے لوگ اس کو احساسوں کہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔

تمام=اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پورا، مکمل یا سب کا سب، لیکن بہت سے لوگ اس کو کچھ یا کئی کے معنی میں استعمال کرنے لگے ہیں، جو غلط ہے

لفظ=لفظ کی جمع الفاظ ہے مگر ہمارے کچھ دوست اس کو بھی جمع الجمع بنا کر ' الفاظوں' کہتے ہیں جو غلط ہے۔

خودکشی یا گاؤکشی=اردو میں، کش کا مطلب ہوتا ہے مارنا یا قتل کرنا جبکہ کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لہٰذا خودکشی یا گاؤکشی کہنا غلط ہے یعنی جب کوئی حقّہ پیے گا تو اس کو حقّہ کشی کہیں گے یا جب کوئی رسہ

کھینچنے کے مقابلے میں حصہ لے گا تو اس کو رسّہ کشی کہیں گے، لیکن قتل کرنے یا مارنے کے لیے کشی کا لفظ استعمال کریں گے جیسے خود کشی۔

ایک بات اور کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اردو حروف کے نیچے نقطہ لگانے کو لے کر زیادہ پر جوش ہیں وہ کبھی کبھی لفظ کو بگاڑ دیتے ہیں، مثال کے طور پر پھر کو فریا جاوید کو زاوید، کھانے کو خانے، پھل کو فل، سباپ کے پھن بیگم فق ؛یع م کریم کو فریم اور جناب کو ذناب کرنے والے محبان اردو بھی یہاں کم نہیں ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہر لفظ میں نقطہ لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ کمال تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ پھول کو بھی فول کہتے ہیں جبکہ سب جانتے ہیں کہ گل کو پھول اور بے وقوف کو فول کہتے ہیں۔

نقطہ لگاتے وقت اگر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے تو وہیں نقطہ ہٹاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کیونکہ نقطہ ہٹ جانے سے بھی الفاظ کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں، اگر ہندی میں خانا لکھتے وقت نقطہ ہٹا دیا جائے تو وہ خانا نہ ہو کر کھانا ہو جائے گا۔ نقطہ ہٹنے سے لوہے پر لگنے والے زنگ اور میدان میں لڑی جانے والی جنگ میں امتیاز کرنا ممکن نہیں رہے گا۔

اسی طرح ہندوستان میں احتجاج کرنے کے لیے ایک لفظ 'خلافت' بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ خلاف سے بنا ہے، جبکہ خلافت اسلامی نظام حکومت کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ کسی کے خلاف کوئی بات کہنے کو مخالفت کہا جانا چاہیے۔ ہمارے بہت سے سیاستداں اور قائد حضرات ذمہ داری کو ذمہ واری کہتے ہیں جو غلط ہے جس طرح چوکیداری لفظ کو ہم چوکیواری نہیں کہہ سکتے اسی طرح ذمہ داری کو بھی ذمہ واری نہیں کہہ سکتے۔

اردو کے کئی الفاظ میں اضافت لگانے کا چلن ہے جیسے کہ شہرِ دلّی، عہدِ قدیم، لذتِ لکھنؤ، استادِ فن اور کلامِ ساعر وغیرہ، لیکن اضافت صرف ان دو الفاظ کے درمیان لگائی جا سکتی ہے جو فارسی زبان سے لیے گئے ہوں مثال کے طور پر ہم راہِ عام تو کہہ سکتے ہیں سڑکِ عام نہیں کہہ سکتے، ہاں ہم اسے عام سڑک البتہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح فلم اسٹار کو فلمی ستارہ تو کہا جا سکتا ہے ستارۂ فلم نہیں۔ اسی طرح اپنی حکومت کو ہم حکومتِ ہند تو کہہ سکتے ہیں مگر حکومتِ بھارت نہیں کہہ سکتے، بھارتی حکومت البتہ کہا جا سکتا ہے۔

ایک اور اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اردو میں ई کے لیے چھوٹی 'ی' کا حرف استعمال ہوتا ہے جس کو یائے نسبتی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کر کے ہم لکھنؤ

والے کو لکھنوی، گجرات والے کو گجراتی، بھوپال والے کو بھوپالی اور پنجاب والوں کو پنجابی لکھتے ہیں لیکن کسی شہر یا مقام کے ںام کے آحر میں اگر 'ی' یا 'الف' لگا ہو تو ہمیں تعلق کا اظہار کرنے کے لیے 'و' اور 'ی' دونوں کا استعمال کرںا پڑںا ہے۔ اسی سبب سے دہلی والوں کو ہم دہلوی اور ہریانہ والوں کو ہریانوی، تھانے والے کو تھانوی اور چندولی والے کو چندولوی کہتے ہیں۔ ایسے ہی سیکڑوں الفاظ ہیں جو لوگ غلط بولتے ہیں یا پھر ان کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ آحر میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے دو تلفظ رائج ہیں۔ جیسے لکھنؤ والے کھاںرہ کہتے ہیں تو دہلی لکھنؤ والے کناںرہ ... گی کہتے ہیں تو دہلی کے اساںدہ ... گی بولتے ہیں۔ اسی طرح زبان کو زُبان، محبت کو محبّت، محمد کو محمّد اور چراغ کو چِراغ بھی کہا جاںا ہے ان معاملات میں دونوں قسم کے تلفظ کو صحیح ماںا گیا ہے اس لیے ... کی ضرورت نہیں۔

امید ہے کہ اردو کے رسم الخط سے واقفیت نہ رکھنے والے ہندی داں حضرات اس کتاب سے مستفید بھی ہوں گے اور اس کو پسند بھی کریں گے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کتاب میں جو کمیاں اور خامیاں آپ کو نظر آئیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور ای میل کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی زحمت گوارہ کریں۔

شکریہ

شکیل حسن شمسی

ایڈیٹر (مارتھ) روزںامہ انقلاب

سابق ریز یڈنٹ ایڈیٹر روزںامہ راشٹریہ سہارا

سابق کنسلٹنٹ پروڈیوسر لوک سبھا ٹی وی

سابق پروڈیوسر دوردرشن نیوز

سابق کمنٹری رائٹر فلمز ڈویژن آف انڈیا

shakeelhshamsi@gmail.com

उर्दू शब्दावली

अ (ا،ع)

अकेला =(اکیلا) बिना साथी, श्रेष्ठ, बेमिसाल

अक्कासी = (عکاسی) चित्रण, फ़ोटोग्राफ़ी

अकड़ =(اکڑ) घमंड, ग़ुरूर

अक्स =(عکس) प्रतिबिम्ब, छाया, परछाईं

अक्सर=(اکثر) कई बार, अधिकतर, बार बार

अक्सरीयत = (اکثریت) बहु संख्यक

अक़ारिब = (اقارب) रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी

अक़ीक़ा = (عقیقہ) बच्चे का मुंडन, पहली बार बच्चे को गन्जा करना

अक़ीदत = (عقیدت) श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, मन का भरोसा

अक़्द =(عقد) विवाह, गठ बंधन, वचन देना

अक़ब = (عقب) पिछवाड़ा, पीठ पीछे, परोक्ष

अक़्ल = (عقل) बुद्धि, समझ

अक़्लमंदी = (عقلمندی) समझदारी, बुद्धिमानी

अख़बार = (اخبار) समाचार पत्र, खबर का बहु वचन

अख़्तर = (اختر) तारा, सितारा

अगर = (اگر) यदि, खुशबूदार लकड़ी जिससे अगरबत्ती बनती है

अगला = (اگلا) गुज़रा हु आ, पहले का, आने वाला

अचानक = (اچانک) बिना चेतावनी, यक-ब-यक, एकाएक

अचूक = (اچوک) ख़ाली न जाने वाला, जिस में गड़बड़ी असम्भव हो, सटीक

अचकन = (اچکن) शेरवानी जैसा एक वस्त्र

अच्छा = (اچھا) सुशील, गुड, स्वस्थ, हां

अजब = (عجب) अनोखा, विचित्र, उम्दा

अजीब = (عجیب) निराला, हैरान करने वाला, अनोखा, आश्चर्यजनक

अजीरन = (اجیرن) कठिन, दूभर

अजदाद = (اجداد) पुरखे, बाप दादा

अजज़ा = (اجزا) भाग, अंग, हिस्से, टुकड़े

अजल = (اجل) मौत, मृत्यु

अजमल = (اجمل) बहु त सुंदर, सब से सुंदर, पवित्र

अज्र = (اجر) किसी चीज़ का फल, नेक काम का सवाब

अज़ान = (اذان) बांग, नमाज़ के लिए निमंत्रण देना

अज़ाब = (عذاب) पाप की सज़ा, दुःख, मुसीबत, यातना

अज़ीज़ = (عزیز)नातेदार, सम्बन्धी, प्यारा, दिल पसंद

अज़ीम = (عظیم) विशाल, महान, बहुतबड़ा

अज़ीयत = (اذیت)कष्ट, दुःख, तकलीफ़, यातना

अज़दहा = (اژدہا) अजगर, ड्रैगन, एनाकोंडा सांप

अज़्म = (عزم) प्रतिबद्धता, साहस, संकल्प, निश्चय

अज़रा = (عذرا) कुंवारी लड़की, मोती

अज़ल = (ازل) अनादिकाल, सृष्टि के समय से

अज़हा = (اضحیٰ) क़ुर्बानी

अज़हर = (اظہر) अच्छी तरह ज़ाहिर होने वाला

अटारी = (اٹاری) छत के ऊपर बना कमरा

अटाला = (اٹالہ) ढेर, सामान, अंबार

अटूट = (اٹوٹ) मज़बूत , कभी न टूटने वाला

अटकना = (اٹکنا) रुकावट

अटकल = (اٹکل) अंदाज़ा, तुक्का मारना

अटखेली = (اٹکھیلی) खिलंदरा पन, शरारत, शोख़ी

अड़चन = (اڑچن) बाधा, रुकावट, कठिनाई

अड़ंगा = (اڑنگا) बाधा, रुकावट

अता = (عطا) प्रदान करना, इनाम, बख़्शिश

अतीया = (عطیہ) दान, ईनाम, सहायता देना

अत्तार = (عطار) इत्र का व्यापारी, दवा बेचने वाला

अतफ़ाल = (اطفال) बच्चे, (एक वचन है तिफ़्ल)

अतलस = (اطلس) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा

अतश = (عطش) प्यास

अदा = (ادا) ढंग, अंदाज़, नाज़, अभिनय, निभाना, चुकाना, नमाज़ पढ़ना

अदाकार = (اداکار) अभिनेता

अदालत = (عدالت) न्यायालय, कचेहरी

अदालत ए उज़मा = (عدالتِ عظمیٰ) सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय

अदालत ए आलिया = (عدالتِ عالیہ) हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय

अदावत = (عداوت) दुश्मनी

अदू = (عدو) दुश्मन, शत्रु, बुरा चाहने वाले, प्रतिद्वन्द्वी (उर्दू प्रचलित है)

अदब = (ادب) सम्मान, शिष्टाचार, साहित्य

अदना = (ادنیٰ) छोटे दर्जे का, नीच, थोड़ा, कमतर

अदम = (عدم) मौजूद न होना, आस्तित्व न होना

अदल = (عدل) न्याय

अनाज = (اناج) ग़ल्ला, अन्न

अनाप शनाप = (اناپ شناپ) बे सिर पैर की, ऊंट पटांग बात

अनासिर = (عناصر) कई तत्व, पंच तत्व, (एक वचन उंसुर है)

अनोखा = (انوکھا) निराला, अनूठा

अंगारा = (انگارہ) जलता हुआ कोयला, दहकता टुकड़ा

अंगुश्त = (انگشت) उंगली, अंगुली

अंगुश्तरी = (انگشتری) अंगूठी

अंगेज़ = (انگیز) भड़काऊ, बढ़ाने वाला

अंजाम = (انجام) अंत, परिणाम, समापन

अंजुम = (انجم) सितारा

अंजुमन = (انجمن) संगठन, कमेटी, सभा

अनजान = (انجان) अपरिचित, अजनबी,पहले से न देखा हुआ

अंटाग़फ़ील = (انٹاغفیل) गहरी नींद में, नशे में बेहोश

अंदाज़ = (انداز) अनुमान लगाना, हाव भाव, अदा

अंदाज़ा = (اندازہ) अटकल, अनुमान, नमूना

अन्दाम = (اندام) बदन, जिस्म, अंग, शरीर, काया

अंदेशा = (اندیشہ) खटका, फ़िक्र, चिंता, भय

अंदोह = (اندوہ) दुःख, ग़म, चिंता

अंदर = (اندر) भीतर

अंदलीब = (عندلیب) बुलबुल

अंबा = (انبہ) आम (फल) मैंगो

अंबार = (انبار) ढेर

अंबर = (عنبر) समुन्द्र में पाई जाने वाली खुशबुदार बूटी

अपाहिज = (اپاہج) अपंग, चलने फिरने की ताक़त न रखने वाला

अपना = (اپنا) निजी, मेरा, हमारा

अफ़कार = (افکار) विचार, चिंतन, काव्य

अफ़ज़ा = (افزا) बढ़ाने वाला

अफ़्ज़ाइश = (افزائش) बढ़ोतरी

अफ़ज़ल = (افضل) सब से अच्छा, बेहतरीन

अफ़रातफ़री = (افراتفری) खलबली, घबराहट, तहलका, कोलाहल

अफ़रोज़ = (افروز) प्रकाश देने वाला, बढ़ाने वाला, फैलाने वाला

अफ़रोज़ा = (افروزہ) दीप या मोम बत्ती का धागा

अफ़वाह = (افواہ) झूठी ख़बर, बे-बुनियाद बात

अफ़्शा = (افشا) भेद खुल जाना, सामने आ जाना

अफ़्शां = (افشاں) सोने या चाँदी का बुरादा, छिड़कने वाले चमकते कण

अफ़साना =(افسانہ) क़िस्सा, कहानी, लम्बी बात, झूठी घटना, विवरण

अफ़्सुर्दगी = (افسردگی) उदासी, कुम्लाहट, शोभा हीनता

अफ़्सूँ = (افسوں) धोखा, जादू, मन्त्र

अफ़सोस = (افسوس) पछतावा, दुःख, ग़म

अब्द = (عبد) ग़ुलाम, बन्दा, नौकर

अबद = (ابد) अनन्त

अब्बास = عباس शेर, सिंह

अब्र = (ابر) बादल, घटा

अबरक़ = (ابرق) अबरक

अबरू = (ابرو) भवें

अबस = (عبث) बेकार, अकारण

अम = (عم) चाचा

अमान = (امان) सुरक्षा प्रदान करना , पनाह देना

अमां = (اماں) सम्बोधन के लिए प्रयोग होने वाला शब्द(अरे मियां का संक्षिप्त रूप)

अमीर = (امیر) धनवान, सरदार, आदेश देने वाला

अमानत = (امانت) किसी के पास कोई चीज़ रखवाना, धरोहर

अमीन = (امین) भरोसा करने लायक़, ईमानदार व्यक्ति

अम्न = (امن) शांति, सुकून

अम्मां = (امّاں) माता, मां

अम्र = (امر) हुक्म, फरमान, आदेश, कार्य, विषय

अमल = (عمل) कार्य, धंधा, पालन, कार्रवाई

अमला = (عملہ) कर्मचारियों का समूह, स्टाफ़

अयाग़ = (ایاغ) पियाला, जाम, साग़र

अयादत = (عیادت) बीमार को देखने जाना या हाल चाल मालूम करना

अयाल = (عیال) परिवार, बाल बच्चे

अय्यार = (عیار) मक्कार, ठग, चालबाज़, धोखा देने वाला

अय्याश = (عیاش) रंगीन स्वभाव, भोग विलास में लिप्त व्यक्ति

अराज़ी = (اراضی) जमीन, धरती, खेत

अरक़ = (عرق) निचोड़, रस, जूस

अर्ज़ = (عرض) निवेदन, याचना, चौड़ाई

अर्ज़ी = (عرضی) प्रार्थना पत्र, याचिका

अरमान = (ارمان) दिल की तमन्ना, कुछ कर गुजरने का सपना, लालसा, कामना

अर्श = (عرش) आकाश, आसमान

अर्ज़ानी = (ارزانی) सस्ता होना. मंदी, भाव गिर जाना

अरसा = (عرصہ) अवधि, समय, देर

अला = (علا) ऊपर, उंचा, सम्मानित

अलामत = (علامت)चिन्ह, निशान

अलावा = (الاوا) अलाव जलाने की जगह, (हैदरबाद में ईमामबाड़े को आलावा कहते हैं)

अलावा = (علاوہ) अतिरिक्त, सिवा, फ़ालतू (सही शब्द इलावा है)

अलाहेदा = (علیحدہ) अलग, जुदा

अली =(علی) ऊँचा, उच्च पद वाला, मुसलमानों के इमाम व ख़लीफ़ा का नाम

अलक़ाब = (القاب) कई उप नाम या उपाधियाँ (एक वचन है लक़ब

अल्जब्र = (الجبر) बीज गणित

अलफ़ाज़ = (الفاظ) शब्दों (लफ़्ज़ का बहु वचन)

अलबेला = (البیلا) बांका जवान, छैल छबीला

अलबत्ता = (البتہ) बेशक, ज़रूर, एक अन्य पहलू

अल्लाह = (اللہ) ख़ुदा, ईश्वर

अलम = (علم) झंडा, ध्वज, कर्बला के शहीदों की याद में उठने वाला परचम

अलम = (الم) दुख, ग़म, रंज

अवायल = (اوائل) प्रारम्भिक

अव्वल = (اول) प्रथम, पहला

अवाम = (عوام) जनता, आम लोग,(आम्मा का बहु वचनहै)

अशाय्या = (عشایہ) रात्रि भोज, डिनर

अश्क = (اشک) आंसू

अशद = (اشد) बहुत अधिक

अशफ़ाक़ = (اشفاق) नर्मी और प्रेम का व्यवहार, एक मुस्लिम नाम

अश्या = (اشیاء) वस्तुएं

अशरफ़ = (اشرف) बहुत सज्जन, बहुत शरीफ़

अशरफ़ी = (اشرفی) सोने का सिक्का

असा = (عصا) लाठी, डंडा,लकड़ी

असअद = (اسعد) सौभाग्य शाली

असामी = (اسامی) ग्राहक, किसान, पद, नौकरी, धनवान

असासा = (اثاثہ) घर का सामान, परिसंपत्ति

असकरी= (عسکری)फौजी, सेना का

अस्तबल = (اصطبل) घोड़ों का तबेला (इस्तबल)

असद = (اسد) शेर, सिंह

अस्प = (اسپ) घोड़ा

असर = (اثر) प्रभाव, नतीजा

अस्र = (عصر) समय, ज़माना, युग, तीसरा पहर. सूर्यास्त से पहले की नमाज़

असलाफ़ = (اسلاف) पूर्वज, पुरखे, पुराने युग के लोग

असलियत = (اصلیت) सच्चाई, सही विवरण

असली = (اصلی) शुद्ध, वास्तविक, मिलावट रहित

असलहा = (اسلحہ) हथियार

असवद = (اسود) काला पत्थर

असहाब = (اصحاب) साथी, मित्र, (साहिब का बहु वचनहै)

अहद = (عہد) युग, वचन, सौगंध

अहबाब = (احباب) बहु तसे दोस्त , मित्र मंडली

अहमक़ = (احمق) मूर्ख, बेवकूफ़, नासमझ (एहमक़)

अहल = (اہل) योग्य, पात्र, परिवार, मालिक, रहने वाला

आ (آ،ع)

आइन्दा = (آئندہ) फिर कभी, अगली बार, आने वाले समय में

आईन = (آئین) संविधान

आइना = (آئینہ) दर्पण, शक्ल देखने का शीशा

आओ भगत = (آؤ بھگت) खातिरदारी, बढ़िया सा स्वागत

आक़ = (عاق) ख़राब चाल चलन वाले बेटे से बाप का समबन्ध तोड़ना

आक़ा = (آقا) मालिक, स्वामी, पूजनीय व्यक्तित्व

आक़िबत = (عاقبت) भविष्य काल, अंजाम, अंत, आख़िर, प्रलोक

आख़ता = (آختہ) हिजड़ा बनाना

आख़िर = (آخر) अंत, ख़त्म, अंजाम

आख़िरी = (آخری) अंतिम, जिस के बाद कुछ न हो

आख़िरत = (آخرت) परलोक, मृत्यु के पश्चात रहने का स्थान

आख़िरश = (آخرش) आख़िर कार, अंततः

आगाह = (آگاہ) चेतावनी

आग़ा = (آغا) श्रीमान, आक़ा, स्वामी, साहिब

आग़ाज़ = (آغاز) आरंभ, शुरूआत, प्रस्तावना

आग़ोश = (آغوش) गोद, बांहों में भरना

आजिज़ = (عاجز) कमज़ोर,बेबस, निराश, मायूस, परेशान, हताश

आजिल = (عاجل) जल्द बाज़, त्वरित, ब्रेकिंग न्यूज़

अजायबघर = (عجائب گھر) संग्राहलय, म्यूज़ियम

आज़ = (آز) लालच

आज़ा = (اعضا) बदन के हिस्से, हाथ पांव के जोड़

आज़ाद = (آزاد) अपने निर्णय ख़ुद से लेने वाला, स्वतंत्र

आज़ादी = (آزادی) स्वतन्त्रता

आज़ार = (آزار) तकलीफ़, जंजाल, दुःख, बीमारी

आज़िम = (عازم) यात्रा का इरादा करने वाला

आज़ुर्दा = (آزردہ) परेशान, नाराज़, नाख़ुश

आज़म = (اعظم) बहुत बड़ा, महान, विशाल

आज़माना = (آزمانا) जांचना, परखना, इम्तिहान लेना

आज़माइश = (آزمائش) प्रयोग, परीक्षा लेना

आज़ू-बाज़ू = (آزو بازو) आस-पास, इधर-उधर, आजू-बाजू

आड़ा = (آڑا) तिरछा, टेढ़ा, झुका हु आ

आतिश = (آتش) आग, जलन

आतिश बाज़ी = (آتش بازی) पटाखे इत्यादि, आग का खेल

आतिश फ़िशां = (آتش فشاں) ज्वालामुखी

आतो = (آتو) लड़कियों को पढ़ाने वाली शिक्षिका

आदाब = (آداب) नमस्कार, संस्कार, इज़्ज़त करना

आदिल = (عادل) जज, न्याय करने वाला

आदत = (عادت) स्वभाव, चाल चलन, चसका

आदम = (آدم) मनुष्य और प्रथम अवतार या पैग़ंबर

आदमी = (آدمی) आदम का वंशज, पुरुष

आप = (آپ) ख़ुद, अपना व्यक्तित्व, आत्मा, ख़ुदा

आपा = (آپا) अपनी असलियत, सुध-बुध, बड़ी बहन

आपा-धापी = (آپا دھاپی) अपनी अपनी फ़िक्र, ख़ुदग़रज़ी

आपस = (آپس) रिश्ता, नजदीकी, एक दूसरे से नाता

आफ़त = (آفت) आपदा, दुःख, मुसीबत ,बला, तूफ़ान, बाढ़

आफ़ियत = (عافیت) सकुशल, सही सलामत, खैरियत

आफ़ताब = (آفتاب) सूरज, सूर्य

आफ़रीन = (آفریں) प्रशंसात्मक शब्द जैसे वाह वाह

आब = (آب) पानी, जल

आबा = (آبا) पूर्वज

आबाद = (آباد) आदमियों से बसा हु आ, फला फूला, हरा भरा

आबादी = (آبادی) जनसंख्या, बस्ती, रौनक़, चहल पहल

आबिद = (عابد) इबादत (पूजा अर्चना) करने वाला व्यक्ति

आबरू = (آبرو) इज़्ज़त, शर्म, लाज, सम्मान

आबला = (آبلہ) छाला या फफोला

आरा = (آرا) सजाने वाला, आयोजक, लकड़ी काटने का यंत्र

आरास्ता = (آراستہ) सजा हु आ

आराम = (آرام) सुख, चैन, दर्द अथवा पीड़ा से छुटकारा मिलना

आरिज़ = (عارض) गाल, रुख़सार

आरिज़ा = (عارضہ) बीमारी, रोग

आरिफ़ = (عارف) अल्लाह वाला व्यक्ति, ब्रह्मज्ञानी, जिसने ईश्वर को पहचान लिया, ध्यानी

आरी = (عاری) तंग हाथ, निर्धन, खाली

आरी = (آری) लकड़ी काटने का छोटा यंत्र, चांदी के तारों से कढ़ाई का काम

आरज़ू = (آرزو) तमन्ना, ख्वाहिश, पाने की तलब

आर-पार = (آر پار) यह किनारा वह किनारा, पारदर्शी

आरसी = (آرسی) दर्पण, आइना, हाथ में पहना जाने वाला ज़ेवर

आश = (آش) दाल, दलिया, खाने की पतली वस्तु

आशिक़ = (عاشق) प्रेमी, बेफ़िकरा, मदहोश, मर मिटने को तैयार

आशुफ़्तगी = (آشفتگی) परेशानी, बदहवासी

आशूर = (عاشور) मोहर्रम की दस तारीख़, इमाम हु सैनकी शहादत का दिन

आशोब = (آشوب) झगड़ा फसाद, हंगामा, बखेड़ा, बलवा

आशकार = (آشکار) राज़ खुल जाना, स्पष्ट होना

आश्ती =(آشتی) संधि, दोस्ती, मेल मिलाप, शांति

आशना = (آشنا) जान पहचान वाला, दोस्त, बॉय फ्रेंड

आस = (آس) आशा, उम्मीद, आसरा

आसाब = (اعصاب) मस्तिष्क से शरीर में जाने वाली नसें

आसार = (آثار) दीवार की चौड़ाई, लच्छन, आधार शिला, तौर तरीक़े

आसान = (آسان) सहल, सहज, बिना कठिनाई

आसिम = (عاصم) बचाने वाला, निगाह रखने वाला

आसी = (عاصی) पापी, गुनाहगार

आसूदा = (آسودہ) संतुष्ट, खुशहाल, सुखी, धनवान

आसेब = (آسیب) भूत प्रेत

आस्ताना = (آستانہ) चौखट, दरवाज़ा, सूफी संतों की दरगाह

आस्तीन = (آستین) क़मीज़, शेरवानी कुर्ते या कोट की बांह

आसमान = (آسمان) आकाश, गगन

आन-बान = (آن بان) ठाठ बाट, शान

आँचल = (آنچل) दुपट्टे का सिरा, ओढ़नी का पल्लू

आंधी = (آندھی) तेज़ हवा के झक्कड़

आँख = (آنکھ) नेत्र

आंगन = (آنگن) अंगनाई

आंसू = (آنسو) आँख से बहने वाला पानी

आम = (عام) सार्वजनिक , जनता के प्रयोग हेतु

आम = (آم) आम का फल, मैंगो

आमाज = (آماج) निशाना

आमादा = (آمادہ) राज़ी होना, तैयार होना

आमिर = (آمر) तानाशाह, डिक्टेटर

आमिर = (عامر) बसाने वाला, आबाद करने वाला

आमेज़िश = (آمیزش) मिलावट, मिश्रण

आमोख़्ता = (آموختہ) पिछला सबक़, पढ़ा हुआ, याद किया हुआ

आमोज़िश = (آموزش) पढ़ाना, सिखाना, शिक्षा देना

आमद = (آمد) आना या कोई नया विषय या विचार मन में उठना

आमद ओ रफ़्त = (آمد و رفت) आना जाना

आमदनी = (آمدنی) आय, लाभ

आल = (آل) परिवार, औलाद
आला = (اعلیٰ) उच्च, बहुत बुलंद
आला = (آلہ) उपकरण, यन्त्र, डाक्टर का स्टेथोस्कोप
आलाम = (آلام) दुःख दर्द (इसका एक वचन है अलम)
आलिम = (عالم) बहुत शिक्षित, विद्वान
आली = (عالی) ऊँचा, सम्मानीय, आदरणीय
आलम = (عالم) विश्व, संसार, दुनिया, हालत, ढंग, दशा
आलमी = (عالمی) अन्तर्राष्ट्रीय
आलमगीर = (عالمگیر) विश्वव्यापी
आवा = (آوا) कुम्हार की भट्टी, ईंटों का भट्टा
आवारा = (آوارہ) परेशान हाल , मारा-मारा फिरने और ख़राब चाल-चलन वाला व्यक्ति
आवाज़ = (آواز) ध्वनि
आवेज़ां = (آویزاں) दीवार पर लटका हुआ या टंगा हुआ
आह = (آہ) दुःख व्यक्त करने वाला शब्द , हाय
आहिस्ता = (آہستہ) धीमे, धीरे, नर्मी
आहू = (آہو) हिरन, मृग
आहट = (آہٹ) किसी के आने का पता चलना क़दमों की चाप, हल्की सी ध्वनि
आहन = (آہن) लोहा
आयद = (عاید) उल्ट पड़ना
आयत = (آیت) निशान, कुरआन शरीफ़ का एक वाक्य

इ (ای)

इकराम = (اکرام) इनाम, पुरस्कार, सम्मान
इकलौता = (اکلوتا) अपने माँ बाप का अकेला बेटा
इक़ामा = (اقامہ) निवास करने का अनुमति पत्र, निवास स्थान
इक़बाल = (اقبال) भाग्य, दौलत, प्रताप
इक़बाल-ए-जुर्म = (اقبال جرم) अपना अपराध स्वीकार करना
इक़्तिबास = (اقتباس) संकुचित, अंश, चुना हुआ कलाम
इक़्तिदार = (اقتدار) सत्ता, अधिकार, शक्ति
इक़्तिसाद = (اقتصاد) अर्थ व्यवस्था
इक़दाम = (اقدام) क़दम उठाना, एक्शन
इख़्तिताम = (اختتام) समापन

इख्तिलाज = (اختلاج) दिल घबराना, तेज़ धड़कन की बीमारी

इख़्तिलाफ़ = (اختلاف) असहमत होना, विरोध, अनबन, अलग राय

इख़्तियार = (اختیار) अधिकार, क़ाबू , अनुमति, मर्ज़ी

इख़राजात = (اخراجات) ख़र्चे , व्यय

इख़्लास = (اخلاص) निष्ठा, वफ़ा, बिना ग़रज़ के मिलना मिलाना, ख़ुलूस से मिलना

इख़लाक़ =(اخلاق) शिष्टाचार, अच्छा बर्ताव, आओ भगत, उम्दा आदत (अख़लाक़)

इख़लाक़ियात = (اخلاقیات) नीति शास्त्र, नैतिकता, आचार विचार

इग़वा = (اغوا) अपहरण, उठा कर ले जाना, (अग़वा भी प्रचलित है)

इजाबत = (اجابت) कुबूल होना, जवाब मिलना, मल मूत्र

इजारा = (اجارہ) क़ब्ज़ा, एकाधिकार, स्वामित्व

इजाज़त = (اجازت) अनुमति, आज्ञा

इज्तिमा = (اجتماع) भीड़, बड़ा जलसा, मजमा

इज्तिनाब = (اجتناب) पहलू बचाना. किनारा करना, उपेक्षा

इजरा = (اجراء) जारी करना, विमोचन

इजलास = (اجلاس) जलसा, आम सभा , दरबार, मीटिंग, सेशन

इजमा = (اجماع) सहमति, एक जुटता

इज़्न = (اذن) अनुमति

इज़ाफ़ा = (اضافہ) वृद्धि, बढ़ोतरी

इज़ार = (ازار) शलवार, पैजामा

इज़ार बंद = (ازاربند) कमर बंद, डोरी, नाड़ा

इज़्दिहाम = (ازدحام) बड़ी भीड़, बड़ा जन समूह

इज़्दिवाज =(ازدواج) शादी, निकाह

इज़्तिराब = (اضطراب) घबराहट, बेचैनी, बौखलाहट

इज़्मिहलाल = (اضمحلال) काहेली, सुस्ती, उदासी

इज़्ज़त =(عزت) सम्मान, आदर

इज़्हार = (اظہار) खोलना, ज़ाहिर करना, बयान देना

इताअत = (اطاعت) आज्ञाकारिता, सेवा

इताब =(عتاب) क्रोध, क़हर

इत्तिहाद = (اتحاد) एकता

इत्तिलअ = (اطلاع) सूचना

इत्तेफ़ाक़ = (اتفاق) अचानक, संजोग, एकता, विचारों का संगम

इतलाक़ = (اطلاق) लागू होना

इत्मीनान = (اطمینان) संतोष,

ढारस, चैन, दिलासा

इत्र = (عطر) ख़ुशबू, महक, फूलों का निचोड़

इदारत = (ادارت) सम्पादन

इनआम = (انعام) पुरस्कार, भेंट सम्मान

इनान = (عنان) लगाम

इनायत = (عنایت) कृपा

इंकार = (انکار) **खंडन,** नकारना

इन्किशाफ़ = (انکشاف) पर्दा हटना, भेद खुलना, राज़ आम होना, रहस्योद्घाटन**,** खोलना

इंक़िलाब = (انقلاب) क्रांति, परिवर्तन

इन्ज़िमाम = (انضمام) विलय

इन्तिबाह = (انتباہ) चेतावनी, वार्निंग

इन्तिख़ाब = (انتخاب) चुनाव, पसंद, इलेक्शन

इन्तिसाब = (انتساب) किसी के नाम समर्पित करना

इन्तिज़ाम = (انتظام) प्रबंध

इन्तिज़ामिया = (انتظامیہ) प्रशासन, प्रबंधन समिति

इंतिक़ाल = (انتقال) देहांत, दूसरी जगह प्रस्थान कर जाना

इन्तिक़ाम = (انتقام) बदला

इंतिहा = (انتہا) अति, आख़री, अंतिम

इंसानियत = (انسانیت) मानवता

इन्साफ़ = (انصاف) न्याय

इन्फ़िरादी = (انفرادی) व्यक्तिगत

इन्हिदाम = (انہدام) ढाना, गिरना, बरबाद करना

इफ़्तार = (افطار) रोज़ा खोलना

इफ़्तिताह = (افتتاح) उद्घाटन, शुरू करना, शुभारम्भ

इफ़्तिख़ार = (افتخار) गौरव

इफ़्तिरअ = (افترا) तोहमत, बोहतान, इलज़ाम लगाना

इफ़्तिराक़ = (افتراق) जुदाई, फूट

इफ़रात = (افراط) किसी चीज़ की मात्रा या समूह की संख्या बढ़ जाना

इफ़राते ज़र = (افراطِ زر) मुद्रा स्फीति

इफ़रीत = (عفریت) भूत प्रेत, राक्षस

इफ़लास = (افلاس) ग़रीबी, निर्धनता, धन की तंगी

इब्तिदा = (ابتدا) शुरुआत, प्रथम

इब्लीस = (ابلیس) शैतान का असली नाम

इबादत = (عبادت) पूजा, अर्चना, बन्दगी, नमाज़ पढ़ना

इबारत = (عبارت) गद्यांश, आलेख, दिल की बात

इबरत = (عبرت) किसी की दशा से सीख लेना, अपने साथ वैसा होने की आशंका

इमारत = (امارت) धनवान, सरदारी, हुकूमत

इमारत = (عمارت) भवन, बिल्डिंग

इमाम = (امام) पेशवा, धार्मिक नेता, नमाज़ पढ़ाने वाला

इमामबाड़ा = (امام باڑہ) इमाम के रहने की जगह, इमाम हुसैन की याद में बने भवन

इमामिया = (امامیہ) मुसलमानों का वर्ग जिसको शियअ (शिया) भी कहते हैं

इमकान = (امکان) सम्भावना, मजाल, क़ाबू

इम्तियाज़ = (امیاز) तमीज़, वरीयता, भेद-भाव, फ़र्क़ करना

इम्तिहान = (امتحان) परीक्षा

इमदाद = (امداد) सहायता मदद

इमरान = (عمران) आबादी, हज़रत मूसा के पिता का नाम

इमला = (املا) बोल कर लिखवाना

इम्लाक = (املاک) जायदाद, प्रापर्टी

इरादा = (ارادہ) ठानना, मन में आई इच्छा, भविष्य की कोई योजना

इर्तिकाब = (ارتکاب) कोई अच्छा या बुरा काम करना

इर्दगिर्द = (اردگرد) चारों ओर, आस-पास

इरशाद = (ارساد) फ़रमाना, हुक्म देना, किसी की बात सुनने की फ़रमाइश

इलाक़ा = (علاقہ) क्षेत्र

इलाज = (علاج) उपचार, रोग का निदान

इलाही = (الٰہی) अल्लाह का, अल्लाह को पुकारना

इलावा = (علاوہ) अतिरिक्त, सिवा, फ़ालतू (अलावा भी प्रचलित है)

इलज़ाम = (الزام) आरोप

इल्तिजा = (التجا) निवेदन, याचना, गुज़ारिश

इल्तिमास = (التماس) दरखास्त, निवेदन, प्रार्थना

इल्म = (علم) ज्ञान, शिक्षा, जानकारी, मालूम होना

इशा = (عشا) रात का अँधेरा, रात की नमाज़

इशाअत = (اساعت) प्रकाशन, एडिशन

इशारा = (اسارہ) आँख या हाथ से किसी चीज़ को दिखाना या बताना

इश्तिबाह = (اشتباہ) शक होना

इश्तिहार = (اشتہار) विज्ञापन

इश्तियाक़ = (اشتیاق) शौक़, तमन्ना, आरज़ू

इश्क़ = (عشق) प्रेम, मोहब्बत, चाहत

इशरत = (عشرت) ख़ुशी, ऐश

इस्क़ात = (اسقاط) गिराना

इस्क़ात हमल = (اسقاط حمل) गर्भ-पात या पेट में शिशु का मर जाना

इस्तेहसाल = (استحصال) शोषण

इस्तेद्लाल = (استدلال) दलील देना

इस्तेताअत = (استطاعت) शक्ति, ताक़त, पहुँच

इस्तेमार = (استعمار) साम्राज, किसी देश को ग़ुलाम बनाना

इस्तेग़ासा = (استغاثہ) फरयादी, इन्साफ चाहने वाला पक्ष, अभियोग

इस्तिक़बाल = (استقبال) स्वागत, अगवानी

इस्तिलाह = (اصطلاح) साहित्य या विज्ञान में प्रचलित कोई विशेष संज्ञा

इस्तरी = (استری) कपड़ों पर प्रेस करना, प्रेस करने वाला यन्त्र

इस्तवार = (استوار) बराबरी, समतल

इस्बात = (اثبات) सुबूत , पुष्टि करना, साक्ष्य

इस्म = (اسم) नाम,वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, जगह या जानवर की पहचान हो

इसमत = (عصمت) आबरू, पवित्र, पाक दामन, पाप से दूर

इस्लाम = (اسلام) सर झुकाना, आज्ञाकारिता, मुसलमानों का धर्म

इहाता = (احاطہ) चार दीवारी, प्रांगण, कैंपस

ई (ای)

ईजाब = (ایجاب) स्वीकार करना

ईजाद = (ایجاد) अन्वेषण, नई खोज

ईज़ा = (ایذا) दुःख पहुंचाना, तकलीफ़ देना, यातना

ईंट = (اینٹ) मकान बनाने वाले मिट्टी के पक्के टुकड़े, सोने चाँदी के डले

ईद = (عید) ख़ुशी का दिन

ईदु-उल-अज़हा = (عید الاضحیٰ) क़ुर्बानी वाली ईद (इसे ईदुज़्ज़ुहा भी कहते हैं)

ईद-उल-फ़ित्र = (عید الفطر) सदक़ा (भिक्षा) देने वाली ईद

ईफ़ा = (ایفا) पूरा करना

ईमान = (ایمان) विश्वास, धर्म

ईमानदार = (ایماندار) धार्मिक, सत्य का साथ देने वाला, भरोसेमंद व्यक्ति

ईसाल = (ایصال) पहुंचाना, वसूल करना

उ (او، ع)

उकसाना = (اکسانا) भड़काना, गुस्सा दिलाना

उखड़ना = (اکھڑنا) जड़ से अलग होना, हड्डी टूट जाना, अंतिम सांस, मन न लगना

उगाना = (اگانا) खेती, किसानी

उगालदान = (اگالدان) थूकने का बर्तन, पीकदान

उगाही = (اگاہی) पैसा वसूली

उचकना = (اچکنا) उछलना कूदना, खुश होना, धोखे से छीन कर ले जाना

उचटता = (اچٹتا) आधा अधूरा, निशाने से हटा हु आ

उजागर = (اجاگر) स्पष्ट, साफ़ दिखने वाला

उजाड़ = (اجاڑ) बरबाद, वीरान

उजाला = (اجالا) रौशनी, प्रकाश. सुबह की सफ़ेदी

उजरत = (اجرت) मज़दूरी या परिश्रमिक

उजला = (اجلا) साफ़ सुथरा, धुले हु एकपड़े,बेदाग़ सफ़ेदी

उज़ू = (عضو) शरीर का कोई भी अंग, उज़्व

उज़्र = (عذر) बहाना, क्षमा याचना

उठना = (اٹھنا) चले जाना, खड़े हो जाना, जाग जाना

उड़ना = (اڑنا) हवा में यात्रा, मन ही मन ऊँचाइयों को छूना

उदास = (اداس) दुखी, सूना

उधम = (اودھم) हंगामा शोर गुल, हु ल्लड़

उन्वान = (عنوان) शीर्षक

उप = (اپ) चमक, धार

उफ़ुक़ = (افق) क्षितिज, जहाँ आकाश व धरती मिलते से लगते हैं

उबूर = (عبور) पार करना, किसी विषय की सम्पूर्ण जानकारी

उबूरी = (عبوری) अंतरिम, अस्थाई, हंगामी

उम = (ام) माँ

उम्दा = (عمدہ) बढ़िया, प्रशंसनीय

उमंग = (امنگ) जोश, तरंग, शौक़

उम्मीद = (امید) आशा, आस

उम्मीदवार = (امیدوار) प्रत्याशी

उम्र = (عمر) आयु

उमर = (عمر) मुसलमानों के दूसरे ख़लीफ़ा का नाम

उरूज = (عروج) बुलंदी, शीर्ष, ऊंचाई

उरूस = (عروس) दुल्हन

उरियाँ = (عریاں) नंगा

उर्फ़ = (عرف) उपनाम, पुकारने का नाम

उर्स = (عرس) विवाह प्रतिभोज, किसी सूफ़ी की पुण्य तिथि का

कार्यक्रम

उल्टा = (الٹا) ऊपर से नीचे, औंधा, विपरीत, बायां हाथ

उलझन = (الجھن) चिंता, परेशानी, घबराहट, कशमकश

उलझना = (الجھنا) फंसना, बहस करना, गुत्थी डालना

उल्फ़त = (الفت) प्रेम, मोहब्बत, चाहत

उसूल = (اصول) आदर्श, जड़ें, आधार

उस्ताद = (استاد) सिखाने वाला, एक्सपर्ट

उस्तानी = (استانی) महिला शिक्षक, गुरु मां, उस्ताद की पत्नी

उस्तेख़्वान = (استخواں) हड्डी, गुठली

उस्मान = (عثمان) अजगर का बच्चा, मुसलमानों के तीसरे ख़लीफ़ा का नाम

ऊ (او،ع)

ऊंघना = (اونگھنا) झपकी आना

ऊँचा = (اونچا) बड़ी काठी, बुलंद, हाई

ऊपर = (اوپر) ऊँचा, बड़ा, उच्च, अपर

ऊब = (اوب) दिल भर जाना, उकता जाना

ऊबाश = (اوباش) बदचलन, लुच्चा, लफंगा

ऊल जलूल = (اول جلول) बे ढंगी बात

ऊला = (اولا) पहला, प्रथम

ए (اے،ع)

एका = (ایکا) एकता

एजाज़ = (اعجاز) करिश्मा, चमत्कार

एज़ाज़ = (اعزاز) सम्मान

एतिक़ाद = (اعتقاد) मान्यता, धार्मिक विश्वास, यक़ीन रखना

एतिदाल = (اعتدال) मध्यम , न अधिक न कम

एतिबार = (اعتبار) भरोसा, साख, विश्वास

एतिराज़ = (اعتراض) आलोचना, नुक्ता चीनी, विरोध

एतिराफ़ = (اعتراف) स्वीकार करना, मान लेना

एतिमाद = (اعتماد) विश्वास, भरोसा, यक़ीन

एलान = (اعلان) घोषणा

एलची = (ایلچی) दूत, संदेश वाहक

एवान = (ایوان) हाल, महल, सदन

एवज़ = (عوض) बदला, दंड, एक्सचेंज

एहानत = (اہانت) अपमान

एहकाम = (احکام) आदेश हुक्म का बहु वचन

एहतिजाज = (احتجاج) विरोध, प्रोटेस्ट, प्रतिवाद, आन्दोलन

एहतिमाम = (اہتمام) आयोजित करना

एहतियाज = (احتیاج) ज़रूरत, आवश्यकता

एहतियात = (احتیاط) सतर्कता, बचाव, होशियारी

एहराम = (احرام) हाजियों का विशेष वस्त्र

एहसास = (احساس) भावनाएं, स्पर्श

एहसान = (احسان) अच्छा बर्ताव, बुरे वक़्त में मदद करना

एहवाल = (احوال) हाल चाल, परिस्थिति, हालत

ऐ (اے،ع)

ऐब = (عیب) त्रुटि, बुरी आदतें, दाग़, ख़राबी, रोग

ऐन = (عین) आँख, नेत्र, वास्तविकता, गाय भैंस का थन

ऐनक = (عینک) चश्मा, गॉगल

ऐमन = (ایمن) अच्छा शगून, एक राग का नाम, निडर

ऐश = (عیش) काम वासना, आराम, चैन, सुख

ऐसे = (ایسے) इस तरह से, इस ढंग से

ऐहराम = (اہرام) पिरामिड, मिस्र की एतिहासिक धरोहर

ओ (او،ع)

ओढ़ना = (اوڑھنا) अंग ढंकना

ओहदा = (عہدہ) पद

औ (او،ع)

औक़ात = (اوقات) हैसियत, बिसात

और= (اور) अन्य, अधिक, दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द

औरंग = (اورنگ) आसन, शाही तख़्त

औरत = (عورت) महिला

औलाद = (اولاد) बाल बच्चे

औल-फ़ौल = (اول فول) बेतुकी, उल्टी सीधी बात

औसान = (اوسان) होश, सुध बुध

औसत = (اوسط) मध्य, बीच का, साधारण

क (ک)

कई = (کئی) कुछ, दो चार, अनेक

कगार = (کگار) किनारा, हाशिये पर

कचेहरी = (کچہری) न्यायालय, अदालत

कच्चा = (کچا) अधूरा, आधा पका हुआ

कज = (کج) टेढ़ा पन, तिरछा

कज़्ज़ाब = (کذاب) महा झूठा, झूठों का राजा

कड़ा = (کڑا) कठिन, कठोर, हाथ में पहनने वाली मोटी चूड़ी

कड़ाई = (کڑائی) सख़्ती, दृढ़ता

कड़ाही = (کڑاہی) लोहे का बर्तन

कड़ी = (ی ज़ंजीर का जोड़, कठिन

कड़क = (ک आकाशीय बिजली की आवाज़, रोब

कपकपाना = (کپکپانا)कम्पन्न

कपड़े = (کپڑے) वस्त्र

कदूरत = (کدورت) कपट, मन में दुश्मनी रखना

कनीज़ = (کنیز) दासी

कंक = (کنک) धब्बा, कलंक

कनक = (کنک) गेहूं, सोना, धतूरा

कनकी = (کنکی) चावल का चूरा

कंकर = (کنکر) ईंट,पत्थर का छोटा सा अंश

कनकव्वा = (کنکوا)बड़ी पतंग

कंगाल = (کنگال) निर्धन

कंघा = (کنگھا) बाल सुलझाने का यंत्र

कंघी = (کنگھی) बाल संवारना, बाल सुलझाने वाला छोटा कंघा

कंटक = (ک कंजूस, सियाना, पैसे ख़र्च ना करने वाला

कफ़ = (کف) हाथ, हथेली, पंजा, झाग, फेन, आस्तीन का पहला भाग

कफ़श = (کفش) जूता, चप्पल

कफ़न = (کفن) वह सफ़ेद कपड़ा जो मुर्दे को पहनाते हैं

कबाड़ = (کباڑ) प्रयोग से बाहर होने वाली वस्तुएं, कूड़ा करकट

कबाब = (کباب) भुने या तले हुए मांस की बोटी या टिकिया अथवा सींख़ पर सेंका गया मांस

कबड़िया = (کبڑیا) सब्ज़ी तरकारी बेचने वाला

कम = (کم) थोड़ा, घटिया, ज़रा सा, न्युन

कमान = (کمان) धनुष

कमाना = (کمانا) अर्जित करना

कमाल = (کمال) गुण, कौशल, हुनर, अचंभा, कारीगरी

कमीना = (کمینہ) घटिया, छुप कर वार करने वाला, नीच

कमेला = (کمیلا) जानवर काटने

की जगह, स्लाटर हॉउस

कमख़्वाब = (کمخواب) सोने के तार पिरोया रेशमी कपड़ा

कमज़ोर = (کمزور) निर्बल, कम शक्ति रखने वाला, कच्चा

कमन्द = (کمند) फन्दा

कम्बल = (کمبل) ऊनी लोई

कमर = (کمر) नाभि से नीचे का हिस्सा

क्या = (کیا) कितना, किस मात्रा में, प्रश्न सूचक शब्द

करामत = (کرامت) चमत्कार, अनोखा, करिश्मा

कराहत = (کراہت) घिन, नफ़रत

करिश्मा = (کرشمہ) अनोखी बात, जादू, नाज़ दिखाना

कर्तब = (کرتب) जादू, सैन्य कौशल, हैरान करने वाली कला

कर्ब = (کرب) पीड़ा, दुःख, दर्द

कर्बला = (کربلا) पीड़ास्थल, इमाम हुसैन को समर्पित स्थान, इराक़ का एक नगर

करगस = (کرگس) गिद्ध

करम = (کرم) दया, कृपा, मेहरबानी, दान, पुण्य

करम कल्ला = (کرم کلا) बंद गोभी

करवट = (کروٹ) एक तरफ़ मुंह कर के लेटना, परिवर्तन, क्रांति, ढंग

कल = (کل) गुज़रा हुआ दिन, आने वाला दिवस, चैन

कलाम = (کلام) बोलना, बातचीत, शाएरी

कली = (کلی) बिन खिला पुष्प, कोंपल

कलीद = (کلید) कुंजी

कलीसा = (کلیسا) गिरजा घर, चर्च

कलेजा = (کلیجہ) जिगर, लीवर, हिम्मत

कलमा = (کلمہ) शब्द, बात, क़ौल, इस्लाम स्वीकार करने का वाक्य

कलां = (کلاں) बड़ा, लम्बा

कशी = (کشی) खींचना, दम भरना

कशीदगी = (کشیدگی) तनाव

कशीदाकारी = (کشیدہ کاری) कपड़ों पर कढ़ाई करना

कशिश = (کشش) आकर्षण

कश्कोल = (کشکول) कमंडल, फ़क़ीर का पियाला

कश्ती = (کشتی) नाव, थाली

कसाफ़त = (کثافت) गंदगी, प्रदूषण

कसीर = (کثیر) बहु संख्या, बड़ी तादाद

कस = (کس) व्यक्ति, लोग, कोई, मज़बूत, ज़ोर

कसना = (کسنا) ज़ोर से बांधना, टाइट करना

क्स्ब = (کسب) धंधा, प्राप्त करना

क्स्बी = (کسبی) वेश्या

कसर = (کسر) बचा रह जाना, टुकड़ा, कमी, न्यूनता

कसरत = (کسرت) व्यायाम

कसरत = (کثرت) भीड़, बहुतायत, झुर्मुद, अधिक संख्या में

कहा = (کہا) बोला, वचन, कथन

कहाँ = (کہاں) किधर, किस जगह, दूरी, नहीं, अलग, अंतर

कहीं = (کہیں) किसी जगह, दूसरी जगह, किसी तरफ़, शायद

कहकशां = (کہکشاں) आकाश गंगा

काई = (کائی) हरे रंग की फफूंदी जो जल स्रोतों के किनारों पर जम जाती है

काकुल = (کاکل) सिर के बड़े बड़े बाल आगे की तरफ़ लटके हुए

काख़ = (کاخ) महल, ऊँचा भवन

काग़ज़=(کاغذ) पत्र, पेपर, पर्चा, चिट्ठी

काज = (کاج) काम, बटन लगाने वाला छेद

काजल = (کاجل) चिराग़ की कालक, आँख का सौंदर्य प्रसाधन

काज़िम = (کاظم) गुस्सा पी जाने वाला

कातिब = (کاتب) लिखने वाला

काफ़िर = (کافر) नास्तिक, इन्कार करने वाला, अधर्मी

काफ़ी = (کافی) संतोषजनक, बहुत, अच्छी संख्या, पेय पदार्थ

काफ़ूर = (کافور) खुशबुदार पाउडर, कपूर

काबीना = (کابینہ) मंत्री मण्डल

काबा = (کعبہ) चौकोर, वर्गाकार, मक्के में स्थित मुसलमानों का पवित्रतम धर्मस्थल

कार = (کار) कार्य, धंधा

कारोबार = (کاروبار) व्यापार, पेशा

कारकुन = (کارکن) सदस्य, कर्मचारी

कारकर्दिगी = (کارکردگی) दक्षता

कारख़ाना = (کارخانہ) उद्दोग, फ़ैक्ट्री

कारगाह = (کارگاہ) कर्म स्थली

कारगर = (کارگر) प्रभावी, लाभप्रद, शीघ्र असर करने वाला

कारगुज़ारी = (کارگزاری) चलाकी, होशियारी, आदेश का पालन करना

कारचोब = (کارچوب) कपड़े पर बेल बूटे की कढ़ाई

कारज़ार = (کارزار) युद्ध, जंग

कारबंद = (کاربند) आज्ञा कारी

कारिस्तानी = (کارستانی) शरारत, चालाकी, मक्कारी, किया धरा

कार्रवाई = (کارروائی) काम काज, एक्शन

कारनामा = (کارنامہ) उपलब्धि,

महत्व पूर्ण योगदान

कारवां = (کارواں) यात्रियों का समूह, क़ाफ़िला

काश = (کاش) कोई काम अपनी इच्छा अनुसार होने की उम्मीद

काशाना = (کاشانہ) छोटा सा घर, घोंसला, झोंपड़ी

काशिफ़ = (کاشف) खोलने वाला, बताने वाला

काश्त = (کاشت) खेती बाड़ी, खड़ी फ़स्ल, जोती हुई धरती

कासा = (کاسہ) प्याला, कटोरा

कासा-ए-सर = (کاسۂ سر) खोपड़ी

कान = (کان) सुनने वाला अंग, खदान

काँटा = (کانٹا) शूल,तराज़ू कुंडा

काँच = (کانچ) शीशा

कान्धा = (کاندھا) कंधा, शोल्डर

कांपना = (کانپنا) कम्पन्न, थरथराना

काम = (کام) धंधा, कारोबार, व्यवसाय, कौशल, कारीगरी

कामिल = (کامل) पूरा, समूचा, अध्यात्मिक गुरु

काहिल = (کاہل) काम चोर, आलसी

किफ़ालत = (کفالت) ज़िम्मेदारी, लालन पालन, खर्चा देना, ज़मानत, (कफ़ालत)

किफ़ायत = (کفایت) बचत, कमी

किज़्ब = (کذب) झूठ

किताब = (کتاب) पुस्तक, पोथी

किनारा = (کنارہ) साहिल, अलग होना

किनाया = (کنایہ) इशारा

किब्र = (کبر) बड़ाई, घमंड

किया = (کیا) करना, क्रिया

कियारी = (کیاری) खेत,उपवन या बाग़ में पेड़ पौधे लगाने के लिए बनाया गया स्थान

किराया = (کرایہ) भाड़ा, किसी चीज़ को प्रयोग करने का शुल्क

किरदार = (کردار) चरित्र, नाटक के पात्र

किरदिगार = (کردگار) संसार का रचियता, परमात्मा, परमेश्वर

किवाड़ = (کواڑ) द्वार पट

किश्त = (کشت) खेती

किश्वर = (کشور) देश, मुल्क, सत्ता, राज्य

किस = (کس) कौन

कीड़ा = (کیڑا) रेंगने वाला जंतु, मकोड़ा

कीफ़ = (کیف) झोला, बैग, बटवा

कीना = (کینہ) कपट, ईर्ष्या, जलन

कीमिया = (کیمیا) रसायन विज्ञान, अचूक औषधि, राम बाण

कील = (کیل) लोहे की छोटी सरिया, सांप से बचने का टोटका
कोई = (کوئی) अनजान व्यक्ति, एक आध, लगभग, कुछ, किसी
कोक = (کوک) सिलाई का लम्बा टांका
कोख = (کوکھ) गर्भ
कोड़ा = (کوڑا) चाबुक, हंटर
कोफ़्त = (کوفت) मानसिक पीड़ा, कठिनाई, कूटना
कोठा = (کوٹھا) घर का ऊपरी भाग, नर्तकी का ठिकाना, चकला
कोठरी = (کوٹھری) छोटा सा कक्ष
कोठी = (کوٹھی) सेठ का घर
कोताह = (کوتاہ) छोटा, थोड़ा
कोतवाल = (کوتوال) पुलिस नगर अधिकारी
कोतवाली = (کوتوالی) बड़ा थाना
कोदक = (کودک) लड़का, बच्चा
कोरा = (کورا) बिना इस्तेमाल किया, सादा, साफ़, रूखा
कोर्निश = (کورنش) झुक कर सम्मान
कोंपल = (کونپل) कली, पेड़ पर खिल रही पत्ती
कोल = (کول) खाड़ी, छेद, लम्बा रास्ता
कोशिश = (کوشش) प्रयत्न
कोशी = (کوشی) झेलना
कोस = (کوس) रास्ता नापने का मानदंड, लगभग तीन किमी का फ़ासला
कोह = (کوہ) पहाड़, पर्वत
कोहन = (کہن) पुराना (कुहन)
कोहराम = (کہرام) आफ़त, बहुत से लोगों का रोना, शोर शराबा
कौकब = (کوکب) चमकता तारा
कौड़ी = (کوڑی) बीस, छोटा सा शंख, पुराने ज़माने का सब से छोटा सिक्का
कौन = (کون) दुनिया, जग, संसार, क्या चीज़, परिचय पूछने का शब्द
कौन्दना = (کوندنا) आकाशीय बिजली की चमक व कड़क
कौसर = (کوثر) स्वर्ग के एक तालाब का नाम
कुजा = (کجا) कहाँ, किस स्थान पर
कुतुबख़ाना = (کتب خانہ) पुस्तकालय
कुदाल = (کدال) ज़मीन खोदने वाला औज़ार
कुंज = (کنج) कोना, दरख़तों के साय में बैठने की जगह
कुंजी = (کنجی) चाबी, ताली
कुंडी = (کنڈی) द्वार की ज़ंजीर
कुंद = (کند) धार रहित हथियार, ठस

कुन्बा = (کنبہ) परिवार, घराना, बाल बच्चे

कुन्नियत = (کنیت) वह उप नाम जिसमें औलाद का नाम लगा हो

कुनमुनाना = (کنمنانا) नख़रे दिखाना, बहाना बनाना

कुफ़्र = (کفر) ईश्वर को ना मानना, हट, ज़िद, इंकार

कुमक = (کمک) सैन्य सहायता, मदद

कुम्लाना = (کملانا) मुरझाना, कुम्हलाना

कुर्सी = (کرسی) आसन, गद्दी, चौकी

कुर्रा = (کرہ) गेंद, गोला

कुर्रा ए अर्ज़ = (کرہ ٔ ارض) पृथ्वी, भू मंडल, ग्लोब

कुल = (کل) सब, तमाम, केवल, सिर्फ

कुलचा = (کلچہ) तंदूर में पकने वाली एक विशेष रोटी

कुशा = (کشا) खोलने वाला

कुशादा = (کشادہ) खुला हुआ, फैला हुआ

कुशी = (کشی) मारना, हत्या करना

कुश्त = (کشت) हत्या, ख़ून बहाना

कुश्ती = (کشتی) दंगल, पहलवानों की लड़ाई

कुंवारा = (کنوارہ) जिसकी शादी न हुई हो

कुआँ = (کنواں) जल स्रोत, धरती से पानी निकालने वाला स्थान

कू = (کو) सड़क

कूक = (کوک) कोयल की कू कू की आवाज़

कूड़ा = (کوڑا) कचरा

कूच = (کوچ) प्रस्थान

कूचा = (کوچہ) गली, मोहल्ला, बाज़ार, मुहल्ला

कूचक = (کوچک) नन्हा, छोटा

कूज़ा = (کوزہ) पियाला, डोंगा, पानी पीने का बर्तन

कूटना = (کوٹنا) पीटना, टुकड़े करना

कूंडा = (کونڈا) गहरे थाल जैसा मिट्टी का बर्तन

कूद = (کود) छलांग

कूब = (کوب) पीटना

कूर = (کور) दृष्टि हीन

कूल = (کول) ढलान

केतली = (کیتلی) चाय बनाने का बर्तन

कैफ़ = (کیف) मस्ती, नशा

कैफ़ियत = (کیفیت) हाल चाल, वास्तविकता, रंग ढंग

कैवां = (کیواں) शनी देव, सनीचर

कैसा = (کیسا) किस प्रकार का

कैहाँ = (کیہاں) युग, संसार
कैहल = (کیہل) जब बहुत गर्मी हो, हवा बंद हो, हब्स

क़ (ق)

क़ज़ा = (قضا) मृत्यु, भाग्य
क़ज़िया = (قضیہ) झगड़ा, मामला, तकरार, बखेड़ा
क़ज़्ज़ाक़ = (قزاق) लुटेरा, डाकू
क़तआ = (قطعہ) टुकड़ा, पर्चा, शाएरी का एक रूप
क़ता = (قطع) काट, ढंग, तौर
क़तार = (قطار) पंक्ति, लाइन
क़तील = (قتیل) जिसकी हत्या हुई
क़तरा = (قطرہ) बूँद
क़त्ल = (قتل) हत्या
क़द = (قد) बदन की लम्बाई
क़दग़न = (قدغن) रोक टोक
क़दामत = (قدامت) पुराना होना, पिछला युग
क़दीर = (قدیر) नियन्त्रण रखने वाला
क़दीम = (قدیم) प्राचीन, पुराना
क़दम = (قدم) पांव, पैर, डग, रफ़्तार, चाल, पग, एक्शन
क़द्र = (قدر) सम्मान, दर्जा, अहमियत
क़दर = (قدر) मृत्यु, संख्या, मात्रा
क़दह = (قدح) बुराई, आलोचना, पियाला, जाम
क़नात = (قنات) कपड़े की दीवार, मोटा पर्दा
क़नाअत = (قناعت) जो मिल जाए उसी में ख़ुश रहना, संतुष्टि
क़न्द = (قند) शक्कर, खांड, चीनी
क़फ़स = (قفس) पिंजरा, जाल, फन्दा, बंदी गृह, जेल
क़बा = (قبا) शेरवानी का जैसा पहनावा
क़बाला = (قبالہ) मकान जायदाद के काग़ज़, बैनामा
क़बाहत = (قباحت) बुराई, ऐब, खोट, कठिनाई
क़बीला = (قبیلہ) जनजाति समूह, एक ही वंश के लोग
क़ब्ज़ = (قبض) दबोचना, पकड़ लेना, अपच, मल न होने की शिकायत
क़ब्ज़ा = (قبضہ) क़ाबू, नियन्त्रण, मोठ, दस्ता, द्वार में लगने वाला लोहे का जोड़
क़ब्र = (قبر) समाधि, मृतक का अंतिम पड़ाव, मृत शरीर को दफ़्न करने का स्थान
क़ब्ल = (قبل) पूर्व, पहले, आगे

क़राबत = (قرابت) निकटता, रिश्तेदारी

क़लआ = (قلعہ) वह सुरक्षित और भव्य भवन जिसमें राजा या सेना रहे (क़िला)

क़लअई = (قلعی) बर्तनों पर पालिश, घरों पर सफ़ेदी या रंग करवाना

क़ला क़मा = (قلع قمع) गिराना, तोड़ फोड़, दमन

क़लील = (قلیل) कम, थोड़ा, तनिक

क़लक़ = (قلق) पछतावा, बेचैनी, चिंता, शोक

क़ल्ब = (قلب) हृदय, दिल, मन, केंद्र

क़लम = (قلم) लिखने वाला यंत्र, बुरश, पेड़ की शाखा

क़लन्दर = (قلندر) सांसारिक व धार्मिक बन्धनों से मुक्त इंसान

क़शक़ा = (قشقہ) तिलक, टीका, माथे की भभूत

क़सम = (قسم) सौगंध, वचन, शपथ

क़साई = (قصائی) मांस बेचने वाला

क़मर = (قمر) चंद्रमा, चाँद

क़मीस = (قمیص) शर्ट, कालर वाला कुर्ता, क़मीज़

क़ल्लाश = (قلاش) कंगाल, निर्धन

क़वी = (قوی) ज़ोरदार, कड़ा, मज़बूत, शक्तिशाली

क़व्वाल = (قوال) बहुत बोलने वाला, सूफ़ियाना गीत गाने वाले गायक

क़यादत = (قیادت) नेतृत्व, लीडरी

क़याफ़ा = (قیافہ) शक्ल सूरत, पहचान

क़याम = (قیام) ठहरना, निवास करना, उठ खड़े होना

क़यामत = (قیامت) प्रलय, बला, आफ़त

क़यास = (قیاس) अंदाज़ा लगाना, तुक्के बाज़ी, जाँच

क़रार = (قرار) चैन, विश्राम, धैर्य, वचन, वादा, सहमति, अनुबंध, समझौता

क़रीब = (قریب) पास, निकट

क़रीना = (قرینہ) ढंग, तौर तरीक़ा

क़रौली = (قرولی) एक प्रकार का चाकू, कटार

क़र्ज़ = (قرض) उधार, ऋण

क़हक़हा = (قہقہہ) ठहाका, आवाज़ से या खिल खिला कर हंसना

क़हत = (قحط) सूखा, अकाल, कमी

क़हबा = (قحبہ) वेश्या, बदचलन महिला

क़हबाख़ाना = (قحبہ خانہ) चकला,

रेड लाईट एरिया का मकान

क़हर = (قہر) क्रोध, बला, आफ़त, ग़ज़ब, अंधेर, अंन्याय, गुस्सा

क़ाएद = (قائد) नेता, लीडर

क़ाएदा = (قاعدہ) मौलिक, संविधान, रस्म, क़ानून, उर्दू की पहली पुस्तक

क़ाएल = (قائل) अपनी ग़लती मानने वाला, आश्वस्त

क़ाएम = (قائم) स्थापित, अपनी जगह पर रहना

क़ाज़ = (قاز) प्रवासी पक्षी, सारस, पेंटेड स्ट्रोक इत्यादी

क़ाज़ी = (قاضی) न्यायाधीश, निकाह पढ़ाने वाला मौलवी

क़ातिल = (قاتل) हत्यारा

क़ादिर = (قادر) नियन्त्रण रखने वाला, माहिर

क़ानून = (قانون) देश की न्याय प्रणाली

क़ाफ़ = (قاف) एशिया से योरप को अलग करने वाली पर्वत श्रंखला, उर्दू का अक्षर

क़ाफ़िला = (قافلہ) यात्रियों का समूह, कारवां

क़ाफ़िया = (قافیہ) एक ही अक्षर पर ख़त्म होने वाले शब्द, तुकांत शब्द, पीछे चलने वाला

क़ाब = (قاب) बड़ी थाली या प्लेट

क़ाबिज़ = (قابض) क़ब्ज़ा करने वाला, अधिकार जमाने वाला

क़ाबिल = (قابل) योग्य, ज्ञानी, शिक्षित

क़ाबू = (قابو) नियन्त्रण, अधिकार, ज़ोर, शक्ति

क़ाबूची = (قابوچی) कमीना, स्वार्थी

क़ामत = (قامت) बदन, क़द, डील डौल

क़ारी = (قاری) पढ़ने वाला, पाठक

क़ालिब = (قالب) सांचा, आकार, रूप

क़ालीन = (قالین) ग़ालीचा, ज़मीन या दीवार पर सजने वाली सुंदर दरी

क़ाश = (قاش) फांक, फल का टुकड़ा

क़ासिम = (قاسم) वितरित या खंडित करने वाला, बांटने वाला

क़ासिद = (قاصد) संदेश वाहक

क़ासिर = (قاصر) असमर्थ, लाचार

क़िरअत = (قرأت) पढ़ना, उच्चारण, क़ुरआन का पाठ

क़िरतास = (قرطاس) काग़ज़, कार्यपत्रक, कैन्वेस

क़िन्दील = (قندیل) दीपक को हवा से बचाने का शीशे का कवर

क़िवाम = (قوام) पान में खाई जाने वाली तरल तम्बाकू, शीरा, चाशनी

क़िबला = (قبلہ) सामने की वस्तु, काबे की दिशा

क़िमार = (قمار) जुआ

क़िला = (قلعہ) दुर्ग, राजा या सेना के रहने का स्थान, क़लआ

क़िस्सा = (قصہ) कहानी, घटना का विवरण, कथा, बखेड़ा

क़िस्त = (قسط) टुकड़ों में भुगतान, ऋण का अंश

क़ीमा = (قیمہ) बारीक काटा गया मांस

क़ीमत = (قیمت) मूल्य, भाव, दर, दाम

क़ीमती = (قیمتی) बहु मूल्य

क़ुरआ = (قرعہ) पर्ची द्वारा नाम निकलना, पांसा फेंकना, लकी ड्रा

क़ुरआन = (قرآن) सब से ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक, मुसलमानों का धर्म ग्रन्थ

क़ुर्क़ी = (قرقی) ज़ब्ती, रोक, बंदिश, अधिग्रहीत

क़ुतुब = (قطب) ध्रुव, धुरी, धरती के दोनों सिरे, पोल

क़ुदरत = (قدرت) प्रकृति, नियन्त्रण, ख़ुदा की शक्ति, ज़ोर, हौसला

क़ुद्स = (قدس) पवित्र, यरोश्लम नगर का अरबी नाम

क़ुफ़्ल = (قفل) ताला

क़ुबूल = (قبول) स्वीकार करना, ग्रहण करना, अपनाना

क़ुर्ब = (قرب) निकटता

क़ुरबान = (قربان) बलि, भेंट, बलिहारी, फ़िदा, निछावर

क़ुर्स = (قرص) टिकिया, दवा की गोली, गोल चीज़, टेबलेट

क़ुल = (قل) सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ार पर होने वाला कार्यक्रम

क़ुली = (قلی) सामान उठाने वाला श्रमिक

क़ुसूर = (قصور) अपराध, ग़लती, भूल, चूक

क़ूव्वत = (قوت) शक्ति, ऊर्जा, ज़ोर

कैंची = (قینچی) कतरनी, कपड़ा काटने का यंत्र

क़ैद = (قید) गिरफ़्तारी, बंदिश, पाबंदी

क़ैस = (قیس) लैला के आशिक़ मजनू का असली नाम

क़ौम = (قوم) राष्ट्र, एक जाति के लोग, नस्ल, ज़ात, गोत्र

क़ौरमा = (قورمہ) घी में भुना गोश्त

क़ौल = (قول) वचन, बोल,सौगंध, एक राग का नाम भी है

क़ौस = (قوس) धनुष, कमान

क़ौस ए क़ज़ह = (قوس قزح) इन्द्र धनुष

ख (کھ)

खड़ावं = (کھڑاؤں) चरण पादुका

खड़ी = (کھڑی) उठी हुई कच्ची, तैयार, तैरने की एक कला

खटाई = (کھٹائی) कच्चे आम की सूखी फांकें

खटक = (کھٹک) चुभन, टीस

खटका = (کھٹکا) आहट, बिजली का स्विच, आशंका

खटास = (کھٹاس) खट्टा पन

खड़खड़ाहट = (کھڑکھڑاہٹ) सूखे पत्तों की चरमराहट, देगों का आपस में टकराना

खद्दर = (کھدر) करघे पर बुना गया देसी कपड़ा

खंडर = (کھنڈر) टूटे फूटे भवन, बरबाद हो चुके महल या नगर के अवशेष

खनकना = (کھنکنا) झंकार, बजना, सिक्कों की आवाज़

खरा = (کھرا) शुद्ध, मिलावट रहित, साफ़, अच्छा, ईमानदार

खरान्द = (کھراند) मूत्र की दुर्गन्ध

खरिया = (کھریا) सफ़ेद मिट्टी, चाक

खरोचना = (کھروچنا) नोचना, पंजा मारना

खरल = (کھرل) पत्थर का कूंडा जो दवा पीसने के काम आता है

खलबली = (کھلبلی) हलचल, घबराहट, भगदड़, झगड़ा

खाट = (کھاٹ) चारपाई, पलंग

खाना = (کھانا) भोजन, खाद्य

खारी = (کھاری) नमकीन, कसैला

खाल = (کھال) चमड़ा, चर्म, छिलका

खाला = (کھالا) वह धरती जहाँ नाले नालियां बहु तहों

खिचड़ी = (کھچڑی) दाल चावल का भोजन,मिली जुली वस्तुएं, एक त्यौहार

खिचावट = (کھچاوٹ) कसाव, आकर्षण, तनातनी

खिड़की = (کھڑکی) झरोका, छोटा द्वार

खिलाड़ी = (کھلاڑی) किसी खेल दल का सदस्य, बाज़ीगर, मंझा हुआ व्यक्ति

खिलौना = (کھلونا) बच्चों को बहलाने वाली वस्तुएं

खिसकना = (کھسکنا) हट जाना, सरकना, निकल लेना

खिसयाहट = (کھسیاہٹ) खीज मिटाने की कोशिश

खींचा तानी = (کھینچا تانی) पलड़ा अपनी तरफ़ झुकाने की कोशिश, लड़ाई झगड़ा

खीर = (کھیر) चावल, आलू, शकरक़न्द, साबूदाना व दूध से बनी मिठाई

खील = (کھیل) भुना हुआ चावल या अनाज जो भुन कर फूल गया हो, पॉप कार्न

खुड्डी = (کھڈی) टॉयलेट की सीट

खुदाई = (کھدائی) खोदने का काम

खुदरा = (کھدرا) ऊँचा नीचा, खुरदरा

खुरचन = (کھرچن) पतीली में ज़्यादा पक कर चिपकने वाला भोजन, बचा खुचा

खुलना = (کھلنا) बंद न रहना, फट जाना, सामने आ जाना

खुसुर-फुसुर = (کھسر پھسر) काना फूसी, चुपके-चुपके बात करना

खेत = (کھیت) बुआई वाली धरती

खेती = (کھیتی) कृषि, फ़सल, अनाज, किसानी

खोज = (کھوج) तलाश, ढूँढना, ठिकाना

खोट = (کھوٹ) ख़राबी, मिलावट

खोना = (کھونا) गुम करना, गंवाना, भटक जाना, भुलाना

खोपड़ी = (کھوپڑی) सिर की हड्डियाँ

खोपरा = (کھوپرا) सूखा नारियल

खोया = (کھویا) दूध से बना पदार्थ, गुम हुआ, व्यक्ति का लापता होना या वस्तु गुम होना

ख़ (خ)

ख़जालत = (خجالت**)** शर्मिंदगी, पछतावा

ख़ज़ाना = (خزانہ) धन का भंडार, वित्त

ख़त्म = (ختم) समाप्त, अंजाम, अंत

ख़त = (خط) पत्र, सुलेख, निशान, लकीर

ख़ता = (خطا) चूक, ग़लती, जुर्म, अपराध

ख़त्तात = (خطاط) सुंदर लिखाई करने वाला, सुलेख की कला का विशेषज्ञ

ख़तरा = (خطرہ) भय, डर, आशंका

ख़द ओ ख़ाल = (خدوخال) शक्ल सूरत, चेहरा मोहरा, स्वरूप

ख़न्नास = (خناس) बहकाने वाला

ख़ंजर = (خنجر) चाकू, छुरी जैसा हथियार

ख़न्दां = (خنداں) हंसता हुआ, खिला हुआ

ख़न्दक़ = (خندق) गड्ढा, खाई

ख़फ़ीफ़ = (خفیف) हल्का, ओछा, छोटा

ख़बर = (خبر) समाचार, कुशल क्षेम, संदेश, सूचना

ख़ब्त = (خبط) उन्माद, सनक, जुनून, दीवानगी

ख़म = (خم) झुका हुआ, तिरछा पन, बल पड़ना

ख़मसा = (خمسہ) पांच से सम्बंधित, पांच दिन का कार्यक्रम, पांच पक्तियों वाला काव्य

ख़मीर = (خمیر) गुंधे आटे को किसी खट्टी चीज़ से फुलाना, स्वभाव, किण्वित

ख़म्याज़ा = (خمیازہ) सज़ा भुगतना, बदला मिलना

ख़य्यात = (خیاط) दर्ज़ी, टेलर मास्टर

ख़याल = (خیال) विचार, सोच

ख़य्याम = (خیام) तम्बू, ख़ेमा अथवा टेंट बनाने वाला

ख़र = (خر) गधा

ख़राज = (خراج) पेश करना, लगान, महसूल, कर

ख़राब = (خراب) बरबाद, उजाड़, बेकार, बुरा, मस्त

ख़राबात = (خرابات) मधुशाला, जुआ घर, बुराइयों का अड्डा

ख़रीदारी = (خریداری) क्रय, मोल लेना

ख़र्च = (خرچ) लागत, व्यय, उपभोग

ख़रतूम = (خرطوم) हाथी की सूंड, सूडान देश की राजधानी का नाम यही है

ख़ला = (خلا) अंतिरिक्ष, ख़ाली जगह

ख़लासी = (خلاصی) हाई, स्वतंत्रता, छुटकारा, श्रमिक, कुली

ख़लिश = (خلش) खटक, चुभन, क्लेश, झगड़ा

ख़लीज = (خلیج) खाड़ी

ख़लील = (خلیل) सच्चा दोस्त

ख़ल्क़ = (خلق) दुनिया के लोग, जनता

ख़लफ़िशार = (خلفشار) गड़बड़ी, खलबली

ख़लल = (خلل) व्यवधान, बिगाड़, फ़ुतूर

ख़लवत = (خلوت) एकांत

ख़्वान = (خوان) बड़ा थाल

ख़्वांचा = (خوانچہ) छोटा थाल,रेहड़ी फेरी लगाने वालों का थाल

ख़्वांदगी = (خواندگی) साक्षरता

ख़्वानी = (خوانی) पढ़ना

ख़्वाब = (خواب) सपना

ख़्वार = (خوار) अपमानित

ख़्वास्त = (خواست) चाह, विनती, निवेदन

ख़्वाह = (خواہ) चाह, तलब

ख़्वाहर = (خواہر) बहन

ख़्वाहिश = (خواہش) इच्छा, मर्ज़ी

खेश/ख्वेश = (خویش) दामाद, जमाई

ख़स = (خس) सूखी घास, एक खुशबूदार जड़

ख़सारा = (خسارہ) घाटा, हानि, नुक़सान, ख़िसारा

ख़सीस = (خسیس) कंजूस, छोटे दिल वाला

ख़स्ता = (خستہ) घायल, ख़राब, निर्धन, आर्थिक तंगी का शिकार, कुरकुरा

ख़सरा = (خسرہ) गाँव के खेतों की सूची, छोटी चेचक

ख़सम = (خصم) पति, दुश्मन, विरोधी

ख़ाईन = (خائن) भ्रष्ट, बेईमान

ख़ाक = (خاک) धूल, मिट्टी, ज़मीन

ख़ाका = (خاکہ) नक़्शा, ढांचा

ख़ाकिस्तर = (خاکستر) जल कर राख होना

ख़ातिम = (خاتم) समाप्त करने वाला

ख़ातिमा = (خاتمہ) अंत, समापन

ख़ातिर = (خاطر) आओ भगत, किसी के लिए

ख़ाती = (خاطی) अपराधी, ग़लती करने वाला, पापी

ख़ातून = (خاتون) महिला, औरत

ख़ादिम = (خادم) नौकर, सेवक

ख़ान = (خان) सरदार, रईस, पठानों का उपनाम

ख़ाना = (خانہ) घर, निवास स्थान, मकान, शतरंज के मोहरों का स्थान

ख़ानगी (خانگی) घरेलू, घर का, निजी, आपसी

ख़ानदान = (خاندان) परिवार, नस्ल, जाति, फ़ैमिली

ख़ानमा = (خانماں) घर का सामान, धन, दौलत, माल

ख़ानसामां = (خانساماں) रसोईया, बावर्ची, शेफ़, सामान का मालिक या रखवाला

ख़बासत = (خباثت) अपवित्रता, गंदापन, दुष्कर्म, शरारत पूर्ण

ख़बाईस = (خبائث) बुरी वस्तुएं, बुरे काम

ख़ार = (خار) काँटा, शूल

ख़ारिज = (خارج) बाहर, निष्कासित, अलग, निकला हुआ

ख़ाम = (خام) कच्चा, हरा, बोदा, कमज़ोर, अप्रशिक्षित

ख़ामोश = (خاموش) चुप, बुझा हुआ, ध्वनि रहित

ख़ालिद = (خالد) सदा युवा रहने वाला

ख़ालिस = (خالص) शुद्ध, खरा, मिलावट रहित

ख़ाली = (خالی) खोखला, अकेला, सिर्फ़, बेकार, निकम्मा

ख़ाविन्द = (خاوند) पति, मियां

ख़ाशाक = (خاشاک) कूड़ा करकट

ख़ास = (خاص) विशेष, क़रीबी, विश्वास पात्र

ख़िज़ाब = (خضاب) हेयर डाई, बाल रंगने वाला रसायन

ख़िज़ाँ = (خزاں) पतझड़, ख़रीफ़, उजड़ना

ख़िज़्र = (خضر) एक पैग़म्बर, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने अमृत पिया है

ख़िताब = (خطاب) उपाधि, सम्मान, सम्बोधन

ख़ित्ता = (خطہ) धरती का टुकड़ा, क्षेत्र, देश

ख़िदमत = (خدمت) सेवा, नौकरी

ख़िरमन = (خرمن) खलियान, चाँद का हाला

ख़िरक़ा = (خرقہ) फ़कीरों का लिबास, पेवंद लगा लिबास, गुदड़ी, झबला

ख़िलअत = (خلعت) शासक से मिलने वाला अंग वस्त्रम, भेंट

ख़िलक़त = (خلقت) जन्म,प्रकृति

ख़िलाफ़ = (خلاف) विरोध, उल्टा, शत्रु, झूठ

ख़िलाफ़त = (خلافت) उत्तराधिकार, ख़लीफ़ा का पद

ख़िलाल = (خلال) दो वस्तुओं के बीच का फ़ासला, दांत कुरेदने वाली तीली

ख़िश्त = (خشت) ईंट, गुम्मा

ख़ियाबान = (خیابان) बाग़ के बीच से जाने वाला रास्ता

ख़ीरा = (خیرہ) धुंधला, चुंधियाना

ख़ुत्बा = (خطبہ) भाषण, प्रस्तावना

ख़ुद = (خود) स्वयं

ख़ुदा = (خدا) ईश्वर, पालन हार

खुदकार = (خودکار) स्वचालित

ख़ुदकुशी = (خودکشی) आत्म हत्या

ख़ुनकी = (خنکی) हल्की ठंडक, सर्दी, ठंड

ख़ुफ़िया = (خفیہ) छुपा हुआ, गुप्त

ख़ुम = (خم) शराब का मटका, गुंबद

ख़ुमार = (خمار) नशा उतरने का समय

ख़ुर्रम = (خرم) प्रसन्न, हरा भरा

ख़ुरमा = (خرمہ) खजूर, भारतीय हलवाइयों द्वारा बनाई जाने वाली एक मिठाई

ख़ुरदा = (خردہ) टुकड़ा, रेज़गारी, फुटकर, ऐब

ख़ुराफ़ात = (خرافات) बकवास,

बेकार की बात, मिथक (ख़ुराफ़त एक वचन है)

ख़ुरूज = (خروج) निकास, बाहर निकलना, उपद्रव, बग़ावत

ख़ुश = (خوش) प्रसन्न, सहमत, चंगा, भला, हरा भरा

ख़ुश्क = (خشک) सूखा, रूखा फीका, बेमज़ा

ख़ुशनसीब = (خوش نصیب) भाग्यशाली, सौभाग्य

ख़ुलासा = (خلاصہ) किसी घटना, आलेख, या भाषण का संक्षिप्त विवरण

ख़ुलूस = (خلوص) निस्वार्थ, बिना दिखावे का बर्ताव

ख़ुल्क़ = (خلق) आदत, आचरण, सदाचार

ख़ुल्द = (خلد) स्वर्ग, जन्नत

ख़ुस्र = (خسر) ससुर

ख़ुसूसियत = (خصوصیت) विशेषता

ख़ू = (خو) स्वभाव, आदत, ढंग

ख़ून = (خون) रक्त, लहू

ख़ूबी = (خوبی) अच्छाई, गुण, सुन्दरता

ख़ूराक = (خوراک) खाद्य, भोजन, दवा की निश्चित मात्रा

ख़ेमा = (خیمہ) तम्बू, डेरा, शिविर

ख़ैर = (خیر) भलाई, नेकी, सलामती, कुशल

ख़ैरात = (خیرات) दान, पुण्य, भलाईयाँ, (एक वचन है ख़ैर)

ख़ैरीयत = (خیریت)कुशल मंगल, ठीक ठाक

ख़ोद = (خود) लोहे की टोपी, हेलमेट

ख़ोर = (خور) भक्षक, खा लेने वाला

ख़ौफ़ = (خوف) भय, आशंका, डर

ग (گ)

गजरा = (گجرا) फूलों का ज़ेवर

गजनी = (گجنی) ज़मीन, मिट्टी, ढेला

गज़क = (گزک) मधपान के साथ खाने वाली चीज़, गुढ़ और तिल की पट्टी

गज़ीदा = (گزیدہ) डसा हुआ, काटा हुआ

गज़न्द = (گزند) हानि पहुंचना, दुःख, पीड़ा, सदमा

गडमड = (گڈمڈ) मिला जुला, गड़बड़

गडरिया = (گڈریا) चरवाहा, ग्वाला

गड्डी = (گڈی) काग़ज़ की तह, ताश के पत्तों का पैकेट, तरकारी का छोटा ढेर

गड़बड़ = (گڑبڑ) खलबली, अव्यवस्था, झमेला

गप = (گپ) झूठी ख़बर, डींग, बकवास, अफ़वाह

गुपचुप = (گپ چپ) मौन, चुप चाप, चुपके से

गत = (گت) हालत

गदा = (گدا) भिकारी, मांगने वाला

गद्दा = (گدا) रूई का बिस्तर, अटकल बाज़ी

गद्दर = (گدر) अध् पका फल

गद्दी = (گدی) सत्ता, आसन, वाहनों की सीट

गंज = (گنج) गोदाम, ख़ज़ाना, बाज़ार, मंडी, ढेर, बाल गिर जाना

गंजा = (گنجا) वह व्यक्ति जिस के सिर पर बाल न हों

गंदा = (گندہ) दुर्गन्ध पूर्ण, अपवित्र, मैला कुचैला

गँवार = (گنوار) देहाती, अनपढ़, ग्रामीण

गंदुम = (گندم) गेहूं

गबरू = (گبرو) नवयुवक, सजीला जवान

गरज = (گرج) बादल की आवाज़, बिजली कड़कने की आवाज़

गर्द = (گرد) धूल, ख़ाक, फिरने वाला, चक्कर लगाने वाला

गर्दी = (گردی) परिवर्तन, दुर्भाग्य, गश्त, घूमना

गरदूं = (گردوں) आकाश आसमान

गर्दन = (گردن) गला

गरदान = (گردان) दोहराना, बार बार पढ़ना

गर्दिश = (گردش) चक्कर, फेर, परिवर्तन, बदलाव

गर्म = (گرم) जलता हुआ, दहकता हुआ

गर्मा-गर्मी = (گرما گرمی) गुस्सा, तेज़ी, जोश

गर्मी = (گرمی) ग्रीष्म ऋतू, ताप, तेज़ी, जवानी, उमंग

गरेबान = (گریبان) वस्त्र का वह भाग जो गर्दन के नीचे होता है

गला = (گلا) गर्दन के नीचे का भाग,सुर, गरेबान, ख़ूब पक्का हुआ, बोसीदा, कमज़ोर

गल्ला = (گلّہ) झुण्ड, भेड़ बकरी, गाय भैंस का रेवड़, मवेशियों का समूह

गश्त = (گشت) चक्कर काटना, पहरा देना, दौरा

गवाह = (گواہ) साक्षी, मौक़े पर मौजूद व्यक्ति

गहमा-गहमी = (گہما گہمی) चहल पहल, धूम-धाम, रौनक़

गहरा = (گہرا) अथाह, डुबाओ, बहुत, पक्का, गाढ़ा

गहवारा = (گہوارہ) झूला, पालना, हिंडोला

गाऊ = (گاؤ) गाय, बैल

गाऊकुशी = (گاؤکشی) गौ हत्या

गागर = (گاگر) पानी रखने का बर्तन

गाड़ना = (گاڑنا) जमीन में दबाना

गाड़ी = (گاڑی) यात्रा का माध्यम

गाढ़ा = (گاڑھا) मोटा, प्रदूषित, गहरा

गाना = (گانا) गीत, राग, सुर से काव्य पाठ, आलाप

गाँठ = (گانٹھ) जोड़, गठरी, गिरह, बैर

गाम = (گام) क़दम, चलना

गाली = (گالی) अप शब्द

गाव = (گاو) मोटा, बड़ा, जैसे गाव तकिया

गांव = (گاؤں) ग्राम, देहात, किसानों की बस्ती

गाह = (گاہ) स्थान, जगह, समय

गाहे = (گاہے) किसी समय, कभी

गिड़गिड़ाना = (گڑگڑانا) प्रार्थना, बिनती,ख़ुशामद, रहम की भीख मांगना

गिनती = (گنتی) क्रम, संख्या, हाज़री

गिरना = (گرنا) स्तर से नीचे आना, दीवार या छत का बैठ जाना

गिरजा = (گرجا) ईसाईयों का प्रार्थना स्थल, चर्च

गिरां = (گراں) महंगा, अनमोल, भारी, कठिन

गिरानी = (گرانی) महंगाई, भाव बढ़ जाना

गिरामी = (گرامی) वयोवृद्ध, सम्मानित

गिरोह = (گروہ) टोली, मंडली, गुट, चोर/डाकुओं का समूह

गिर्द = (گرد) आस पास, निकटवर्ती

गिर्दाब = (گرداب) भंवर

गिरफ़्तार = (گرفتار) पकड़ा हुआ, बंदी, फंसा हुआ

गिरवी = (گروی) किसी से ऋण लेने के लिए किसी वस्तु को रेहन रखना

गिरह = (گرہ) गाँठ, जेब, जोड़

गिरया = (گریہ) रोना पीटना

गिल = (گل) गीली मिट्टी, कीचड़, गारा

गिलीम = (گلیم) कम्बल, ऊनी कपड़ा

गोदी = (گودی) गोद, किनारा, आंचल, बन्दरगाह का एक भाग

गीला = (گیلا) भीगा हुआ

गुच्छा = (گچھا) समूह, झुरमुट, एक ही शाखा पर बहुत से फल

गुज़ारना = (گزارنا) व्यतीत करना, समय बिताना

गुज़ारा = (گزارہ) निबाह, आर्थिक अंश, पहुंच

गुज़ारिश = (گزارش) निवेदन, प्रार्थना, अर्ज़ी

गुज़ीदा = (گزیدہ) चुना हुआ, पसंदीदा

गुज़ाफ़ = (گزاف) बकवास, डींग

गुज़श्ता = (گزشتہ) पिछला, बीता हुआ

गुटका = (گٹکا) बड़ी गोली, शतरंज का मोहरा, पान मसाला

गुठली = (گٹھلی) बीज, गिल्टी

गुत्थम-गुत्था = (گتھم گتھا) भिड़ंत, लड़ाई में लिपट जाना

गुत्थी = (گتھی) पेंच पड़ना, धागा या डोर उलझ जाना, कठिनाई पैदा होना

गुदाज़ = (گداز) पिघलाने वाला, नर्म, मुलायम

गुदड़ी = (گدڑی) बहुत से पेवंदों वाला वस्त्र, पुरानी चीज़ों का बाज़ार

गुद्दी = (گدی) सिर का पिछला भाग

गुनाह = (گناہ) पाप

गुंबद = (گنبد) भवन की छत पर बना गोलाकार हिस्सा

गुंजाईश = (گنجائش) समाई, क्षमता, बचत, ठिकाना, स्थान

गुंजलक = (گنجلک) बिना प्रेस किया हुआ वस्त्र, सिलवट, गाँठ, उलझन

गुंग = (گنگ) मूक, ज़बान से न बोल सकने वाला

गुफ़्तार = (گفتار) बोल चाल

गुफ़्तगू = (گفتگو) बात चीत, वार्ता, भाषण

गुम = (گم) खोया हुआ, ग़ायब, छुपा हुआ

गुमराह = (گمراہ) भटका हुआ, रास्ता भूलने वाला

गुमान = (گمان) अंदाज़ा, घमंड, शक

गुराज़ = (گراز) शूर वीर

गुरेज़ां = (گریزاں) अनिच्छुक, अलग रहने वाला, बचते हुए

गुरसनगी = (گرسنگی) भूख

गुल = (گل) पुष्प, फूल, बुझना, ग़ायब

गुलिस्तान = (گلستان) फूलों का बाग़, पुष्प स्थल, उपवन

गुलशन = (گلشن) फुलवारी, बाग़, चमन

गुलू = (گلو) हलक़, आवाज़, सुर, गला

गुलूकार = (گلوکار) गायक

गुसार = (گسار) साथ देने वाला

गुस्ताख़ = (گستاخ) मुंहफट, बेशर्म, शोख़, अपमानित करने वाला

गूँजना = (گونجنا) ध्वनि का टकरा कर वापस आना

गूंगा = (گونگا) मूक

गेती = (گیتی) संसार. जग, दुनिया,

धरती

गेसू = (گیسو) सिर के बाल

गोई = (گوئی) बोलना

गोड़ना = (گوڑنا) ख़राब करना, मिटा देना, हल चलाना

गोया = (گویا) बोलने वाला, हू बहू, किसी के जैसा

गोर = (گور) समाधि, क़ब्र, मज़ार

गोरकन = (گورکن) क़ब्र खोदने वाला

गोरा = (گورا) सफ़ेद रंगत वाला, अंग्रेज़

गोल = (گول) चक्करदार, गेंद और हाकी के खेल के दो ख़म्बे जिनमें गेंद फेंकना होती है

गोली = (گولی) दवा की टिकिया, शस्त्र से चलने वाला अस्त्र, गोल रोकने वाला खिलाड़ी

गोश = (گوش) कान

गोशा = (گوشہ) कोना, एकांत, नया बिंदु निकलना

गोश्त = (گوشت) मांस

गोशवारा = (گوشوارہ) हिसाब किताब, संक्षिप्त विवरण, कान का बाला, झुमका

गोसाला = (گوسالہ) गाय का बछड़ा

गौहर = (گوہر) मोती, बहु मूल्यपत्थर

ग़ (غ)

ग़ज़ा = (غزہ) धर्म युद्ध, जिहाद

ग़ज़ाल = (غزال) हिरन, मृग

ग़ज़ब = (غضب) अभिशाप, आपदा, अंधेर, ज़बरदस्ती, बढ़ चढ़ कर

ग़ज़ल = (غزل) महबूब से बात करना, सौन्दर्य की प्रशंसा, उर्दू की लोकप्रिय शायरी

ग़द्र = (غدر) विद्रोह, बलवा, हंगामा

ग़द्दार = (غدار) देश द्रोही, शत्रु से मिल जाने वाला

ग़दीर = (غدیر) तालाब, झील

ग़फ़लत = (غفلت) लापरवाई, भूल चूक, ऊँघ, नींद

ग़बन = (غبن) घपला, घोटाला, धन की हेरा-फेरी

ग़म = (غم) दुःख, चिंता, सदमा, मलाल

ग़मज़ा = (غمزہ) नाज़, नख़रा

ग़म्माज़ = (غماز) इशारा करने वाला, चुग़ल ख़ोर, जासूस

ग़लबा = (غلبہ) हावी होना, जीतना, हमला

ग़लत = (غلط) जो सही न हो

ग़लतान = (غلطاں) लुढ़कता हुआ, लोटता हुआ, गिरता पड़ता

ग़र्ब = (غرب) पश्चिम

ग़नीम = (غنیم) डाकू, लुटेरा, शत्रु

ग़नीमत = (غنیمت) मुफ़्त का माल, शत्रु की सेना से मिला सामान, काफ़ी, उम्दा, क़द्र के क़ाबिल

ग़य्यूर = (غیّور) लाज शर्म और आत्म सम्मान रखने वाला व्यक्ति

ग़रज़ = (غرض) मतलब, आवश्यकता, बस, कथा सार

ग़रक़ाब = (غرقاب) पानी में डूबना

ग़रारा = (غرارہ) पानी से गला साफ़ करना

ग़रीब = (غریب) निर्धन, यात्री, अनजान, परदेसी

ग़रीबख़ाना = (غریب خانہ) अपना घर, झोंपड़ी

ग़श = (غش) अचेत, बेहोश होना

ग़स्ब = (غصب) ज़बरदस्ती हथिया लेना

ग़ायत = (غایت) मतलब, अंत, अंजाम

ग़ाज़ी = (غازی) बहादुर, शूर वीर, जिहादी

ग़ाफ़िल = (غافل) लापरवाह, ध्यान न देने वाला, गहरी नींद सोने वाला

ग़ालिब = (غالب) छा जाने वाला, विजेता, ज़बरदस्त

ग़ालिबन = (غالباً) लगभग विश्वस्त, बहुत संभव होना, संभवता

ग़ाली = (غالی) बढ़ा चढ़ा कर बात करने वाला

ग़ालीचा = (غالیچہ) सुंदर कढ़ाई वाला बिछौना

ग़ासिब = (غاصب) किसी को अधिकारों से वंचित करने वाला, हक़ मार लेने वाला

ग़ायब = (غائب) लुप्त होना, खो जाना, अनुपस्थित

ग़ायबाना = (غائبانہ) पीठ पीछे, परोक्ष, अनुपस्थिति में बात करना

ग़ार = (غار) गड्ढा, गुफा

ग़ारत = (غارت) लूट खसोट, बरबादी, तबाही

ग़ुन्चा = (غنچہ) कली, अधखिला फूल

ग़ुनूदगी = (غنودگی) ऊँघ, कच्ची नींद, नशा

ग़ुबार = (غبار) धूल, गर्द, मिट्टी, दुःख, पीड़ा

ग़ुर्बत = (غربت) निर्धनता, ग़रीबी, परदेस यात्रा

ग़ुरूब = (غروب) सूरज या चाँद का डूबना, पतन, अंत

गुरूर = (غرور) घमंड, अभिमान, अकड़

गुल = (غل) शोर शराबा, हुल्लड़, चीख़म धाड़

गुलाम = (غلام) दास, बंधुवा, खरीदा हुआ व्यक्ति

गुलू = (غلو) बढ़ा चढ़ा कर बताना

गुस्ल = (غسل) स्नान, नहाना

गुस्सा = (غصہ) क्रोध

ग़िज़ा = (غذا) भोजन, खाना, भोग

ग़िना = (غنا) राग रागनी, गाना, गीत, नग़मा

ग़िलाज़त = (غلاظت) गन्दगी, कूड़ा करकट, कचरा, शौच

ग़िलाफ़ = (غلاف) आवरण, किसी चीज़ पर चढ़ाया गया कवर

ग़ीबत = (غیبت) पीठ पीछे बुराई करना

ग़ैज़ = (غیض) तेज़ गुस्सा

ग़ैब = (غیب) अदृश्य, अनुपस्थित, दिखाई न देने वाली चीज़

ग़ैर = (غیر) अजनबी, अनजान, बेगाना, दूसरा, ख़राब,नाज़ुक, विरुद्ध

ग़ैरत = (غیرت) आत्म सम्मान, शर्म, लज्जा

ग़ोता = (غوطہ) डुबकी, ऊपर से नीचे आना

ग़ौर = (غور) ध्यान लगाना, सोचना, विचार करना

ग़ौल = (غول) टोली, गिरोह, दल, समूह

घ (گھ)

घटा = (گھٹا) गहरे बादल

घटाना = (گھٹانا) कम करना, दाम गिराना

घट्टा = (گھٹا) सेंध, छेद, दरार, माथे पर पड़ा सजदे का निशान

घड़ी = (گھڑی) पल, समय बताने वाला यंत्र

घड़ियाल = (گھڑیال) समय बताने के लिये बजने वाला घंटा, मगरमच्छ की एक प्रजाति

घन = (گھن) गहरे बादल, बड़ा हथौड़ा, भरा भरा

घंटा = (گھنٹہ) साठ मिनट का वक़्त, स्कूलों, मन्दिरों गिरजा में बजने वाली बेल

घबराहट = (گھبراہٹ) विचलित होना, जल्दी

घर = (گھر) गृह, निवास स्थल, मकान, स्वदेश, ठिकाना

घात = (گھات) धोखा, चाल

घाता = (گھاتا) ख़रीदी हुई चीज़ पर कुछ अधिक मिलना

घाट = (گھاٹ) नदी या तालाब का किनारा, धोबियों के कपड़े धोने का स्थान

घाटा = (گھاٹا) हानि, नुक़सान, कमी

घाटी = (گھاٹی) पहाड़ियों के बीच घिरा स्थान

घिनौना = (گھناؤنا) नफ़रत भरा, गन्दा

घिसना = (گھسنا) रगड़ना, पुराना होना

घुटन = (گھٹن) हवा बंद होने का एहसास, घोर बंदिश में रहना

घुप = (گھپ) बहु तअँधेरा

घुन = (گھن) गेहूं या लकड़ी में लगने वाला कीड़ा

घुंगराले = (گھنگرالے) बल खाए हु एकेश

घुलना = (گھلنا) पिघल जाना, नर्म पड़ना, द्रव्य बनना

घूरना = (گھورنا) ताकना

च (چ)

चकबंदी = (چکبندی) भूमि की हद बंदी

चकाचौंध = (چکاچوندھ) तेज़ रौशनी से आँखें चुन्धयाना, ताज्जुब, घबराहट

चटाख़ = (چٹاخ) किसी चीज़ के टूटने की आवाज़

चटाई = (چٹائی) बोरिया, घास, खजूर के पत्तों या प्लास्टिक से बना फ़र्श

चटोरा = (چٹورا) खानों का शौक़ीन, पेटू, खाऊ उड़ाऊ

चटाना = (چٹانا) बच्चे को ऊँगली से कोई चीज़ खिलाना

चटकना = (چٹکنا) कली का खिलना, बर्तन में दरार आना, फटना

चट्टान = (چٹان) पत्थर की बड़ी सिल

चटकीला = (چٹکیلا) भड़कदार, स्वादिष्ट, चुट पुटा

चटयल = (چٹیل) ऐसा मैदान जहाँ कोई छाया दार वृक्ष न हो

चढ़ाई = (چڑھائی) ऊपर की तरफ़ जाना, हमला करना

चंगुल = (چنگل) इंसानों की मुट्ठी, जानवर का पंजा (चुंगल)

चंचल = (چنچل) खिलंडरा, तेज़ तर्रार, शोख़

चंडू = (چنڈو) अफ़ीम को चिलम में जला कर पीना

चंदा = (چندہ) योगदान राशि

चन्दा = (چندا) चन्द्रमा

चंदिया = (چندیا) खोपड़ी

चंबल = (چنبل) भिखारी का प्याला, मध्य प्रदेश की एक नदी, एक डाकू बहु लक्षेत्र

चप = (چپ) बायाँ, पांव की आवाज़, चाप

चपरासी = (چپراسی) अर्दली, सरकारी अफ़सरों का सेवक

चपक़लिश = (چپقلش) लड़ाई झगड़ा, दंगा फ़साद, भीड़ भाड़ (चिपक़लिश)

चपनी = (چپنی) हांडी की ढकनी, घुटने की हड्डी

चबूतरा = (چبوترہ) चौतरा, बैठने के लिए बनाया गया स्थान

चमक = (چمک) प्रकाश, आकाशीय बिजली का प्रकाश, दर्द

चमड़ा = (چمڑا) चर्म, खाल

चमन = (چمن) फुलवारी

चर्ख़ = (چرخ) आसमान, पहिया, चक्कर

चरख़ा = (چرخہ) सूत कातने वाला यंत्र

चरागाह = (چراگاہ) घास का मैदान, मवेशियों के चरने की जगह

चर्बी = (چربی) चिकनाई, मोटापा, फ़ैट

चरस = (چرس) एक प्रकार का नशीला द्रव्य, चमड़े का बड़ा डोल

चरसा = (چرسا) मोटा चमड़ा

चश्म = (چشم) आँख, नैन

चश्मक = (چشمک) आँख मारना, विरोध, रंजिश

चश्मा = (چشمہ) पानी का स्रोत, धरती से फूटने वाली जल धारा, ऐनक

चशीदा = (چشیدہ) चक्खा हुआ, अनुभवी

चल बसना = (چل بسا) मर जाना

चलन = (چلن) चाल, स्वभाव, रस्म, प्रथा

चवन्नी = (چونّی) चार आने, रूपये का चौथा भाग

चाक = (چاک) फटा हुआ, कटा हुआ

चाकरी = (چاکری) नौकरी, सेवा

चाक़चौबंद = (چاق چوبند) स्वस्थ, तेज़ तर्रार, स्फूर्ति से भरा

चाक़ू = (چاقو) छुरी, चक्कू

चाप = (چاپ) आहट, पांव की आवाज़, कमान

चादर = (چادر) ओढ़नी, बिछाने का कपड़ा, मज़ार पर चड़ने वाली फूलों की लड़ियाँ

चाँदनी = (چاندنی) चाँद की रौशनी, एक प्रकार का सफ़ेद फूल, बड़ी सी सफ़ेद चादर

चांदी = (چاندی) ज़ेवर बनाने की सफ़ेद धातु

चारपाई = (چارپائی) खाट, पलंग

चारसू = (چارسو) चारों ओर

चारोंख़ाने = (چاروں خانے) अखाड़े में चित होना

चारा = (چارا) उपचार, इलाज, मवेशियों का खाना

चाशनी = (چاشنی) शीरा, खट्टा मीठा द्रव्य

चाल = (چال) गति

चालचलन = (چال چلن) स्वभाव, रंग ढंग, आदत

चालाकी = (چالاکی) होशियारी, चुस्ती फुर्ती, मक्कारी

चाह = (چاہ) कुआँ, गढ़हा, ग़ार, प्रेम, आरज़ू

चाहत = (چاہت)किसी को पाने की इच्छा, प्रेम, इश्क़, आवश्यकता

चिकन = (چکن) कपड़ों पर कढ़ाई का काम

चिकनाई = (چکنائی) तेल, घी, चर्बी, बेशर्मी

चिट्ठी = (چٹھی) पत्र, ख़त, पर्ची

चिंगारी = (چنگاری) आग से निकलने वाला चिंगा

चिमटना = (چمٹنا) पीछे पड़ना, चिपकना, लिपटना

चिमनी = (چمنی) धुआं निकलने का रास्ता, लालटैन में लगा शीशा

चिराग़ = (چراغ) दीपक, मोम बत्ती, दिया, चराग़

चिरकीन = (چرکین) गन्दा, मैला, उर्दू के एक प्रसिद्ध हास्य कवि का उपनाम (तख़ल्लुस)

चिलचिलाती = (چلچلاتی) बहुत गर्म, जलाने वाली

चिलम = (چلم) हुक़्क़ा और गांजा पीने के लिए प्रयोग होने वाली वस्तु

चिलमन = (چلمن) तीलियों से बना पर्दा

चीख़ = (چیخ) शोर, डर जाने पर निकलने वाली आवाज़

चीनी = (چینی) चीन का नागरिक, सफ़ेद खांड, शक्कर, चीन की मिट्टी के बने बर्तन

चीरना = (چیرنا) किसी चीज़ को दो भागों में विभाजित करना

चुग्गी = (چُگّی) छोटी सी

चुग़लख़ोर = (چغل خور) जासूस, इधर की बात उधर करने वाला

चुटकी = (چٹکی) ऊँगली (अंगुली) से पकड़ कर खाल दबाना, किसी पर तन्ज़ करना

चुटैल = (چوٹیل) चोट खाया हुआ

चुप = (چپ) ख़ामोश, ध्वनि रहित

चुभन = (چبھن) कसक, खटक, दिल पर लगना

चुनान्चे = (چنانچہ) जैसा कि, इस प्रकार से, इस लिए

चुनाई = (چنائی) ईंटों को जोड़ कर भवन बनाना

चुंगी = (چنگی) नगर कर, टोल टैक्स

चुंधा = (چندھا) वह व्यक्ति जो प्रकाश में न देख सके

चुनींदा = (چنندہ) चुना हु आ

चुनौती = (چنوتی) ललकारना, चैलेंज

चूक = (چوک) भूल, ग़लती, निशाना न लगना

चूब = (چوب) लकड़ी, लाठी, छड़ी

चेहरा = (چہرہ) मुखड़ा, मुंह

चैन = (چین) सुख, आराम, राहत

चोट = (چوٹ) मार, दुःख, धोखा, हानि, दाव, घात

चोटी = (چوٹی) औरत के गुंधे बाल, शिखर, सर्वोच्च स्थान

चोला = (چولا) शरीर, देह, दुल्हन को पहनाया जाने वाला विशेष वस्त्र

चोली = (چولی) कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र

चोंच = (چونچ) पक्षियों का मुंह

चौका = (چوکا) रसोई घर, चार रन, चव्वा, चौकोर पत्थर या टाइल्स

चौकी = (چوکی) बैठने का आसन, कुर्सी, पहरा, छोटा पुलिस स्टेशन

चौकड़ी = (چوکڑی) हिरन की कुलांचे

चौकन्ना = (چوکنا) सावधान, सतर्क, तेज़ बुद्धि वाला

चौकस = (چوکس) सावधान, चौकन्ना

चौखट = (چوکھٹ) दरवाज़े का फ़्रेम, घर की दहलीज़

चौदहवीं का चाँद = (چودھویں کا چاند) पूर्णिमा का चन्द्रमा

चौंकना = (چونکنا) नीदं में व्यवधान आना, डर जाना, बिदकना

चौपाए = (چوپائے) मवेशी

चौपट = (چوپٹ) ख़राब, बरबाद, बिगड़ जाना, चारों द्वार खुल जाना

चौपहल = (چوپہل) वर्गाकार, चौकोर

चौबारा = (چوبارا) घर का उपरी कमरा जिस में चार द्वार हों

चौराहा = (چوراہا) चौक, जहाँ पर चार रस्ते मिलते हैं

छ (چھ)

छत = (چھت) कोठा, सिर छुपाने की जगह,घर का ऊपरी भाग

छर्रा = (چھرا) छोटी छोटी गोलियां जो बंदूक़ में भरी जाती हैं

छाप = (چھاپ) ठप्पा, निशान, मोहर, मुहर

छापाख़ाना = (چھاپاخانہ) प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रण स्थल

छाती = (چھاتی) सीना, स्तन, हौसला, हिम्मत

छाला = (چھالا) जलने से बना फफोला

छांटना = (چھانٹنا) चुनना, पसंद करना, कतरना

छानना = (چھاننا) छन्नी से आटा निकालना, जांचना, ढूंढना

छावनी = (چھاونی) सैन्य क्षेत्र, कैंट एरिया

छाया = (چھایا) छाँव, फैलाव

छिछोरा = (چھچھورا) दिखावा करने वाला, घटिया आदमी, पेट का हल्का

छिड़काव = (چھڑکاؤ) सिंचाई, पानी डाल कर ज़मीन गीली करना

छींटाकशी = (چھینٹاکشی) किसी पर व्यंग्य करना

छुपा = (چھپا) गुप्त, अज्ञात

छुटकारा = (چھٹکارہ) पीछा छूटना, आज़ाद होना

छुट्टी = (چھٹی) अवकाश, स्कूल का समय समाप्त होना, नौकरी जाना

छूट = (چھوٹ) मुक्ति, स्वतंत्रता, रियायत, कन्सेशन

छेड़ना = (چھیڑنا) हाथ लगाना, गुदगुदाना, भड़काना, विचलित करना

छोलदारी = (چھولداری) शिविर, छोटा सा डेरा

ज (ج)

जगमगाहट = (جگمگاہٹ) तेज़ प्रकाश, चमक दमक

जगह = (جگہ) स्थान, ठिकाना, क्षमता, क्षेत्र, रिक्त पद

जड़ = (جڑ) पेड़ का धरती के अंदर वाला अंश , कारण, बुनियाद

जज़ीरा = (جزیرہ) टापू, द्वीप

जज़्बा = (جذبہ) दिल का जोश, आकर्षण, कुछ कर गुज़रने की तमन्ना, भावना

जज़्बात = (جذبات) जज़्बा का बहु वचन है

जत्था = (جتھا) समूह, ग्रुप, धड़ा, टोली

जद्द = (جد) दादा, नाना, पुरखे

जदीद = (جدید) नव, नया, ताज़ा, इस युग का

जनाज़ा = (جنازہ) लाश, अर्थी

जनीन = (جنین) भ्रूण

जंग = (جنگ) युद्ध, लड़ाई

जंगल = (جنگل) वन

जन्नत = (جنت) स्वर्ग

जंजाल = (جنجال) बिपदा, कष्ट, संकट, वबाल, बखेड़ा

जब्र = (جبر) अत्याचार, सीना ज़ोरी

जबल = (جبل) पहाड़

जबीन = (جبین) माथा

जमाअत = (جماعت) दल, संघ, ग्रुप, नमाजियों की क़तार, कक्षा

जमाल = (جمال) सुन्दरता, हुस्न, रूप, जौबन

जमाओ = (جماؤ) जमने की क्षमता, भीड़, जमघटा

जमअ = (جمع) इकट्टा, पूंजी, योग्य, जोड़, डिपाज़िट

जमीयत = (جمعیت) दल, गुट, गिरोह, समूह, सेना, भीड़ भाड़

जम्हूरियत = (جمہوریت) प्रजातंत्र, लोकतंत्र, गणतन्त्र

जमील = (جمیل) सुन्दर

जरासीम = (جراثیم) कीटाणु

जर्राह = (جراح) शल्य चिकित्सक, सर्जन

जर्रार = (جرّار) बहुत भारी, बहु संख्यक(सेना) दिलेर, शूर वीर

जरीदा = (جریدہ) पत्रिका, मैगज़ीन

जलना = (جلنا) आग से प्रभावित, ईर्ष्या करना

जलावतन = (جلاوطن) निर्वासित, देश से निकाला हुआ

जल्लाद = (جلاد) मृत्यु दंड के पात्रों का वध करने वाला, कठोर, निर्दई

जलाल = (جلال) शान, रोब, गुस्सा, तैश, प्रताप

जल्द = (جلد) तुरंत, झटपट

जलवा = (جلوہ) तेज, नूर, महबूब की झलक, आन बान

जलीस = (جلیس) साथी, मित्र, हमराही, साथ उठने बैठने वाला

जलील = (جلیل) बड़ा,उच्च, ऊँचे पद वाला

जश्न = (جشن) उत्सव, समारोह, ख़ुशी का दिन

जसारत = (جسارت) मर्दानगी, हौसला, दिलेरी, हिम्मत

जसामत = (جسامت) डील डौल, भरी बदन

जस्त = (جست)छलांग

जवाब = (جواب) उत्तर

जवान = (جوان) युवक, सेना या पुलिस का सदस्य

जवाहर = (جواہر) बहु मूल्यपत्थर, मणि

जहाज़ = (جہاز) पोत, बड़ी नाव, जलयान, (वायुयान को हवाई जहाज़ कहते हैं)

जहेज़ = (جہیز) दहेज, शादी का सामान

जहां = (جہاں) संसार, लोक, खंड, पृथ्वी, स्थान

जाएज़ = (جائز) उचित, सही, सगा, संवैधानिक

जाएज़ा = (جائزہ) सर्वेक्षण, समीक्षा, जाँच, पड़ताल, देख कर अनुमान लगाना

जाफ़री = (جعفری) गेंदे का छोटा फूल, इमाम जाफ़र की नस्ल के लोग

जाली = (جالی) छेद दार कपड़ा, लकड़ी या लोहा

जाअली = (جعلی) नक़ली, दग़ाबाज़ी, कृत्रिम

जाड़ा = (جاڑا) शीतकाल, ठंड का मौसम

जाज़िब = (جاذب) आकर्षित करने वाला, सोखता, ब्लाटिंग पेपर

जादू = (جادو) चमत्कार, मन्तर, आश्चर्य चकित करने वाला कर्तब

जादा = (جادہ) सड़क, रास्ता, पगडंडी, तौर, तरीक़ा, रस्म

जा बजा = (جابجا) हर जगह, हर स्थान और हर अवसर पर

जाबिर = (جابر) निर्मम, क्रूर शासक

जान = (جان) प्राण, आत्मा, जीवन, शक्ति, प्रियतम, सजावट

जाना = (جانا) विदाई, चलाना, टलना

जानिब = (جانب) ओर, धड़ा, पहलू, दिशा

जानिबकार = (جانب کار) परिचित व्यक्ति

जानिबदार = (جانبدار) पक्षपाती, साथ देने वाला, समर्थक, तरफ़दार

जांच = (جانچ) परख, पड़ताल, अनुमान

जान पहचान = (جان پہچان) परिचय, जानना

जानां = (جاناں) महबूब, प्रियतम, जीवन

जानशीन = (جانشین) उत्तराधिकारी

जाम = (جام) पियाला, गिलास, शराब पीने का बर्तन, आइना, अमरूद

जामअ = (جامع) पूरा, मुकम्मल, इकट्टा करने वाला, व्यापक

जामअ मस्जिद = (جامع مسجد) वह बड़ी मस्जिद जहाँ शुक्रवार की नमाज़ होती है

जामेआ = (جامعہ) विश्व विद्यालय, समाज

जामा = (جاما) वस्त्र, कपड़े, पहनावा

जारी = (جاری) बहता हु आ, चालू, विमोचन, बढ़ता हु आ, प्रचलित

जारेह = (جارح) चढ़ाई में पहल करने वाला, हमलावर

जारोब = (جاروب) झाड़ू

जाल = (جال) फन्दा, किसी को फसाने का षड्यंत्र, ग्रिल, छेदों वाल जंगला

जावेद = (جاوید) सदा जीवित रहने वाला

जासूस = (جاسوس) छुप कर जांच करने वाला, विरोधी ख़ेमे की सूचनाएँ देने वाला

जाह = (جاہ) पद, सम्मान,आदर

जाहिल = (جاہل) अनपढ़, अनजान, उजड, अनाड़ी

जायदाद = (جائداد) पूंजी, घर मकान दुकान, खड़ी फ़सल

जिगर = (جگر) कलेजा, नज़दीकी मित्र, प्रीतम, महबूब

जिद्द = (جد) कोशिश, दौड़-धूप, हठ, अकड़

जिदाल = (جدال) युद्ध, लड़ाई, बहस, झगड़ा

जिन्नात = (جنات) अदृश्य शक्तियाँ, भूत प्रेत, आत्मा

जिन्स = (جنس) लिंग, सेक्स, माल, सौदा

जिन्स = (جنس) अनाज, दलहन इत्यादि

जिला = (جلا) शनी, सफ़ाई, चमक

जिल्द = (جلد) खाल, कवर, पुस्तक का अंक, फ़ाइल

जिस्म = (جسم) शरीर, बदन

जिहाद = (جہاد) प्रयत्न करना, सुरक्षात्मक युद्ध, इन्द्रियों को वश में करना, धर्म-युद्ध

जी = (جی) प्राण, आत्मा, हाँ

जीत = (جیت)विजय, सफलता

जीता = (جیتا) जीवित, सफल, विजयी

जुड़ना = (جڑنا) दो हिस्सों को

चिपकाना, किसी कार्य में शामिल होना

जुज़्व = (جزو) हिस्सा, भाग,पार्ट, बग़ैर, अलावा

जुज़दान = (جزدان) किताबें रखने वाला बस्ता

जुंबिश = (جنبش) हिलना जुलना, हिलना डुलना

जुदा = (جدا) अलग, बिछड़ा हुआ, अनोखा

जुनूं = (جنوں) दीवानगी, पागलपन, बावलापन (जुनून)

जुब्बा = (جبہ) एक प्रकार का ढीला कोट

जुर्म = (جرم) अपराध, क़ानून विरोधी गतिविधियाँ

जुर्माना = (جرمانہ) दंड राशि किसी अपराधी से वसूली जाने वाली रक़म

जुमआ = (جمعہ) शुक्रवार

जुमला = (جملہ) वाक्य, बोल

जुर्रआ = (جرعہ) एक घूँट

जुर्राब = (جراب) मोज़ा

जुर्रअत = (جرأت) दिलेरी, शौर्य, बेबाकी

जुल = (جل) धोखा , चालबाज़ी, छल, झांसा

जुलूस= (جلوس) शोभा यात्रा, रैली, मार्च

जुस्तजू = (جستجو) तलाश, खोज, जिज्ञासा

जूक़ = (جوق) भीड़, आदमियों का जत्था, झुंड, टोली

जेब = (جیب) पाकेट, वस्त्र में पैसा या काग़ज़ रखने की जगह

जेलख़ाना = (جیل خانہ) कारागार, बंदी गृह

जोश = (جوش) उबलना, उफान, तरंग

जोशांदा = (جوشاندہ) काढ़ा, नज़ला खांसी की दवा

जोलान = (جولان) बेड़ी, पाँव में डाली जाने वाली ज़ंजीर

ज़ (ذ،ز،ژ،ض،ظ)

ज़ईफ़ = (ضعیف) दुर्बल, निर्बल, बूढ़ा , कमज़ोर

ज़क = (زک) हानि, नुक़सान, पराजय

ज़ख़्म = (زخم) घाव

ज़ख़ीरा = (ذخیرہ) संग्रहण, गोदाम, ख़ज़ाना, ढेर

ज़ंग = (زنگ) लोहे का मैल

ज़चा = (زچہ) जननी, जच्चा, वह

महिला जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया हो

ज़फ़र = (ظفر) विजय, जीत

ज़ब्त = (ضبط) अधिग्रहण

ज़बह = (ذبح) गला काटना

ज़बान = (زبان) जीभ, भाषा (ज़ुबान)

ज़बर = (زبر) ऊपर, ऊँचा, भारी

ज़बरदस्त = (زبردست) बलवान, बली, बहु त शक्ति शाली, बढ़त रखने वाला

ज़रा = (ذرا) थोड़ा, कम, भाग, टुकड़ा

ज़राफ़त = (ظرافت) हास्य-व्यंग्य, हंसी मज़ाक़, ठिठोली

ज़रीया = (ذریعہ) स्रोत, माध्यम, द्‌वारा

ज़रीह = (ضریح) क़ब्र पर रखी जाने वाली ताज़िये जैसी आकृति

ज़रूरत = (ضرورت) आवश्यकता, इच्छा

ज़र्फ़ = (ظرف) बर्तन, समाई, सहन शीलता

ज़र्ब = (ضرب) वार, चोट, गुणा

ज़रर = (ضرر) हानि, छति, चोट

ज़र्रा = (ذرہ) कण, छोटा सा अंश

ज़र = (زر) सोना, धन, दौलत

ज़र्द = (زرد) पीला, सुन्हैरा

ज़र्क़ बर्क़ = (زرق برق) टीप टाप, भड़कीला, चमकदार, रंग बिरंगे

ज़री = (زری) सोने के तार से कपड़े पर फूल बूटे बनाने की कला

ज़र्रीं = (زرّیں) सुन्हैरी, स्वर्णिम

ज़लालत = (ضلالت) भटकना, अपराध, कुसूर

ज़लील = (ذلیل) गिरा हु आ, घटिया, नीच, बदनाम, अपमानित

ज़लज़ला = (زلزلہ) भूकम्प, भूचाल

ज़म = (ضم) विलय, एकीकरण, मिलाना

ज़माना = (زمانہ) युग, समय, संसार, जगत

ज़मानत = (ضمانت) गारेंटी, जेल से छूट मिलना, छुड़ाने के लिए ज़िम्मेदारी लेना

ज़मीन = (زمین) धरती, भूमि

जमींदार = (زمیندار) किसान, पट्‌टेदार, धरती पुत्र, जागीरदार

ज़न = (زن) महिला, स्त्री

ज़नाना = (زنانہ) महिलाओं का स्थान/आवास (ज़नाना पार्क/अस्पताल) औरत जैसा व्यक्ति

ज़नानी = (زنانی) स्त्री, महिला, महिलाओं से जुड़ी चीज़ें

ज़ंजीर = (زنجیر) कुंडी, लड़ी, बेड़ी,

आपस में जुड़ी हुई लोहे की कड़ियाँ

ज़वाल = (زوال) पतन, उतार, ढलाव, घटाव

ज़हीन = (ذہین) बुद्धिमान, तेज़, समझदार, होशियार

ज़हर = (زہر) विष

ज़हमत = (زحمت) कष्ट, सख़्ती, कठिनाई

ज़ाएचा = (زائچہ) कुंडली, जन्म पत्री

ज़ाएदा = (زائدہ) जन्मा हुआ

ज़ाएर = (زائر) तीर्थ यात्री, दर्शनार्थी (इसका बहु वचन ज़ाएरीन है)

ज़ाएल = (زائل) व्यर्थ जाने वाला, ख़त्म होने वाला

ज़ाकिर = (ذاکر) वक्ता, वाचक, ज़िक्र करने वाला

ज़ात = (ذات) व्यक्तित्व, जाति, गोत्र, नस्ल

ज़ाती = (ذاتی) निजी, व्यक्तिगत

ज़ाद = (زاد) सफ़र का सामान, रास्ता ख़र्च

ज़ादा = (زادہ) जना हुआ, किसी का पुत्र, जैसे शाहज़ादा शाह का बेटा

ज़ाफ़रान = (زعفران) केसर

ज़ाबिता = (ضابطہ) संविधान, क़ानून, नियम, आचार

ज़ार = (زار) स्थान, जगह जैसे गुलज़ार फूलों वाली जगह

ज़ारी = (زاری) रोना पीटना

ज़ानी = (زانی) दुराचारी, अनैतिक संभोग करने वाला, वेश्यावृति में लिप्त व्यक्ति

ज़ामिन = (ضامن) ज़मानत दार, गारेंटर, किसी की ज़िम्मेदारी लेने वाला

ज़ाया = (ضائع) व्यर्थ, बेकार जाना

ज़ाला = (ژالہ) ओला

ज़ालिम = (ظالم) क्रूर, निर्दयी, अन्यायी

ज़ाहिर = (ظاہر) खुला हुआ, प्रदर्शित

ज़ाविया = (زاویہ) कोण, अन्य नज़रिया

ज़िक्र = (ذکر) चर्चा, बयान, ईश्वर को याद करना

ज़िद = (ضد) अड़ियल, हट, विरुद्ध, एंटी

ज़िन्दा = (زندہ) जीवित

ज़िन्दां = (زنداں) बंदी गृह, जेल, कारागार

ज़िन्दगानी = (زندگانی) जीवन अवस्था, आयु

ज़िम्मेदारी = (ذمہ داری) जवाबदेही, उत्तरदायित्व

ज़िला = (ضلع) जनपद, डिस्ट्रिक्ट

ज़िल्ल = (ظل) साया, छांव, छाया

ज़िल्ले इलाही = (ظل الٰہی) अल्लाह की छाया, बादशाह, शासक को कहा जाता था

ज़िल्लत = (ذلت) अपमान, अनादर, बेइज़्ज़ती, गिरावट

ज़िराअत = (زراعت) कृषि, खेती बाड़ी, खड़ी फ़सल

ज़िना = (زنا) व्यभिचार, बिना विवाह संभोग, कुकर्म

ज़िना बिलजब्र = (زنا بالجبر) बलात्कार

ज़ियादा = (زیادہ) अधिक, बढ़त, फ़ालतू

ज़ियारत = (زیارت) किसी पवित्र व्यक्ति या स्थान का दर्शन, तीर्थ यात्रा

ज़ीन = (زین) काठी

ज़ीना = (زینہ) सीढ़ियाँ

ज़ीनत = (زینت) शोभा

ज़ीस्त = (زیست) जीवन, अवस्था, हस्ती, जीना

ज़ुल्फ़ = (زلف) बालों की लट, सुंदर केश

ज़ुल्मत = (ظلمت) अंधकार, सियाही

ज़ुहूर = (ظہور) सामने आना, प्रकट होना

ज़ुहल = (زحل) शनी देव, सनीचर

ज़ूद = (زود) शीघ्र, तुरंत, जल्दी

ज़ूमानी = (ذو معنی) द्विअर्थी शब्द

ज़ेहन = (ذہن) बुद्धी, मन, विचार की क्षमता

ज़ेब = (زیب) शोभा, भला लगना, सजना

ज़ेर = (زیر) नीचे, परास्त होना

ज़ेरो ज़बर = (زیروزبر) उलट पुलट होना ऊपर नीचे हो जाना, बिखर जाना

ज़ैल = (ذیل) नीचे का हिस्सा, गिरोह, मंडली

ज़ोफ़ = (ضعف) निर्बलता, कमज़ोरी

ज़ोर = (زور) शक्ति, ताक़त, बल

ज़ोहरा = (زہرہ) शुक्र, वीनस

ज़ौक़ = (ذوق) मज़ा, स्वाद, रूचि

ज़ौजा = (زوجہ) पत्नी, बीवी, घर वाली, जिससे विवाह हु आहो

झ (جھ)

झगड़ा = (جھگڑا) दंगा, रार, लड़ाई

झटका = (جھٹکا) धक्का, सदमा, टक्कर

झड़प = (جھڑپ) हल्की सी लड़ाई

झपट = (جھپٹ) तेज़ी से होने वाला हमला, छीनना

झपकना = (جھپکنا) पलकों को आपस में टकराना, आँख बंद होना

झपकी = (جھپکی) हल्की सी नींद आ जाना

झंकार = (جھنکار) घुंघरू की आवाज़, काँच टूटने और तलवारें टकराने की आवाज़

झंडा = (جھنڈا) ध्वज

झंझट = (جھنجھٹ) झगड़ा, उलझन, टंटा, बखेड़ा, तकरार

झमेला = (جھمیلا) झगड़ा, बखेड़ा

झरना = (جھرنا) पानी की फूटती धारा, हलवाई का छेदों वाला बड़ा चम्मच

झरोका = (جھروکہ) खिड़की (झरोखा)

झाग = (جھاگ) फेन

झाड़ = (جھاڑ) कांटे दार पेड़, रौशनियों से सजाया जाने वाला झूमर

झाईं = (جھائیں) शीशे की चमक, चेहरे पर पड़ने वाले चट्ठे

झांकी = (جھانکی) स्वांग, लीला, प्रदर्शनी, झलक

झांझ = (جھانجھ) क्रोध, गुस्सा, एक प्रकार का बड़ा मजीरा

झांप = (جھانپ) छत में लगा लकड़ी का टुकड़ा, बांस की बनी टोकरी

झांसा = (جھانسا) छल, धोखा

झिड़की = (جھڑکی) डांट

झिलमिल = (جھلمل) पानी की चमक

झील = (جھیل) ताल, डल

झुकाना = (جھکانا) नीचा करना, अपनी बात मनवाना

झुटलाना = (جھٹلانا) झूठा साबित करना, सच्ची बात को झूठा कहना

झुंजल = (جھنجھل) गुस्सा

झुंड = (جھنڈ) समूह, मवेशियों का रेवड़, पक्षियों का दल

झुमका = (جھمکا) गुच्छा, झुंड, कान का ज़ेवर

झुर्रियां = (جھرّیاں) बदन पर पड़ने वाली सिलवटें व शिकनें

झुलसना = (جھلسنا) लूका लगना, ज्वाला से जलना

झूट = (جھوٹ) असत्य , छल, धोखा, बहाना

झूलना = (جھولنا) पेंग लेना, पड़े रहना

झोंका = (جھونکا) हवा का रेला

झोंज = (جھونجھ) घोंसला

झोंपड़ा = (جھونپڑا) छप्पर का घर

झोल = (جھول) ढीला पन, झिरी, सिलवट

ट (ٹ)

टक्कर = (ٹکر) धक्का, दो चीज़ों का लड़ जाना

टकसाल = (ٹکسال) सिक्के ढालने वाला कारखाना

टकसाली = (ٹکسالی) जांचा, परखा हु आ, आम जनता की भाषा

टट्टू = (ٹٹو) छोटे क़द का घोड़ा

टटोलना = (ٹٹولنا) अँधेरे में कुछ ढूंढ़ना, छू कर देखना, तलाशी लेना

टपकना = (ٹپکنا) बूँद बूँद गिरना, पक्के फल का पेड़ से गिरना

टहलना = (ٹہلنا) हल्के हल्के चलना, वाक् करना

टाप = (ٹاپ) घोड़े के पाँव की आवाज़

टापा = (ٹاپا) मुर्ग़ियां बंद करने वाला ढाबा

टापू = (ٹاپو) }hi

टाल = (ٹال) लकड़ी का ढेर या दुकान

टालना = (ٹالنا) बहाने बनाना, स्थगित करना

टांका = (ٹانکا) सीवन

टांग = (ٹانگ) पैर, लात

टांगना = (ٹانگنا) लटकाना, फांसी पर चढ़ाना

टिसवे बहाना = (ٹسوے بہانا) नक़ली आंसू, झूठ मूठ रोना

टिकाऊ = (ٹکاؤ) देर तक टिकने वाला, मज़बूत

टिकटिकी = (ٹکٹکی) घूरना, लगातार देखे जाना

टुकड़ा = (ٹکڑا) भाग, अंग, अंश, हिस्सा

टुच्चा = (ٹچا) छिछोरा, घटिया व्यक्ति

टेढ़ा = (ٹیڑھا) तिरछा, फिरा हु आ, उजड

टोकना = (ٹوکنا) किसी की बात में व्यवधान डालना, वार्ता के बीच में बोल देना

ठ (ٹھ)

ठग = (ٹھگ) छलिया, धोखेबाज़, फ़रेबी, लुटेरा

ठंडा = (ٹھنڈا) शीतल, कूल,

उत्तेजित न होने वाला

ठहरना = (ٹھہرنا) रुकना, थमना

ठाट = (ٹھاٹ) ऐश, आराम, भड़क, तौर तरीक़ा

ठठा = (ٹھٹھا) क़हक़हा मार कर हसना, खिल्ली उड़ाना

ठस = (ٹھس) भारी, बोझल काहिल, सुस्त, मूर्ख

ठसाठस = (ٹھسا ٹھس) खचाखच, ख़ूब भरा हु आ

ठिकाना = (ٹھکانا) घर, स्थान, छुपने की जगह, अड्डा, पता, निशान

ठिठकना = (ٹھٹھکنا) अचानक रुक जाना

ठिठोल = (ٹھٹھول) हास परिहास, तफ़रीह बाज़ी

ठीक = (ٹھیک) सही, बराबर, उचित

ठेला = (ٹھیلا) धक्का, रेला, सामान खीचने वाली गाड़ी

ठेस = (ٹھیس) धक्का, बात बुरी लगना

ठोकर = (ٹھوکر) पाँव किसी चीज़ से टकरा जाना

ड (ڈ)

डकारना = (ڈکارنا) किसी चीज़ को हड़प कर जाना, पेट की गैस मुंह से निकलना

डकैत = (ڈکیت) लुटेरा, डाकू

डटना = (ڈٹنا) जम कर मुक़ाबला करना, देर तक टिके रहना

डबडबाना = (ڈبڈبانا) आँख भर आना

डपटना = (ڈپٹنا) गुस्सा करना, धमकाना, हमला करना

डंका = (ڈنکا) नगाड़े पर मारी जाने वाली लकड़ी

डर = (ڈر) भय

ड्योढ़ी = (ڈیوڑھی) अमीरों के घर के दरवाज़े के बाहर का हिस्सा. आस्ताना, दहलीज़

डाक = (ڈاک) चिट्ठी, मेल, पत्राचार

डाका = (ڈاکا) लुटेरों का हमला करना, डाकुओं }kjk लूट मार

डांटना = (ڈانٹنا) फटकार, रोकना, बंद करना, झिड़की, घुड़की देना

डांवा डोल = (ڈانواڈول) अधर में लटकना, ना इधर न उधर, गिरने के समीप

डाल = (ڈال) शाखा, ठहनी

डालना = (ڈالنا) पिरोना, रखना, धरना, गिराना, फेंकना

डील = (ڈیل) शरीर, बदन, काठी, क़द, पिंडा

डींग = (ڈینگ) शेख़ी, लम्बी लम्बी फेंकना, हांकना, बड़बोल

डुबाव = (ڈباو) क़द से ऊपर पानी

डूबना = (ڈوبنا) पानी में मरना, अस्त, छुपना, बाढ़ की चपेट में आना

डेरा = (ڈیرا) छावनी, तंबू, बाबा का आश्रम, अस्थाई निवास स्थान

डोमनी = (ڈومنی) गायिका व नर्तकी, शव दाह करने वाली जाति की महिला

डोर = (ڈور) धागा, सुतली, सूत की पतली रस्सी, रिश्ता

डोल = (ڈول) कुएँ से पानी भरने का बर्तन

डोलना = (ڈولنا) भटकना, किसी की तरफ़ झुकना, आवारा फिरना

डोरे डालना = (ڈورے ڈالنا) किसी को वश में करने की कोशिश, लिहाफ़ की रुई को सीना

ढ (ڈھ)

ढकना = (ڈھکنا) ढक्कन, कवर, पतीली के मुंह पर रखी प्लेट

ढकोसला = (ڈھکوسلہ) धोखा, झांसा, व्यर्थ कार्य

ढंग = (ڈھنگ) चाल-चलन, अंदाज़, तरीक़ा, आदत

ढब = (ڈھب) ढंग, तौर तरीक़ा

ढर्रा = (ڈھرا) रास्ता, वह मार्ग जिस पर रात दिन यातायात जारी रहता है

ढलकना = (ڈھلکنا) ऊपर से नीचे की तरफ़ लुढकना, टपक कर गिरना

ढाक = (ڈھاک) एक वृक्ष का नाम

ढाबा = (ڈھابا) मुर्ग़ियां बंद करने वाला पिंजरा, सड़क के किनारे बने भोजनालय

ढारस = (ڈھارس) तसल्ली , धीरज

ढाल = (ڈھال) नीचे की तरफ़ जाने वाला रास्ता, हथियार का वार रोकने वाला अस्त्र

ढालना = (ڈھالنا) धातु को पिघला कर कोई आकृति बनाना

ढिटाई = (ڈھٹائی) बेशर्मी, अड़े रहना (ढिठाई)

ढिंढोरा = (ڈھنڈورا) प्रचार करना, किसी को खोजने की घोषणा, पूरे शहर में बात फैलाना

ढीट = (ڈھیٹ) अड़ियल, जिद्दी, हटीला

ढीला = (ڈھیلا) खुला हुआ, हल्के से बंधा हुआ, सुस्त, लूज़

ढूंढ़ना = (ڈھونڈنا) खोजना, तलाश करना

ढोल = (ڈھول) एक ok| यंत्र

ढोलक = (ڈھولک) छोटा ok| यंत्र

त (ت)

तकब्बुर = (تکبر) घमंड, अपने को महान समझना

तकिया = (تکیہ) सिर के नीचे का गद्दा, विश्वास करना, फ़क़ीर का आवास स्थल

तकबीर = (تکبیر) अल्लाह को सर्वोच्च कहना , अल्लाह हो अकबर कहने का आह्वान

तकमील = (تکمیل) समापन, कार्य पूरा होना, पूर्ण, पूर्ती

तकरार = (تکرار) पुनरावृत्ति, झगड़ा, दोहराना

तकरीम = (تکریم) सम्मान, आओ भगत, आदर

तकलीफ़ = (تکلیف) असुविधा, कष्ट, चोट

तकल्लुफ़ = (تکلف) ख़ुद को लिए-दिए रखना, मन होते हुए भी खाने-पीने से मना करना

तक़ाज़ा = (تقاضہ) अपनी चीज़ वापस मांगना, उधार अदा करने को कहना

तक़दीर = (تقدیر) भाग्य, क़िस्मत

तक़रीबन = (تقریباً) अनुमानित, लगभग, क़रीब क़रीब

तक़रीर = (تقریر) भाषण, व्याख्यान, लेक्चर

तक़र्रुब = (تقرب) निकटता, नज़दीकी, साथ

तक़र्रुरी = (تقرری) नियुक्ति, नौकरी मिलना, पोस्टिंग, तैनाती

तक़लीद = (تقلید) अनुसरण, किसी के पीछे पीछे चलना

तक़सीम = (تقسیم) वितरण, बांटना

तक़सीर = (تقصیر) ग़लती, चूक, अपराध

तग़ाफ़ुल = (تغافل) बेख़बरी, ध्यान ना देना, लापरवाई, उपेक्षा

तग़य्युर = (تغیّر) परिवर्तन, क्रांति, हालत पलटना

तख़फ़ीफ़ = (تخفیف) कमी, बचत, ख़र्च घटाना

तख़ल्लुस = (تخلّص) शायरों का उपनाम, छोटा नाम जो दर्शाता है कि किसका कलाम है

तख़लिया = (تخلیہ) एकांत, तन्हाई

तख़्त = (تخت) सिंहासन, गद्दी, राजधानी, बैठने के लिए बना लकड़ी का चौका

तख़्ता = (تختہ) लकड़ी का पटरा, काग़ज़ का ताव, फांसी पाने वालों के ख़ड़े होने का स्थान

तख़मीना = (تخمینہ) अनुमान, ख़र्च का अंदाज़ा लगाना

तख़रीब = (تخریب) तोड़-फोड़, विध्वंसकारी गतिविधियां

तजाहुल = (تجاہل) जान बूझकर अनजान बनना

तजदीद = (تجدید) नवीनीकरण, रिन्यू, फिर से आरम्भ करना

तजम्मुल = (تجمّل) ठाट-बाट

तजरुबा = (تجربہ) अनुभव

तजल्ली = (تجلّی) चमक, प्रकाश, नूर, परदा हटना, दर्शन

तजस्सुस = (تجسّس) जिज्ञासा, खोज

तजवीज़ = (تجویز) प्रस्ताव, उपाय

तज़किया = (تزکیہ) शुद्धिकरण, सफ़ाई

तज़किरह = (تذکرہ) चर्चा, एतिहासिक प्रसंग, व्याख्यान

तज़मीन = (تضمین) मिलाना, किसी शायर द्वारा रचित ग़ज़ल जैसी ग़ज़ल कहना

तड़प = (تڑپ) व्याकुलता, पाने की चाह, बेक़रारी, बेचैनी

तड़ी = (تڑی) धमकाना, धौंस जमाना, शहर की सीमा

तदारुक = (تدارک) रोकथाम, एहतियाती उपाय

तदबीर = (تدبیر) उपाय, चारा, चतुराई

तदरीज = (تدریج) धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, अहिस्ता अहिस्ता

तदरीस = (تدریس) शिक्षा देना, पढ़ाना

तज़लज़ुल = (تزلزل) खलबली, भूचाल, तहलका

तज़बज़ुब = (تذبذب) दुविधा

तज़हीक = (تضحیک) उपहास, खिल्ली उड़ाना

तन = (تن) शरीर, बदन, पिंडा, डील डौल

तनाज़ाअ = (تنازع) विवाद, झगड़ा, रार

तनासुब = (تناسب) अनुपात

तनासुल = (تناسل) सन्तान बढ़ाना

तनाव = (تناؤ) खिंचाव, शांति भंग होने का ख़तरा, टेन्शन

तनाब = (طناب) रस्सी, शिविर को बाँधने वाली मोटी डोर

तनोमंद = (تنومند) मोटा व्यक्ति, बलवान, भरी भरकम शरीर वाला

तपाक = (تپاک) गर्मजोशी, अच्छी आओ भगत

तफ़्रिक़ा = (تفرقہ) फूट, असहमति, अलग होना, जुदाई

तंग = (تنگ) संकीर्ण, चुस्त, कसा, परेशान, आजिज़

तन्ज़ = (طنز) व्यंग्य, कटाक्ष, ताना

तनज़्ज़ुली = (تنزلی) गिरावट, निचले पायदान पर आना, पद घटना, डिमोशन

तंबूल = (تنبول) पान का पत्ता, विदाई के समय रिश्तेदारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि

तन्ख़्वाह =(تنخواہ) वेतन

तंदुरुस्त = (تندرست) निरोग, स्वस्थ, भला चंगा

तंदूर = (تندور) भट्टी, रोटी पकाने वाला चूल्हा

तनफ़्फ़ुस = (تنفس) श्वसन, सांस लेना, दम लेना, श्वास

तन्हाई = (تنہائی) एकांत, अकेला पन, अलगाव

तफ़क्कुर = (تفکر) चिन्तन, सोच

तफ़ज़ील = (تفضیل) किसी को सर्वश्रेष्ट मानना या उसकी श्रेष्टा का उल्लेख करना, वरीयता देना

तफ़रीक़ = (تفریق) भेद भाव, फ़र्क़ करना

तफ़रीह = (تفریح) मनोरंजन, सैर सपाटा, हंसी मज़ाक़, दिल्लगी

तफ़सीर = (تفسیر) व्याख्या, स्पष्टीकरण

तफ़सील = (تفصیل) विवरण, विस्तार से बताना

तबाक़ = (طباق) थाल

तबाअ = (طبع) मिज़ाज, तबीयत, स्वभाव, छपाई, ठप्पा

तबीब = (طبیب) वैद्य, चिकित्सक, डाक्टर

तबीयत = (طبیعت) स्वभाव, मिज़ाज, आदत, हाल चाल

तबक़ा = (طبقہ) मानव समूह, लोक, क्षेत्र, खंड, परत, मंज़िल, तल

तबला = (طبلہ) छोटा ढोल

तबादला = (تبادلہ) स्थानांतरण, ट्रांसफ़र, अदला बदली

तबारक = (تبارک) बड़ा, शीर्ष

तबाह = (تباہ) नष्ट, नाश

तब्दील = (تبدیل) बदलना, परिवर्तन होना

तबर्रुक = (تبرّک) प्रसाद, पवित्र खाना या वस्तु

तबस्सुम = (تبسّم) मुस्कान

तमांचा = (طمانچہ) थप्पड़, चांटा, गाल पर ज़ोर से हाथ मारना

तमाशा = (تماشہ) कर्तब दिखाना, भीड़ लगा कर अपनी कला का प्रदर्शन करना

तमाम = (تمام) सम्पूर्ण, सब, समापन, अंत, कुल

तमसील = (تمثیل) उपमा, दृष्टान्त, मिसाल

तमस्सुक = (تمسّک) किसी का दामन थामना, किसी से ख़ुद को जोड़ना

तमग़ा = (تمغہ) पदक, मेडल

तम्कनत = (تمکنت) घमंड, नाज़, मान. टीप टाप और सजे संवरे रहना

तमंचा = (طمنچہ) पिस्तौल, कट्टा

तम्हीद = (تمہید) प्रस्तावना, भूमिका

तमीज़ = (تمیز) शिष्टाचार, अच्छा आचरण, भेद, अंतर

तमअ = (طمع) लोभ, लालच, आशा, चाह

तयमुम = (تیمّم) नमाज़ के लिए मिट्टी से हथेली और चेहरा पाक करना

तरबतर = (تربتر) भीगा हुआ, सराबोर

तराज़ू = (ترازو) तौलने वाला काँटा

तराशना = (تراشنا) कांटना छांटना

तराई = (ترائی) खादर, वह क्षेत्र जहाँ धरती नम रहती हो

तरबियत = (تربیت) प्रशिक्षण देना, शिष्टाचार सिखाना, सधाना, पालन

तरतीब = (ترتیب) क्रम

तर्जुमान = (ترجمان) प्रवक्ता, अनुवादक

तर्जुमा = (ترجمہ) अनुवाद

तरजीह = (ترجیح) वरीयता

तरदीद = (تردید) खंडन, रद्द करना

तरस = (ترس) दया, रहम, भय, डर

तरसाना = (ترسانا) ललचाना, चीज़ दिखाकर न देना

तरसील = (ترسیل) संचार, भेजना, पत्राचार

तरग़ीब = (ترغیب) प्रोत्साहन, लालच दिलाना

तरक़्क़ी = (ترقی) उन्नति, बढ़ोतरी, वृद्धि

तरकारी = (ترکاری) सब्ज़ी, भाजी, वेजिटेबिल

तरकीब = (ترکیب) उपाय, संश्लेषण, ढब, तौर, संयोजन

तरमीम = (ترمیم) संशोधन, सम्पादन, परिवर्तन करना, बदलना

तर्रार = (طرار) तेज़ ज़ुबान वाला, चालाक, चुलबुला, स्मार्ट

तरावत = (تراوت) ताज़गी, हरा भरा, तरावट, फ्रेशनेस

तरब = (طرب) विलास, ख़ुशी, आनन्द

तरहदार = (طرحدار) शिष्टाचारी, छैल छबीला, रंगीला, सुंदर, सजीला

तर्ज़ = (طرز) तौर तरीक़ा, धुन, आकार, शक्ल, शैली, सजावट

तरफ़ = (طرف) ओर, किनारा, दिशा, पक्ष

तरीक़ = (طریق) सड़क, रास्ता, डगर, धर्म, पन्थ, शरीयत

तरीक़ा = (طریقہ) विधि

तलअत = (طلعت) दर्शन, नज़ारा, शक्ल

तला = (تلا) घी, तेल में फ़्राई किया गया, जूते का निचला भाग

तलाक़ = (طلاق) शादी टूटना, त्यागना, आज़ाद करना, अलग करना

तलाफ़ी = (تلافی) क्षतिपूर्ति, भरपाई

तलाश = (تلاش) खोज, ढूँढना

तल्ख़ = (تلخ) कड़वा, कटु

तलछट = (تلچھٹ) बची खुची, पानी के नीचे बैठी वस्तु, किसी पेय के नीचे बैठा मैल

तलफ़ = (تلف) नष्ट

तलफ़्फ़ुज़ = (تلفظ) शब्द उच्चारण

तलब = (طلب) मांग, इच्छा, चाह

तलवार = (تلوار) खड्ग, शमशीर

तलव्वुन = (تلون) अस्थिरता, बात या इरादा बदलते रहने वाला व्यक्ति

तवाएफ़ = (طوائف) नृत्यांगना, नाचने वाली, नर्तकी

तवाज़ो = (تواضع) अतिथि सत्कार, आओ भगत, ख़ातिरदारी

तवाफ़ = (طواف) परिक्रमा, फेरे, चक्कर लगाना

तवानाई = (توانائی) ऊर्जा, शक्ति, ज़ोर, ताक़त

तवारीख़ = (تواریخ) इतिहास, पिछले युग की कथा

तवक़्क़ुफ़ = (توقف) ठहराव, थमना, विलंब

तवक़्क़ो = (توقع) आशा, आस, भरोसा, उम्मीद

तवस्सुत = (توسّط) माध्यम, ज़रिया

तवस्सुल = (توسل) किसी को मध्यस्त बनाना, किसी से सिफ़ारिश करवाना

तशख़ीस = (تشخیص) निदान, खोज, मरज़ की पहचान

तश्त = (طشت) तसला, लगन, थाल, बड़ी सी प्लेट

तश्तरी = (طشتری) छोटी प्लेट, चाय के कप के नीचे वाली प्लेट

तशफ़्फ़ी = (تشفّی) ढारस, दिलासा, तसल्ली

तशबीह = (تشبیہ) किसी चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बताना, (होंट को फूल जैसा कहना)

तशद्दुद = (تشدّد) हिंसा, सख़्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती

तशना = (تشنہ) प्यासा (तिश्ना)

तशनगी = (تشنگی) प्यास (तिश्नगी)

तशनी = (تشنیع) ताना मारना

तशन्नुज = (تشنّج) कांपना, थरथराना, ऐंठन पड़ना

तशरीह = (تشریح) व्याख्या

तशरीफ़ लाना = (تشریف لانا) पधारना, सम्मान के साथ किसी जगह पर जाना

तशवीश = (تشویش) चिंता

तशहीर = (تشہیر) प्रचार प्रसार

तसाहुल = (تساہل) काहली, सुस्ती, टालना, लापरवाई

तस्बीह = (تسبیح) ईश्वर या अल्लाह का नाम जपने वाली माला, स्तुति अल्लाह की

तसख़ीर = (تسخیر) विजित, मोहना, घेरना, चोटी पर पहुंचना

तस्कीन = (تسکین) संतोष, ढारस, तसल्ली

तसलसुल = (تسلسل) आवेग, अनुक्रम, कड़ी

तसल्लुत = (تسلّط) वर्चस्व, प्रभुत्व, शासन

तसलीम = (تسلیم) स्वीकार, मान्यता, पहचानना, नमस्कार , आदाब

तसहीह = (تصحیح) भूल सुधार, करेक्शन

तसदीक़ = (تصدیق) पुष्टि

तसर्रुफ़ = (تصرّف) ख़र्च, उपभोग

तसफ़िया = (تصفیہ) निपटान, बीच बचाओ, सुलह सफ़ाई

तसन्नो = (تصنع बनावट,)नक़लीपन, दिखावा

तसनीफ़ =(تصنیف) रचना, लेखन

तसव्वुफ़ = (تصوّف) रहस्यवाद, सूफ़ी विचार धारा, वासनाओं का परित्याग, सूफ़ीवाद

तस्वीर = (تصویر) छवि, छाया, रूप, फ़ोटो

तह = (تہہ) तला, परत, निचला भाग, सिलवट, लपेट, निम्नतम

तहारत = (طہارت) पवित्रता, नहाना धोना

तहक़ीर = (تحقیر) अपमान, अनादर, तिरस्कार

तहक़ीक़ = (تحقیق) अनुसन्धान, जाँच, पड़ताल, खोज

तहज़ीब = (تہذیب) संस्कृति, सभ्यता, शिष्टाचार

तहनियत = (تہنیت) बधाई, मुबारकबाद

तहम्मुल = (تحمّل सहन) शीलता, धैर्य

तहय्या =(تہیّہ ठान) लेना, तैयार हो जाना, संकल्प

तहरीफ़ = (تحریف) विकृत, शब्दों में परिवर्तन करना

तहरीक = (تحریک) आन्दोलन, उभारना, प्रोत्साहित करना

तहलील = (تحلیل) भंग, विलय, घोटना, घोलना, एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिला देना

तहस-नहस = (تہس نہس) नष्ट करना, उजाड़ना, बरबाद करना

तहसीन = (تحسین) सराहना, तारीफ़, वाह वाह करना

तहसील = (تحصیل) हासिल करना, वसूल करना, कर व लगान वसूलने वाला दफ़्तर

तहवील = (تحویل) धरोहर, हिरासत, कोष, निगरानी में देना या लेना

ताअत = (طاعت) पूजा पाठ, आज्ञाकारी, अनुपालन

तआरुफ़ =(تعارف) परिचय, जान पहचान

तआकुब = (تعاقب) पीछा करना, अनुसरण

ताअल्लुक़ = (تعلق) सम्बन्ध, लगाव

ताअल्लुक़ा = (تعلّقہ क्षेत्र), ज़िला, जायदाद, जागीर

तआला = (تعالیٰ) उच्च, शीर्ष, सर्वशक्तिमान

ताईद = (تائید) समर्थन, सहमति, तरफ़दारी करना

ताएर = (طائر) पक्षी, चिड़िया

ताऊस = (طاؤس) मोर

ताकना = (تاکنا) छुप कर देखना, लगातार दृष्टि जमाये रहना

ताकीद = (تاکید) ज़ोर देकर कहना, कड़ा निर्देश

ताक़ = (طاق) छोटी सी मेहराब, आला, निपुण होना, विशेषज्ञ

ताक़त = (طاقت) शक्ति, बल, ज़ोर, उर्जा

ताख़ीर = (تاخیر) देर, ढील

ताज = (تاج) मुकुट, बादशाह की टोपी

ताजिर = (تاجر) व्यापारी, विक्रेता

ताज़ा = (تازہ) त्वरित, गर्मा गर्म, तुरंत, अभी अभी, फ़्रेश

ताज़िया = (تعزیہ) इराक़ में इमाम हुसैन के मज़ार पर बने भवन की जैसी आकृति, दिलासा

ताज़ियाना = (تازیانہ) कोड़ा, चाबुक, हंटर

ताज़ियत = (تعزیت) संवेदना, किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना

ताज़ीम = (تعظیم) आदर, सत्कार

ताज़ीर = (تعزیر) सज़ा, दंड

ताज़ीरात ए हिन्द = (تعزیرات ہند) भारतीय दंड संहिता

तातील = (تعطیل) छुट्टी, अवकाश

तानीस = (تانیث) स्त्री लिंग

तापना = (تاپنا) गर्मी पहुंचाना, धूप या आग के सामने बैठ कर सेंकना

ताब = (تاب) चमक, मजाल, सहनशीलता, ताप

ताबेए = (تابع) अनुपालन करने वाला, मातहत, आदेश मानने वाला

ताबां = (تاباں) चमकदार, प्रकाशमय, नूरानी

ताबड़ तोड़ = (تابڑ توڑ) लगातार, तले ऊपर, एक पर एक

ताबीर = (تعبیر) व्याख्या, किसी स्वप्न का अर्थ ढूँढना

ताबूत = (تابوت) मुर्दे का बक्सा, अर्थी, लाश उठाने वाला सन्दूक़

तालाब = (تالاب) पोखर

तालिब = (طالب) इच्छुक

तालिबे इल्म = (طالب علم) शिक्षार्थी, छात्र

तालीम = (تعلیم) शिक्षा, पढ़ाई. सीखना

तामीर = (تعمیر) निर्माण, भवन

बनाना

तामील = (تعمیل) अनुपालन

तार = (ار) धातु या प्लास्टिक का लम्बा व गोल डोरा, टेलीग्राम

ताराज = (اراج) नष्ट, विनाश, बरबादी

तारी = (طاری) छाना, छाया हु आ

तारीक = (اریک) अँधेरा, काला

तारीख़ = (اریخ) दिनांक, इतिहास

तारीफ़ = (تعریف) प्रशंसा

तार-तार = (ار ار) फट जाना, धज्जी धज्जी उड़ना

ताव = (او) गुस्सा, गर्मी, ताप, काग़ज़ का पूरा शीट

तावीज़ = (تعوید आश्रय देना, पनाह, गले में पहनी गई दुआ

ताशा = (اشہ) एक प्रकार का वाद्य यंत्र

तास्सुफ़ = (اسّف)पछतावा, दु:ख व्यक्त करना

तास्सुब = (عصّب पूर्वाग्रह, धर्म या जाति के नाम पर भेद भाव करना

तास्सुर = (اثّر) प्रभाव, अनुभव, राय

ताहम = (اہم) फिर भी

ताहिर = (طاہر) पवित्र, पाक दामन

तिक्का = (تکہ गोश्त का भुना हु आटुकड़ा

तिजारत = (تجارت) व्यापार, क्रय विक्रय

तिफ़्ल = (طفل) बालक, बच्चा, लड़का

तिब्ब = (طب) चिकित्सा, आयुर्विज्ञान, रोग उपचार

तिनका = (تنکا) घास का डंठल, झाड़ू का अंश

तिर्याक़ = (ریاق) ज़हर मोहरा, विषैले जन्तुओं के ज़हर से बचाने वाली औषधि, विषहर

तिला = (طلاء) स्वर्ण, सोना

तिलाई = (طلائی) स्वर्णिम, सोने का, सुन्हेरा

तिलावत = (تلاوت) पढ़ना, पाठ, क़ुरआन पढ़ना, सुनाना

तिलिस्म = (طلسم) जादू, कोई अनोखी बात, तंत्र, टोना

तीखा = (تیکھا) तेज़, नुकीला, मिर्च वाला खाना

तीन पांच = (تین پانچ) तकरार, बहस, रार

तीनत = (طینت) आदत, स्वभाव

तीमारदारी = (تیمارداری) रोगी की सेवा, देखभाल

तीर = (تیر) बाण, तेज़, जल्दी

तुक्का = (تکا) बिना भाल वाला

बाण, अनुमान लगाना, भविष्य वाणी करना

तुकबन्दी = (تک بندی) काव्य रचना लिखने की कोशिश, क़ाफ़ियों का जोड़ तोड़

तुख़्म = (تخم) बीज, अंडा, गुठली

तुज़ुक = (تزک) ताम झाम, धूम धड़क्का, शान, डायरी

तुन्द = (تند) तेज़, कड़ा, शीघ्र असर करने वाला

तुफ़ = (تف) थूक, किसी पर थूकना, तिरस्कार

तुफ़ैल = (طفیل) किसी की वजह से कोई काम होना, दान, सदक़ा

तुफ़ंग = (تفنگ) बाण, बंदूक़

तुर्बत = (تربت) क़ब्र, मज़ार, समाधि, मिट्टी

तुरफ़ा = (طرفہ) नया, अनोखा, नवीन, अजीब

तुर्रा = (طرّہ) केश, ज़ुल्फें,कुछ अधिक, फूलों से बना ज़ेवर जो कान पर लटकता है

तुर्शी = (ترشی) खटास

तुम्त्राक़ = (طمطراق) धूम धाम, भीड़ भड़क्का, शान शौकत

तुलुउ = (طلوع) उदय, उभरना, निकलना

तू तुकार = (تو تکار) अप शब्द कहना, बदज़बानी, मौखिक लड़ाई

तू तड़ाक = (تو تڑاک) गालम गलौज, बदतमीज़ी से बात करना

तू तू मैं मैं = (تو تو میں میں) झगड़ा करना, एक दूसरे को बुरा कहना, बहस करना

तूफ़ान = (طوفان) बाढ़, समुद्र में उठने वाली ऊँची लहरें और तेज़ हवा, तेज़ आंधी

तूमार = (طومار) लम्बा पत्र, बहुत लम्बा आलेख, बहुत बड़ा उल्लेख

तूर = (طور) मिस्र के सेनाई प्रान्त के एक एतिहासिक पहाड़ का नाम

तूल = (طول) लम्बाई

तेग़ = (تیغ) तलवार, खड़ग

तेज़ = (تیز) धारदार, चालाक, होशियार, द्रुतगामी

तेज़ाब = (تیزاب) अम्ल, एसिड

तेवर = (تیور) हाव भाव, चितवन, नेत्र ज्योति

तेवरी = (تیوری) माथे की सिलवट

तअय्युन = (تعین) निर्धारण, ठहराना

तेशा = (تیشہ) कुदाल, कुल्हाड़ी, बेलचा

तै = (طے) किसी बात पर सहमत

होना, रास्ता पूरा करना, निर्णय, निपटान

तैयार = (تیار) तत्पर , पक जाना, सहमत, राज़ी

तैनाती = (تعیناتی) नियुक्ति, पहरेदारी, सेवा

तैश = (طیش) गुस्सा, आपे से बाहर होना, गर्म स्वभाव

तोदह = (تودہ) मिट्टी का ढेर, कच्चा टीला

तोशक = (توشک) रूई का गद्दा, गदीला बिस्तर

तोशा = (توشہ) यात्रा का सामान, वह भोजन जो यात्री साथ ले जाए

तोहफ़ा = (تحفہ) भेंट, उपहार, गिफ़्ट

तोहमत = (تہمت) लांछन लगाना, झूठा आरोप, केवल शक पर कलंक लगाना

तौक़ = (طوق) बंदियों के गले में डाला जाने वाला भारी लोहा, गले का ज़ेवर

तौफ़ीक़ = (توفیق) अनुग्रह, सामर्थ्य, ताक़त, हौसला, उपकार करने की शक्ति

तौबा = (توبہ) पश्चाताप, पछतावा, ख़ुदा से क्षमा मांगना, पाप ना करने की प्रतिज्ञा

तौलना = (تولنا) भार करना, जांचना, परखना, अंदाज़ा लगाना

तौलिया = (تولیہ) अंगौछा , बदन पोछने वाला कपड़ा

तौलियत = (تولیت) किसी को निरीक्षक बनाना, रखवाला

तौलीद = (تولید) प्रजनन, जनना

तौसीफ़ = (توصیف) प्रशंसा, अच्छाइयों का बखान

तौहीद = (توحید) एकेश्वरवाद, एकता

तौर = (طور) चाल चलन, चाल ढाल, रूप, प्रचलन

थ (تھ)

थकन = (تھکن) परास्त, थकावट, बहुत परिश्रम के बाद की स्थिति, हारा हुआ

थक्का = (تھکا) ढेर, अटाला, अंबार

थपकना = (تھپکنا हल्के) हल्के शरीर पर हाथ मारना, शिशु को सुलाने के लिए माँ का स्पर्श

थपेड़ा = (تھپیڑا) तूफ़ान का झोंका, तेज़ लू वाली हवा

थप्पड़ = (تھپّڑ) तमांचा, थाप, कंटाप, झापड़

थमना = (تھمنا) रुकना, चुप होना, ठहरना

थरथरी = (تھرتھری) कांपना, कंपन

थाना = (تھانہ) पुलिस स्टेशन, बांस का ढेर

थाह = (تھاہ) गहराई, हाले दिल, अंत, भेद, राज़

थूक = (تھوک) लार, मुंह का पानी

थैला = (تھیلا) झोला, बैग, छोटी बोरी

थोपना = (تھوپنا) ढेरी लगाना, उपले बनाना, झूठा आरोप लगाना

थोड़ा = (تھوڑا) तनिक, कम, ज़रा सा

थोक = (تھوک) इकट्ठा, ढेर, जत्था, होल सेल

द (د)

दक़्यानूस = (دقیانوس) पुराने विचारों वाला, पुरातनपंथी, पिछले युग का

दक़ीक़ा = (دقیقہ) मिनट, पल, नुक़्ता, महीन

दख़्ल = (دخل) हस्तक्षेप, पहुंच प्रवेश करना

दग़ा = (دغا) छल, धोखा, ठगना, झांसा

दड़बा = (دڑبہ) मुर्ग़ीयों या कबूतरों का पिंजरा

दफ़अ = (دفعہ) एक बार, क़ानून की धारा

दफ़अतन = (دفعتاً) अचानक, सहसा, यकायक

दफ़ा = (دفع) दूर करना, हटाना, खदेड़ना

दफ़ीना = (دفینہ) धरती में गड़ा ख़ज़ाना

दफ़्तर = (دفتر) कार्यालय, पुस्तक, काग़ज़ात

दफ़्तरी = (دفتری) पुस्तक की जिल्द बनाने वाला

दफ़्न = (دفن) धरती में समाधी, लाश को मिट्टी में दबाना, अंतिम संस्कार

दबाना = (دبانا) गाड़ना, बोना, ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा, हक़ मारना, कमज़ोर पर हावी होना

दबीर = (دبیر) मुंशी, लिखने वाला, सचिव, सेक्रेटरी, विचारक, बुद्धजीवी

दबदबा = (دبدبہ) रोब दाब, शक्ति प्रदर्शन, ढोल की थाप

दबाव = (دباؤ) बोझ, भार, प्रेशर

दन्दान = (دندان) दांत

दम = (دم) ज़ोर, प्राण, साँस, पल, कश मारना, मंत्र या दुआ पढ़ कर फूँकना

दयार = (دیار) देश, नगर, मुल्क, घर अथवा मकान का बहु वचन

दर = (در) द्वार, दरवाज़ा

दराड़ = (دراڑ) झिरी, दरार, गैप

दरिया = (دریا) नदी, वह जल धारा जो पर्वत से निकल कर समुद्र में मिल जाए

दरी = (دری) बिछाने का कपड़ा, भंग करना, लूटना, फाड़ना

दरीचा = (دریچہ) खिड़की, मोखा, छोटा सा द्वार

दरीदा = (دریدہ) फटा हुआ

दरीबा = (دریبہ) पान का बाज़ार, पनवाड़ियों का मोहल्ला

दरेग़ = (دریغ) पछतावा, अफ़सोस जताना

दरोग़ = (دروغ) झूठ, मिथ्या

दरकार = (درکار) आवश्यकता, अपेक्षित, जो चीज़ चाहिए हो

दरकिनार = (درکنار) एक ओर, उपेक्षा, अलग रखना

दरख़्त = (درخت) वृक्ष, पेड़, झाड़

दरख़्शाँ = (درخشاں) चमकीला, प्रकाश से भरा, रौशन

दरख़्वास्त = (درخواست) प्रार्थना पत्र, निवेदन, आग्रह करना, अर्ज़ी, अपील

दरगाह = (درگاہ) धर्म स्थल, किसी बुज़ुर्ग का मज़ार, किसी सूफ़ी की चौखट

दरगुज़र = (درگذر) क्षमा करना, भुला देना, नज़र अंदाज़ करना

दर्ज = (درج) अनुसूचित, सूचीबद्ध, लिखवाना, तहरीर देना

दर्जन = (درجن) 12 नग, 12 का थोक सौदा

दर्जा = (درجہ) कक्षा, स्तर, श्रेणी

दर्ज़ी = (درزی) कपड़े सीने वाला, टेलर

दर्द = (درد) दुःख, पीड़ा, तकलीफ़

दरपेश = (درپیش) सामने, आगे

दरपर्दा = (درپردہ) छुप कर, पीठ पीछे

दरबार = (دربار) राजा की सभा, कचेहरी, दरगाह, आस्ताना

दरबान = (دربان) द्वारपाल, चौकीदार, संतरी, गार्ड

दर्स = (درس) पाठ, सबक़, शिक्षा, पढ़ना

दरमाँ = (درماں) उपचार, निवारण, चारा, इलाज

दरमियान = (درمیان) मध्य, बीच में, घेरे में

दरयाफ़्त = (دریافت) खोज, आविष्कार, पूछना

दरयूज़ा = (دریوزہ) भिक्षा

दरवाज़ा = (دروازہ) द्वार, पट, फाटक

दरवेश = (درویش) भिखारी, फ़क़ीर, साईं, संत, ईश्वर का ध्यान करने वाला

दर्रा = (درّہ) दो पर्वतों के बीच का रास्ता

दरहम = (درہم) उलट पुलट, तितर बितर, गड़बड़

दलाल = (دلال) बिचौलिया, सौदा कराने वाला, कमीशन एजेंट, भड़वा

दलदल = (دلدل) कीचड़, धसान, जिस मिट्टी में पैर धंस जाएँ

दलील = (دلیل) तर्क

दवा = (دوا) औषधि, दवाई

दवाम = (دوام) सदा, अनंत, हमेशा

दवां = (دواں) दौड़ता हु आ, भागना हु आ

दस्त = (دست) हाथ, पंजा, पतला शौच

दस्ता = (دستہ) समूह, जत्था, ग्रुप, हत्था

दस्ताना = (دستانہ) हाथ पर चढ़ाया जाने वाला वस्त्र या चमड़ा, ग्लव्ज़

दस्तक = (دستک) खटखटाना, द्वार पर हाथ मारना

दस्तकार = (دستکار) हस्त शिल्पी

दस्तख़त = (دستخط) हस्ताक्षर

दसपना = (دسپنا)रसोई में काम आने वाला चिमटा, (दस्त पनाह)

दस्तार = (دستار) पगड़ी, टोपी

दस्तूर = (دستور) संविधान, तौर तरीक़ा, रीति रिवाज, नियम

दस्तरख़्वान = (دسترخوان) भोजन लगाने के लिए बिछने वाला कपड़ा या पलास्टिक

दस्तयाब = (دستیاب) उपलब्ध

दहाड़ = (دہاڑ) शेर की आवाज़

दहाना = (دہانہ) मुख, नदी के समुद्र में गिरने का स्थान, घाटी के शुरू होने की जगह

दहकना = (دہکنا) भड़कना, आग का जलना

दहक़ान = (دہقان) किसान, कृषक, देहाती

दहशत = (دہشت) आतंक, डर

दहशतगर्द = (دہشت گرد) आतंकवादी

दहन = (دہن) मुख

दहर = (دہر) संसार, दुनिया, समय

दहलना = (دہلنا) आतंकित हो जाना, घबराना, डर जाना, किसी के रोब में आ जाना

दहलीज़ = (دہلیز) चौखट, दरवाज़े का निचला भाग

दाएर = (دائر) दाख़िल, फ़ाइल करना

दाएरा = (دائرہ) कुंडल, गोला, घेरा, चक्र, क्षेत्र

दाएम = (دائم) सदा, हमेशा जन्म भर

दाख़िल = (داخل) प्रवेश, डालना, भर्ती होना

दाग़ = (داغ) धब्बा, कलंक, घाव या जलने का निशान, शोक, दुःख

दाग़ बेल = (داغ بیل) वह निशान जो खुदाई से पहले लगाया जाय

दाना = (دانا) बुद्धिमान, ज्ञानी, चतुर, शरीर पर निकली फुंसी

दाना = (دانہ) अनाज, ग़ल्ला, बीज, पक्षियों का खाना

दानिस्ता = (دانستہ) जान बूझ कर

दानिश = (دانش) बुद्धी, ज्ञान, समझ

दाने = (دانے) शरीर पर निकलने वाली फुंसियां, चेचक या ख़सरा

दाद = (داد) फ़रियाद, न्याय, प्रशंसा, एक प्रकार का चर्म रोग

दाब = (داب) दबाव, बोझ, ज़ोर

दाम = (دام) मूल्य, क़ीमत, भाव, दर, जाल

दामाद = (داماد) बेटी का पति, वधु का वर

दामन = (دامن) वस्त्र का निचला भाग

दार = (دار) फांसी का फन्दा, घर, मोहल्ला, स्थान

दारुल अम्न = (دارالامن) अमन का घर, आराम चैन वाला देश

दारुल हर्ब = (دارالحرب) जिस नगर या देश में लड़ाई छिड़ी हो

दारुल हुकूमत = (دارالحکومت) राजधानी

दारुशिशफ़्फ़ा = (دارالشفا) अस्पताल, जहाँ उपचार हो, रोग मुक्त करने वाला स्थान

दारोग़ा = (داروغہ) सब इंस्पेक्टर, थानेदार, किसी समूह का सरदार

दार-ओ-मदार = (دارومدار) निर्भरता

दालान = (دالان) बड़ा कमरा, मेहराब बने हुए लम्बे चौड़े हाल

दास्तान = (داستان) कथा, कहानी, क़िस्सा

दाव = (داؤ) धोखा, बहाना, फ़रेब, घात

दांव = (داؤں) जुए की बाज़ी, पासा फेंकना, लाटरी निकलना

दावत = (دعوت) न्योता, भोज, बुलावा, खाने पीने की पार्टी

दावा = (دعویٰ) अधिकार जताना, मुक़द्दमा ठोकना, मांग, क्लेम

दाहिना = (داہنہ) सीधे हाथ की

ओर, दायां

दिक़ = (دق) क्षय रोग, टी बी

दिक़्क़त = (دقّت) कठिनाई, परेशानी, तंगी

दिखावा = (دکھاوا) बनावट, झूठी शान, नक़लीपन, शो बाज़ी

दिन = (دن) दिवस, भोर, वार

दिमाग़ = (دماغ) मस्तिष्क

दिरहम = (درہم) अरब की करंसी, चांदी की सिक्के

दिल = (دل) हृदय

दिलासा = (دلاسا) धीरज दिलाना, आस बांधना

दिलावर = (دلاور) बहादुर, शूर वीर

दिलेर = (دلیر) शूर वीर, साहसी, निर्भीक, शेर दिल

दिलबर = (دلبر) मन मोहक, प्रीतम, जिस पर दिल आ जाये, महबूब, दोस्त

दियानत = (دیانت) ईमानदारी

दीजूर = (دیجور) अमावस की रात, काली वस्तु

दीद = (دید) देखना, निगाह, दर्शन

दीदा = (دیدہ) नेत्र, आँख, देखा हु आ

दीदार = (دیدار) दर्शन, मुलाक़ात होना

दीन = (دین) धर्म, पन्थ, मज़हब

दीबाचा = (دیباچہ) प्रस्तावना, प्राक्कथन

दीवान = (دیوان) शाही दरबार, मंत्री, कचेहरी, ग़ज़लों की पुस्तक

दीवाना = (دیوانہ) मानसिक रोगी, बावला, पागल

दीवार = (دیوار) भीत, ओट, दीवाल

दुआ = (دعا) प्रार्थना, मनोकामना, आशीर्वाद

दुकान = (دکان) विक्रय स्थल, बाज़ार में व्यापार करने का स्थान

दुःख = (دکھ) पीड़ा, दर्द, रोग, तकलीफ़

दुख़्तर = (دختر) बेटी, कन्या, लड़की

दुख़ूल = (دخول) घुसेड़ना, अंदर करना, घुसना, अंदर जाने का रास्ता

दुज़्द = (دزد) चोर, उठाई गीरा

दुनिया = (دنیا) जगत, संसार, विश्व, पृथ्वी

दुपट्टा = (دوپٹہ) ओढ़नी, चुन्नी

दुबकना = (دبکنا) डर कर छुपना

दुबला = (دبلا) निर्बल, पतला, कमज़ोर, लाग़र

दुम = (دم) पूंछ, पिछला भाग

दुर = (در) मोती, अपने से दूर रहने के लिए कहना, बुरा

दुरुस्त = (درست) ठीक, सही,

मरम्मत हो जाना, ठीक ठाक होना

दुरूद = (درود) पैग़म्बर हज़रत मोहम्मद व उनके परिवार पर रहमत की दुआ

दुर्रा = (دُرّہ) हंटर, कोड़ा चाबुक

दुलार = (دلار) लाड, प्यार

दोलत्ती = (دولتّی) जानवर का पिछली टांगों से लात मारना

दुश्मन = (دشمن) शत्रु, बैरी, विरोधी, बुरा चाहने वाला

दुशनाम = (دشنام) गाली गलौज

दुशवार = (دشوار) कठिन, मुश्किल, दूभर

दूख्त = (دوخت) सिलाई

दूद = (دود) धुआं, भाप

दूधिया = (دودھیا) दूध जैसा सफ़ेद, दूध से बना हलवा

दूरी = (دوری) फ़ासला, रास्ते की लम्बाई, दिलों का मतभेद

दूसरा = (دوسرا) द्वितीय, एक अन्य, बराबर का

देन = (دین) उधार, बख़्शिश, तोहफ़ा

देव = (دیو) भूत, प्रेत, बहुत बड़ा जीव, भीमकाय आकृति, राक्षस

देहन्दा = (دہندہ) देने वाला, अदा करने वाला

दोआबा = (دوآبہ) वह क्षेत्र जहाँ दो नदियाँ बहती हों

दोग़ला = (دوغلا) धोखे बाज़, कमीना, दोहरा चरित्र रखने वाला

दौड़ = (دوڑ) भागना, रेस, पहुंच

दोज़ख़ = (دوزخ) नरक, जहन्नुम

दोपहर = (دوپہر) मध्यान्ह

दोबारा = (دوبارہ) एक बार फिर

दोबाला = (دوبالا) दूना, बढ़ जाना

दोम = (دوم) द्वितीय, दूसरा, अन्य

दोश = (دوش) कान्धा

दोशीज़ा = (دوشیزہ) कुंवारी कन्या, अवयस्क लड़की, किशोरी

दोस्त = (دوست) मित्र, साथी, संगी

दोहरा = (دوہرا) दुगना, टेढ़ा, झुका हुआ, डबल

दोहराना = (دوہرانا) बार बार पढ़ना, रटना, दोबारा कहना, रिपीट करना

दौड़ = (دوڑ) भागना, रेस, पहुँच

दौना = (دونا) पत्तों का बना पियाला

दौरान = (دوران) चक्कर, अवस्था, बीच में

दौरा = (دورہ) अधिकारियों का

भ्रमण, क्षेत्र में गश्त, विदेश यात्रा, रोग, बीमारी

दौलत = (دولت) धन, माल, देश, सरकार, सल्तनत

ध (دھ)

धक्का = (دھکا) रेला, आफ़त, टक्कर

धकेलना = (دھکیلنا) धक्का देना, पेलना, रेलना, ढकेलना

धड़कन = (دھڑکن) दिल की गति, बेचैनी, घबराहट

धचका = (دھچکا) झटका, सदमा, हिचकोला, आहत होना

धज्जी = (دھجّی) कागज़ या कपड़े की कतरन

धड़ = (دھڑ) शरीर, बदन का सिर से नीचे का भाग

धड़का = (دھڑکا) डर, खटका

धनक = (دھنک) कमान, इंद्र धनुष

धन = (دھن) माल, दौलत, सम्पत्ति

धमक = (دھمک) आहट, पाँव की आवाज़, गूंजती आवाज़

धमकी = (دھمکی) डराना, डांटना, आतंकित करना

धमा चौकड़ी = (دھما چوکڑی) शोर शराबा, हंगामा, कूद फांद

धरा = (دھرا) रखा हुआ या पकड़ा हुआ

धाक = (دھاک) रोब जमना, धूम

धान्द्ली = (دھاندلی) बेईमानी, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हथिया लेना, धांधली

धार = (دھار) हथियारों की बाढ़, तरल पदार्थ के गिरने का रूप, नदी का बहाव

धुत = (دھت) नशे में चूर

धुत्कारना = (دھتکارنا) झिड़कना, ज़लील करना, किसी से कुत्ते जैसे बर्ताव करना

धुन = (دھن) ध्यान, गाने की तर्ज़, किसी काम की दीवानगी

धुनकना = (دھنکنا) रूई साफ़ करना, ख़ूब पिटाई करना

धुंध = (دھند) वातावरण पर छाया प्रदूषण, कोहरे की चादर, कम प्रकाश

धुंधला = (دھندلا) साफ़ न होना, कम प्रकाश, ऐसा शीशा जिससे आर-पार देखा न जा सके

धुंधलका = (دھندلکا) सूर्योदय से

पहले या सूर्यास्त के बाद का समय

धुवां = (دھواں) धूम्र, धूम

धूप = (دھوپ) सूर्य का प्रकाश, ख़ुशबू के लिए जलाई जाने वाली सामग्री

धूल = (دھول) राख, मिट्टी, गर्द

धूम = (دھوم) शोर मचना, जश्न का माहौल, अफ़वाह, चर्चा का विषय होना

धोका = **(**دھوکا) ठगी, जो हो वह दिखाई न देना, फ़रेब

धीमा = (دھیما) मधम, हल्का, सुस्त

धौल-धप्पा = (دھول دھپّا) छेढ़ छाड़, दोस्ताना हाथा पाई

धौंकना = (دھونکنا) आग को हवा देना

धौंस = (دھونس) धमकाना, हनक दिखाना

धींगा मुश्ती = (دھینگا مشتی) हाथा पाई, लड़ाई झगड़ा

न (ن)

नक़ाब = (نقاب) मुंह ढांकने वाला कपड़ा, घूँघट, बुर्क़ा, (निक़ाब)

नक़ाहत = (نقاہت) कमज़ोरी, दुर्बलता

नक़्क़ाद = (نقّاد) आलोचक, टिप्पणी करने वाला, समालोचक

नक़्क़ारा = (نقّارہ) नगाड़ा, ढोल

नक़्क़ाश = (نقّاش) चित्रकार, बेल बूटे बनाने वाला

नक़्ज़ = (نقض) टूट फूट, तोड़ना, बिगाड़

नक़्द = (نقد) नक़दी, कैश, नक़द

नक़्ल = (نقل) प्रतिलिपि, परीक्षा में बेईमानी करना, दूसरी जगह जाना, हंसी उड़ाना

नक़्श = (نقش) चित्र, मूर्ति, छवि

नक़्शा = (نقشہ) मानचित्र, मैप, रोब झाड़ना

नक़्स = (نقص) त्रुटी, ख़राबी, कमी, अधूरा पन

नक़ब = (نقب) सेंध, दीवार तोड़ कर चोरी करना

नक़ीब = (نقیب) डुग्गी पीटने वाला, आवाज़ देने वाला, जो वंश का जानकार हो

नख़ास = (نخاس) वह बाज़ार जहाँ पशु, पक्षी, और हर प्रकार की वस्तुएं बिकती हों

नख़रा = (نخرہ) नाज़, अठखेली, लोगों की फ़र्माइश पूरी करने से इन्कार करना

नख़लिस्तान = (نخلستان) मरूस्थल के बीच हरे भरे दरख्तों वाला

मैदान, शाद्वल

नगीना = (نگینہ) रत्न, बहुमूल्य पत्थर, मणि

नग़मा = (نغمہ) गीत, राग, तराना, सुरीली आवाज़

नज्म = (نجم) तारा, नक्षत्र

नजिस = (نجس) अपवित्र, गंदा

नजीब = (نجیب) भला मनुष्य, वयोवृद्ध, शरीफ़, सम्मानित

नज़्ज़ारा = (نظارہ) दर्शन, अवलोकन, दृश्य, प्रेमी का प्रेमिका को देखना

नज़दीक = (نزدیک) निकट, समीप, विचार में

नज़्म = (نظم) काव्य, कविता, प्रबंध करना, लड़ी में मोती

नज़्र = (نذر) अर्पित करना, भेंट, मन्नत मानना

नज़र = (نظر) दृष्टि, नेत्र, आँख, देखना

नज़ला = (نزلہ) ज़ुकाम, सर्दी, एक बार ही गिरना

नदारद = (ندارد) किसी वस्तु का न होना, दुर्लभ होना, लुप्त हो जाना, अनुपस्थित

नंग = (ننگ) लज्जा, शर्म, लाज, बदनामी, अपमान

नंगा = (ننگا) निर्वस्त्र, नग्न, अस्ल रूप सामने आना

नदीदा = (ندیدہ) ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के भोजन को भूखी नज़रों से घूर कर देखे

नफ़आ = (نفع) लाभ, फ़ायदा

नफ़ासत = (نفاست) स्वच्छता, पवित्र, सफ़ाई

नफ़ी = (نفی) नकारना, निषेध, इंकार, नकरात्मक

नफ़ीस = (نفیس) निर्मल, साफ़ सुथरा, उम्दा, बहुमूल्य

नफ़्त = (نفت) पेट्रोल, मिट्टी का तेल, केरोसीन

नफ़रत = (نفرت) घृणा, घिन

नफ़री = (نفری) एक दिन का पारिश्रमिक, मज़दूरी

नफ़स = (نفس) श्वास, सांस लेना, दम खींचना

नफ़्स = (نفس) आत्म, स्व, आत्मा,प्राण, व्यक्तित्व

नबातात = (نباتات) घास फूस, पेड़ पौधे, सब्ज़ी तरकारी (नबात एक वचन है)

नबी = (نبی) ईश्वर का दूत, संदेश वाहक

नबीरा = (نبیرہ) पोता, नवासा, नाती

नब्बाज़ = (نبّاض) नाड़ी देख कर उपचार करने वाले वैध या हकीम

नबर्द = (نبرد) युद्ध, लड़ाई, रण

नबर्द आज़मा = (نبرد آزما) लड़ाई करना, युद्ध का कौशल दिखाना

नबर्दगाह = (نبردگاہ) रण भूमि, युद्ध स्थल, जंग का मैदान

नब्ज़ = (نبض) नाड़ी

नस्र = (نثر) गद्य

नहस = (نحس) अशुभ, मनहूस, बुरा शगुन

नहीफ़ = (نحیف) दुर्बल, निर्बल, लाग़र, कमज़ोर, दुबला-पतला

नम = (نم) तरी, गीला, भीगा हुआ

नमाज़ = (نماز) मुसलमानों की इबादत, सेवा, पूजा अर्चना

नमूद = (نمود) दिखावा, केवल नाम पाने के लिए की जाने वाली क्रिया

नमूदार = (نمودار) उदय, प्रकट, सामने आना

नमूना = (نمونہ) जो वस्तु दिखाने के लिए रखी जाए, प्रतिरूप

नमक हराम = (نمک حرام) जो किसी का एहसान न माने

नमक हलाल = (نمک حلال) वफ़ादार, अपने स्वामी का हितैषी

नमश = (نمش) मलाई मख्खन, दूध का मीठा झाग जो सर्दी के दिनों में बिकता है

नर्गिस = (نرگس)सफ़ेद रंग के फूल का नाम, जो लड़कियों की आँखों जैसा लगता है

नर्म = (نرم) मुलायम, पिलपिला, लोचदार, ढीला

नवाज़िश = (نوازش) कृपा, मेहरबानी, दया

नवासा = (نواسہ) नाती, बेटी का पुत्र

नविश्त = (نوِشت) लिखाई, लेख, रचना

नवीसी = (نویسی) लिखने का काम

नवरदी = (نوردی) यात्रा करना, घूमना, रास्ता तय करना

नवाब = (نواب) रईस, पदाधिकारी, राजपाल, उपाधिकारी, धनवान, शासकों का वंशज

नवाह = (نواح) आसपास, उपनगरीय क्षेत्र, निकटवर्ती

नशा = (نشا) जन्म देना, नयी उत्पत्ति करना

नशिस्त = (نشست) बैठना, बैठक, सभा, कुर्सी

नशेब = (نشیب) निचला तल, गड्ढा, निचान

नशेमन = (نشیمن) घोंसला, निवास स्थल, आवास, आराम की जगह

नशतर = (نشتر) घाव पर चीरा लगाने वाला औज़ार (निश्तर)

नश्र = (نشر) प्रचार, प्रसार, प्रकाशन

नश्शा = (نشہ) मादकता, शराब व अन्य मादक पदार्थों के सेवन के बाद की स्थिति

नशव-ओ-नुमा = (نشو نما) विकसित होना, फूलना फलना, परवरिश पाना

नसारा = (نصاریٰ) ईसाई

नस्क़ = (نسق) प्रबंध, संचालन, क्रमबद्ध

नस्ख़ = (نسخ) अरबी सुलेख का नाम

नस्तालीक़ = (نستعلیق) फ़ारसी का नया सुलेख, जिसमें अब उर्दू भी लिखी जाती है

नसीब = (نصیب) भाग्य, क़िस्मत

नसब = (نسب) वंश, पुरखे, वंशावली, नस्ल, पिता की ओर से पारिवारिक सिलसिला

नसीम = (نسیم) सुबह की ठंडी-ठंडी पवन, सवेरे की भीनी-भीनी हवा

नसरीन = (نسرین) एक जंगली फूल

नस्ल = (نسل) वंश, कुटुम्ब, बाल बच्चे, सन्तान, क़बीला

नहाना = (نہانا) स्नान करना

नहार = (نہار) प्रातः काल, दिन, दिवस

नहारी = (نہاری) सवेरे खाया जाने वाला व्यंजन, एक स्वादिष्ट करी जो रात भर पकती है

नहज = (نہج) खुला और प्रकाशमय मार्ग, तौर, ढंग

नहर = (نہر) नदी काट कर निकाली गई धारा, सिंचाई हेतु खोदी गई चौड़ी नाली

नहीं = (نہیں) नकारना, मना करना, सहमत न होना

नहंग = (نہنگ) मगरमच्छ, घड़ियाल, सिखों का एक वर्ग

नया = (نیا) नव, ताज़ा, अनोखा, अनजान

नअश = (نعش) शव, लाश, मृत शरीर, मुर्दा इंसान

नय्यिर = (نیّر) बहुत चमकता हुआ सितारा

नाएब = (نائب) डिप्टी, उपायुक्त, उपसभापति, उत्तराधिकारी

नाक = (ناک) भरा हुआ, सांस लेने वाला अंग, सम्मान का प्रतीक

नाकारा = (ناکارہ) व्यर्थ, बेकार, ख़राब, काम न करने वाला

नाकाम = (ناکام) विफल, मायूस, हताश, परीक्षा में फ़ेल होना

नाक़ा = (ناقہ) मादा ऊंट, ऊंटनी

नाक़िस = (ناقص) घटिया, त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण, घटिया

नाक़िल = (ناقل) नक़्ल करने

वाला, किसी के कथन को बयान करने वाला

नाक़ूस = (ناقوس) शंख

नाख़ुदा = (ناخدا) मल्लाह, नाविक, नाव का खेवनहार

नागाह = (ناگاہ) अचानक, यकायक

नाग़ा = (ناغہ) अनुपस्थित होना , छुट्टी कर लेना

नाच = (ناچ) नृत्य

नाजी = (ناجی) मर कर मुक्ति पाने वाला, मोक्ष प्राप्त करने वाला

नाज़ = (ناز) गर्व, नख़रा, चटक मटक

नाज़िम = (ناظم) प्रबन्धक

नाज़िर = (ناظر) नज़र रखने वाला, देखने वाला, निगेहबान,

नाज़िल = (نازل) उतरने वाला, नीचे आने वाला, गिरने वाला, पधारने वाला

नाज़नीं = (نازنیں) मोहनी अदाओं वाली, दिल को लुभाने वाली, सुंदर, अलबेली, छबेली

नाजुक = (نازک) कोमल, कामनी, कमज़ोर, दुर्बल

नाज़ां = (نازاں) नाज़ करने वाला, इतराने वाला, ख़ुद को गौरवान्वित समझने वाला

नात = (نعت) हज़रत मोहम्मद की प्रशंसा में गाया जाने वाला काव्य

नाता = (ناتا) रिश्ता, सम्बन्ध, भाई बंदी

नातिक़ = (ناطق) बोलने वाला, बुद्धिमान, अटल, अंतिम

नादानी = (نادانی) बेवकूफ़ी, ना समझी, अज्ञानता

नादिर = (نادر) अमूल्य, कम उपलब्ध, अनोखा, निराला

नादिम = (نادم) लज्जित, शर्मिन्दा, किये पर पछताना

नापना = (ناپنا) माप लेना

नाफ़ = (ناف) नाभि

नाफ़िज़ = (نافذ) लागू, अधिनियमित

नाफ़े = (نافع) लाभप्रद, फायदा देने वाला

नारा = (نعرہ) ज़ोर की आवाज़, जयकारा, सामूहिक रूप से कोई वाक्य दोहराना, नाद

नार = (نار) आग, अग्नि, आंच

नारी = (ناری) नर्क में जाने वाला

नाल = (نعل) घोड़े के खुर पर चढ़ाया जाने वाला लोहा

नाल = (نال) बंदूक़ की नली, नवजात शिशु की नाभि

नाला = (نالہ) रोना धोना, फ़रियाद करना

नाला = (نالہ) गंदगी को बहा कर समुंद्र या नदी में मिलाने वाला स्रोत

नालिश = (نالش) शिकायत, मुक़द्दमा दायर करना, अदालत में दावा करना

नालैन = (نعلین) चप्पल, जूता, खड़ाव(नाल का बहु वचन)

नालाँ = (نالاں) त्रस्त, नाराज़, तंग

नाशिर = (ناشر) प्रकाशक, ब्राडकास्टर

नाश्ता = (ناشتہ) प्रातः काल का भोजन, अल्पाहार

नास = (ناس) मनुष्य, मानस, आदमी, तबाही, बर्बादी, विनाश

नासिर = (ناصر) सहयोगी, मदद करने वाला

नासूर = (ناسور) कभी ना भरने वाला घाव

नासेह = (ناصح) प्रवचन या उपदेश देने वाला, अच्छी बातें समझाने वाला

नाम = (نام) किसी व्यक्ति/वस्तु का परिचय या पुकारने का शब्द

नामा = (نامہ) पत्र, चिट्ठी, पोथी, पुस्तक, शास्त्र, उधार का हिसाब, नग़दी

नामूस = (ناموس) लाज, लज्जा, सम्मान, इज़्ज़त

नान = (نان) रोटी, चपाती, फुल्का

नायाब = (نایاب) अमूल्य, दुर्लभ, अनुपलब्ध

नावक = (ناوک) तीर, बाण

नाहीद = (ناہید) शुक्र

निकाह = (نکاح) विवाह, शादी, गठ बंधन

निकालना = (نکالنا) बाहर करना, अलग करना, खोज लाना, पदमुक्त, अपदस्थ, बर्ख़ास्त

निकम्मा = (نکمّا) बेकार व्यक्ति, नाकारा ,बेरोज़गार, जिसके पास कोई काम न हो

निखार = (نکھار) उजला पन, सफ़ाई, श्रृंगार से सौन्दर्य का बढ़ना,

निकहत = (نکہت) सुगंध, ख़ुशबू , महक

निगार = (نگار) छवि, चित्र, मन मोहक, महबूब

निगारिश = (نگارش) आलेख, रचना, लिखना

निगरानी = (نگرانی) देख भाल, नज़र रखना, हिरासत,चौकसी, पहरेदारी

निगाह = (نگاہ) दृष्टि, चितवन, नेत्र ज्योति, देखना

निगूं = (نگوں) झुकना, नीचे

करना, समाप्त

निगेहबां = (نگہباں) चौकीदार, प्रहरी, नज़र रखने वाला

निगोड़ा = (نگوڑا) अभागा, निकम्मा, नाकारा,दुष्ट

निजात = (نجات) मुक्ति, मोक्ष, रिहाई, छुटकारा

निज़ाअ = (نزاع) विवाद, झगड़ा, बैर, दुश्मनी, टंटा

निज़ाद = (نژاد) मूल, वंश, नस्ल, ज़ात

निज़ाम = (نظام) प्रबंधन, मोती की लड़ी, सिलसिला

निज़ामत = (نظامت) सभा का परिचालन, उद्घोषणा

निचोड़ = (نچوڑ) सार, ख़ुलासा

निछावर = (نچھاور) जान देना, पैसा उतारना, बरसाना, वारी होना, बलिदान

निढाल = (نڈھال) थका हुआ, सुस्त , कमज़ोरी का शिकार

निफ़ाक़ = (نفاق) दोग़ला पन, कपट, फूट, बिगाड़, शत्रुता

निफ़ाज़ = (نفاذ) लागू करना, क्रियान्वयन, निष्पादन

निसार = (نثار) निछावर करना, किसी के लिए जान देना

निदा = (ندا) आवाज़, ध्वनि, पुकार, बांग

निदामत = (ندامت) पश्चाताप, पछतावा, शर्मिन्दिगी

निबाह = (نباہ) बसर करना, साथ रहना, गुज़ारा

निम्टाना = (نمٹانا) काम पूरा करना, चुकाना, भुगतान, फ़ुर्सत पाना (निबटाना, निपटाना)

निराला = (نرالا) अनूठा, अनोखा, सब से अलग, अजीब

निर्ख़ = (نرخ) दर, भाव, मूल्य

निशात = (نشاط) उल्लास, ख़ुशी, प्रसन्नता, हर्ष

निशान = (نشان) चिन्ह, ठप्पा, पहचान, खरोंच, ध्वज

निशानी = (نشانی) स्मृति चिन्ह, किसी की याद दिलाने वाली वस्तु, यादगार

निस्फ़ = (نصف) आधा

निस्याँ = (نسیاں) भूल, चूक, ध्यान में ना रहना

निहाल = (نہال) ताज़ा लगाया पौधा, प्रसन्न चित्त, सफल, बेफ़िक्र

निहायत = (نہایت) बहुत, हद, अति, अंजाम, बहुतअधिक

निहां = (نہاں) छुपा हुआ, ओझल

नियाज़ = (نیاز) तमन्ना, मनोकामना, प्रसाद, चढ़ावा, भेंट, मुलाक़ात, जान पहचान

नियाबत = (نیابت)प्रतिनिधित्व, मुनीमी, एजेंटी

नियाम = (نیام) तलवार का कवर, मियान

नीचा = (نیچا) कम, मध्म, छोटा, पिछड़ा

नींद = (نیند) निद्रा, सो जाना

नीम = (نیم) आधा, औषधि में प्रयोग होने वाला पेड़

नीलाम = (نیلام) बोली बोल कर बेचना

नीलोफ़र = (نیلوفر) नील कमल

नीव = (نیو) आधारशिला, दीवार की बुनियाद (नेव)

नीस्त = (نیست) ख़ाली, मिट जाना, ना रहना

नीयत = (نیت)इरादा, योजना, नमाज़ शुरू करना

नुक्ता = (نکتہ) नयी बात ढूँढना, ऐब निकालना, भेद, जिसे हर कोई न समझ सके

नुक़सान = (نقصان) हानि, घाटा होना

नुक़ता = (نقطہ) बिंदी, बिंदु, डॉट

नुख़ुवत = (نخوت) घमंड, अभिमान, अपने आप पर गर्व करना

नुजूमी = (نجومی) ज्योतिषी

नुज़ूल = (نزول) उतरना, स्थानीय निकाय की अथवा सरकारी ज़मीन

नुज़हत = (نزہت) आनंदित, प्रसन्नता, ख़ुशहाली

नुत्क़ = (نطق) बोलने की शक्ति, ज़ुबान, बात करने की ताक़त

नुत्फ़ा = (نطفہ) शुक्राणु, पेट में पल रहा शिशु

नुदबा = (ندبہ) रोने की आवाज़, विलाप, कोहराम

नुदरत = (ندرت) अनोखापन, नवीनता, नयापन

नुफ़्क़ा = (نفقہ) बच्चों पर व्यय होने वाला धन, पत्नी का जेब ख़र्च, गुज़ारा भत्ता(नफ़्क़ा)

नुमायाँ = (نمایاں) प्रकट, प्रसिद्ध, नाम वाला, खुला, ध्यान देने योग्य

नुमाइश = (نمائش) प्रदर्शनी, दिखावा

नुमू = (نمو) उत्पत्ति, प्रजनन, विकास

नुशूर = (نشور) मुर्दे का जीवित हो उठना

नुस्ख़ा = (نسخہ) डाक्टर द्वारा

लिखा गया दवाई का पर्चा, बनाने या पकाने की विधि

नुसरत = (نصرت) मदद, सहायता, साथ देना, युद्ध जीतने में सहयोग करना

नूर = (نور) ज्योति, तेज, प्रकाश, उजाला, चमक, धूप, चांदनी, दृष्टि, रौशनी

नूरह = (نورہ) बाल सफ़ा साबुन, अनचाहे बाल हटाने वाला द्रव्य, हेयर रिमूवर

नेक = (نیک) अच्छा, भला, शुभ, अच्छे चरित्र वाला, शरीफ़

नेग = (نیگ) हिस्सा, भेंट, शादी ब्याह में रिश्तेदारों की मिलने वाली शगुन की रक़म

नेफ़ा = (نیفا) पायजामे का वह भाग जिस में नाड़ा डालते हैं

नेमत = (نعمت) उपहार, वरदान, माल दौलत, मज़ेदार व्यंजन, आराम से भरा जीवन

नैज़ा = (نیزہ) भाला, बल्लम

नैचा = (نیچا) बांस की बनी हु क़्क़ेकी नली

नैरंगी = (نیرنگی) जादूगरी, धोखा, चमत्कारी

नैसां = (نیساں) होली और नवरोज़ के आस पास होने वाली बारिश

नोक = (نوک) भाल, डंक, चोंच, दूसरा सिरा

नौ = (نو) नव, नया, नहला, उभरता हु आ

नौअ = (نوع) लिंग, नस्ल, जाति, ढंग

नौआबाद = (نوآباد) नया बसने वाला शहर, मोहल्ला, कालोनी, या घर

नौकर = (نوکر) सेवक, कर्मचारी, कर्मी

नौजवान = (نوجوان) नवयुवक

नौज = (نوج) ख़ुदा ना करे ऐसा हो, दोबारा न हो ख़ुदा करे, ख़ुदा नख़्वास्ता

नौज़ायदा = (نوزائدہ) नवजात

नौचंदी = (نوچندی) नए चाँद का पहला बृहस्पतिवार, हर हिजरी महीने का पहला गुरूवार

नौनिहाल = (نونہال) किशोर, बचपन से जवानी में क़दम रखने वाला युवा

नौबत = (نوبت) किसी चीज़ का समय, बारी, नम्बर आना, दशा, हाल, स्थिति, नक़्क़ारा (नगाड़ा)

नौबहार = (نوبہار) नव वसंत, नयी ऋतु, बहार का नया नया मौसम

नौश = (نوش) भोजन करना,

पानी, शर्बत या शराब पीना, खान पान ग्रहण करना (नोश)

नौशाह = (نوشاہ) नया शासक, वह युवक जिसकी नयी नयी शादी हु ईहो, दूल्हा

नौहा = (نوحہ) दुःख भरा काव्य, विलाप, कर्बला वालों की याद में रचा गया काव्य

प (پ)

पक्का = (پکا) पकाया हु आ भोजन, तैयार फल, मज़बूत, भरोसे लायक़

पकड़ना = (پکڑنا) हाथ में लेना, थामना, गिरफ़्तार करना

पकवान = (پکوان) महंगे व्यंजन, तले हु एखाने, मिठाइयाँ

पड़ाव = (پڑاؤ) ठहरने का स्थान, ठिकाना, छावनी, अस्थाई तौर पर रुकना

पछाड़ना = (پچھاڑنا) चित करना, पटख़ देना

पज़मुर्दगी = (پژمردگی) मुरझाया पन, उदासी,कुम्लाहट

पठान = (پٹھان) अफ़ग़ानिस्तान के मुसलमानों की एक जाति, एक उपाधि

पढ़ाना = (پڑھنا) शिक्षा ग्रहण करना, पाठ करना दुआ फूंकना, बार- बार रटाना

पंखड़ी = (پنکھڑی) फूल की पत्ती, पंखुड़ी

पंजा = (پنجہ) हाथ/पैर की उँगलियाँ, जूते का अगला हिस्सा, गंदगी उठाने वाला लोहा

पनपना = (پنپنا) फूलना फूलना, विकसित होना, रूप आना

पर = (پر) पंख, दूसरा, अन्य, बाद, पीछे, लेकिन

परा = (پرا) पंक्ति, क़तार,टुकड़ी, लाइन

पराया = (پرایا) दूसरे का, अनजान

परकाला = (پرکالا) सीढ़ी, टुकड़ा, चिंगारी, शीशा

परख़ाश = (پرخاش) लड़ाई, झगड़ा, अनबन, दंगा

पर्चा = (پرچہ) काग़ज़ का टुकड़ा, प्रश्न पत्र, चुनाव का नामांकन, समाचार पत्र

पर्दा = (پردہ) ओट, आड़, घूँघट, ओझल होना, मुंह ढांकना, बुर्क़ा ओढ़ना, चिलमन

परदाख़्त = (پرداخت) पालना, परवरिश, सजाना, दुरुस्तगी

परदाज़ = (پرداز) सृजन, उठान,

ढंग, अंदाज़

परस्तिश = (پرستش) पूजा, तपस्या, आदर, सम्मान

परेशान = (پریشان) उलझा हु आ, बिखरा हु आ, चिंतित, किसी कष्ट में घिरा (परीशान)

पशेमानी = (پشیمانی) पछतावा, लज्जित होना, अपने किये पर दुःख व्यक्त करना

पलटना = (پلٹنا) वापस आना, लौटना, उलटना, बात से फिरना

पलंग = (پلنگ) चारपाई, खटोला

पल्ला = (پلّہ) तराज़ू का पलड़ा

पस = (پس) पीछे, इस के बाद, अत:

पसारना = (پسارنا) फैलाना, खोलना, फाड़ना

पस्त = (پست) नीचा, पिछड़ा, घटिया, थका हु आ

पसंद = (پسند) मन भावन, लुभावनी, जो दिल को अच्छा लगे

पहाड़ = (پہاڑ) पर्वत

पहेली = (پہیلی) उलझन, बुझव्वल, बूझ, मुअम्मा

पहुंचना = (پہنچنا) आगमन, यात्रा समाप्त होना

पहनना = (پہننا) वस्त्र से तन ढांकना या ज़ेवर से बदन को सजाना

पहर = (پہر) काल, दिन का चौथा भाग

पहरा = (پہرا) चौकीदारी, सुरक्षा, पुलिस का गश्त

पहल = (پہل) प्रथम, आरम्भ, किसी कार्य की शुरूआत करना

पहले = (پہلے) आरम्भ में, पिछले, आगे

पयाम = (پیام) संदेश

प्यार = (پیار) प्रेम, प्रीत, लाड, दुलार, ममता, मोहब्बत

प्यास = (پیاس) तृष्णा, पानी पीने की तलब

पा = (پا) पैर, ठहरने वाला

पाक = (پاک) पवित्र, निर्मल, सुथरा, बे लाग, बे गुनाह, नेक

पाकीज़ा = (پاکیزہ) पवित्र व्यक्ति या स्थान, सुंदर, त्रुटि रहित

पाख़ाना = (پاخانہ) शौचालय, टट्टी, संडास

पागल = (پاگل) मानसिक रूप से बीमार, दीवाना

पाजामा = (پاجاما) कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र

पाजी =(پاجی) बदतमीज़, कमीना, ज़लील

पाज़ेब = (پازیب) पैर में पहना जाने वाला ज़ेवर, पैर की शोभा

पाट = (پاٹ) चौड़ाई, चक्की या धोबी का पत्थर, ऊँचा आलाप

पादाश = (پاداش) परिणाम, सज़ा, बदला, क्षति-पूर्ति

पानी = (پانی) जल, नीर

पाँव = (پاں) चरण, पैर, टांग

पापोश = (پاپوش) जूता, चप्पल

पामाल = (پامال) पैरों से कुचला हुआ, रौंदा हुआ, बरबाद, मुसीबत

पामर्दी = (پامردی) क़दम जमाये रहना, हिम्मत

पार = (پار) पिछला, गुज़ारा हुआ, नदी का दूसरा छोर, दूसरी तरफ़

पारचा = (پارچہ) कपड़ा, वस्त्र, टुकड़ा

पारस = (پارس) वह पत्थर जो लोहे को सोना बना देता है, ईरान का पुराना नाम

पारसा = (پارسا) पाप से दूर रहने वाला, पवित्र मानसिकता वाला व्यक्ति

पालान = (پالان) ऊँट की काठी

पालना = (پالنا) परवरिश, शिशु का लालन पालन, बच्चों का झूला या हिंडोला

पास = (پاس) निकट, क़रीब, निगेहबानी, लिहाज़, छूट देना

पासंग = (پاسنگ) तराज़ू के दूसरे पलड़े में वज़न बराबरी के लिए बाँधा जाने वाला भार

पायल = (پائل) महिलाओं के पैरों का एक छनकने वाला ज़ेवर

पाव = (پاؤ) चौथाई भाग, 250 ग्राम, ब्रेड या बन

पिस्तान = (پستان)महिला की छाती, स्तन

पिसर = (پسر) पुत्र, बेटा

पिसना = (پسنا)अनाज का आटा हो जाना, चूर-चूर होना, दो लोगों के झगड़े में नुक़सान उठाना

पिंजरा = (پنجرا) पक्षी पालने के लिए तीलियों से बनाया जाने वाला घर

पियादा = (پیادہ) पैदल चलने वाला, शतरंज का मोहरा

पियाला = (پیالہ) कटोरा

पीटना = (پیٹنا) चोट लगाना, सज़ा देना, शारीरिक यातना पहुंचाना

पीर = (پیر) बूढ़ा, वृद्ध, अध्यात्मिक गुरु, सोमवार

पुर = (پر) भरा हुआ

पुराना = (پرانا) प्राचीन, पिछले युग का

पुर्सिश = (پرسش) पूछ गछ,

मालूम करना, जांच करना

पुर्ज़ा = (پرزہ) टुकड़ा, काग़ज़ की पर्ची, कल, मशीन का कोई हिस्सा

पुरसा = (پرسہ) मृत्यु पर सांत्वना देना, शोक व्यक्त करना

पुरसाँ = (پرساں) पूछने वाला, फ़रियाद सुनने वाला

पुल = (پل) सेतु

पुश्त = (پشت) पीछे, पीठ, पीढ़ी, सहारा, सहयोग

पुश्ता = (پشتہ) मेंढ़, नदी की बाढ़ से नगर को बचाने के लिए बनाया गया तट बंध

पूछना = (پوچھنا) प्रश्न करना, ज्ञात करना, छान बीन करना

पूर = (پور) मोहल्ला, बस्ती, टोला के आगे लगने वाला शब्द (पुर)

पूरा = (پورا) पूर्ण, सब का सब

पूरी = (پوری) तली हुई रोटी, पूड़ी, समस्त, कुल

पेड़ = (پیڑ) वृक्ष, दरख़्त

पेच = (پیچ) बल पड़ना, कसी जाने वाली कील, पतंग लड़ाना, मरोड़

पेचीदा = (پیچیدہ) उलझा हुआ, कठिन, मुश्किल से समझ में आने वाली बात

पेट = (پیٹ) गर्भ, कोख

पेश = (پیش) आगे, सामने, उर्दू में उ की आवाज़ के लिए प्रयोग होने वाला स्वर वर्ण

पेशाब = (پیشاب) मूत्र

पेशानी = (پیشانی) माथा

पेशिनगोई = (پیشینگوئی) भविष्य वाणी

पेशकार = (پیشکار) अदालत का एक अधिकारी

पेशकश = (پیشکش) प्रस्ताव, भेंट, प्रस्तुति

पेशगी = (پیشگی) अग्रिम, बयाना

पेश्तर = (پیشتر) सब से पहले, पूर्वता

पेशवा = (پیشوا) नेता, अगवा, मराठों का शासक

पेवस्ता = (پیوستہ) मिला हुआ, जुड़ा हुआ, संलग्न

पेवन्द = (پیوند) चेपी, प्रत्यारोपण, फटे वस्त्र पर लगा अन्य कपड़े का टुकड़ा

पैकार = (پیکار) युद्ध, जंग, फुटकर व्यापारी , फेरी लगा कर सामान बेचने वाला, हाकर

पैग़ाम = (پیغام) संदेश, किसी के घर रिश्ता भेजना, ख़बर, मैसेज

पैग़म्बर = (پیغمبر) संदेश वाहक, अवतार, दूत, प्रतिनिधि

पैज़ार = (پیزار) जूते, चप्पल

पैतरा = (پیترا) करतब, पहलवानों का दांव

पैदा = (پیدا) उत्पन्न, जन्म, कमाई, उपज

पैमान = (پیمان) वचन, प्रतिज्ञा, क़सम, अपनी प्रतिबद्धता, वादा

पैमाना = (پیمانہ) मापक, नाप, स्तर, वह पियाला जिससे शराब नाप कर दी जाती है

पैराक = (پیراک) तैराक

पैराहन = (پیراہن) वस्त्र, चोला, लिबास

पोशाक = (پوشاک) वस्त्र, कपड़े

पोशीदा = (پوشیدہ) छुपा हुआ, गुप्त, अदृश्य

फ (پھ)

फड़ = (پھڑ) जुए का अड्डा, सड़क के किनारे लगी अस्थाई दुकानें

फड़फड़ाना = (پھڑپھڑانا) तड़पना, बेचैन होना, पक्षियों का परों को फड़फड़ाना

फरैरा = (پھریرا) अध् सूखा, आधे उबले चावल, झंडे की छड़ पर लिपटा कपड़ा

फाड़ना = (پھاڑنا) चीर देना, टुकड़े टुकड़े करना

फांक = (پھانک) किसी फल का कटा हुआ टुकड़ा, संतरे या नारंगी के अंदर का अंश

फांदना = (پھاندنا) कूदना, उछलना, छलांग मारना, फलांगना

फाँस = (پھانس) लकड़ी का रेशा बांस का काँटा

फांसी = (پھانسی) फंदा, रस्सी का घेरा, मृत्यु दण्ड

फाँसना = (پھانسنا) फंदे में फंसा लेना, पकड़ लेना, घेरना

फिटकार = (پھٹکار) धिक्कार, धुत्कार, लानत

फिर = (پھر) दोबारा, एक बार और

फिरना = (پھرنا) घूमना, लौट आना, चक्कर खाना, वापस आना

फिसड्डी = (پھسڈّی) सदा पीछे रह जाने वाला, पिछड़ने वाला

फिसलना = (پھسلنا) रपटना, लुढ़कना, बहकना, चूकना

फीका = (پھیکا) बिना नमक का, बिना स्वाद, कम मीठा, चीनी रहित

फुर्ती = (پھرتی) चुस्ती, चालाकी, तेज़ी

फुलवारी = (پھلواری) छोटा सा फूलों का बाग़

फूट = (پھوٹ) मतभेद, बिखराव, बिगाड़, एकता खंडित होना, एक फीका सा फल

फूटना = (پھوٹنا) खिलना, निकलना, टूटना

फूँक = (پھونک) मुंह से निकाली जाने वाली हवा

फूल = (پھول) पुष्प, गुल

फूलना = (پھولنا) सूजन आना, मोटा होना, हवा भर जाना

फेर = (پھیر) चक्कर, घुमाव, मोड़, झमेला, मुश्किल, वापस

फेरी = (پھیری) गश्त करना, घर घर जा कर सामान बेचना

फेंकना = (پھینکنا) गिराना, डालना, लुढ़काना, व्यर्थ चीज़ें बाहर करना, उछालना

फैलाना = (پھیلانا) पसारना, बिछाना, बढ़ाना, बिखेरना

फ़ (ف)

फ़क़ = (فق) चेहरे का रंग उड़ जाना, हैरान रह जाना, मुंह का रंग पीला पड़ जाना

फ़क़्र = (فقر) ग़रीबी, निर्धनता, आर्थिक तंगी

फ़क़त = (فقط) केवल, मात्र, अकेला, सिर्फ़, बस, समापन

फ़क़ीर = (فقیر) भिखारी, मंगता, निर्धन, क़लन्दर, सूफ़ी पीर

फ़क़ीह = (فقیہ) इस्लामी क़ानून का जानने वाला, शरीयत का जानकार

फ़ख़्र = (فخر) गर्व, अभिमान, सम्मानित महसूस करना

फ़ज्र = (فجر) सूर्योदय से पहले का समय, सुबह की नमाज़ का नाम

फ़ज़्ल = (فضل) अनुग्रह, ज़्यादती, दया, कृपा, इनाम

फ़ज़ायल = (فضائل) अच्छाइयां, नेकियाँ

फ़ज़ीलत = (فضیلت) बड़ाई, उत्कृष्टता, ज्ञान, नेकी, कमाल

फ़त्ह = (فتح) विजय, जीत, सफलता, सिखों में गुरुओं के लिए सम्मान का प्रतीक

फ़न = (فن) कला, शिल्प, गुण, कारीगरी, करतब

फ़ना = (فنا) मरना, ख़त्म हो जाना, बरबादी, मिटना

फ़राख़ = (فراخ) उदार, खुला हुआ, चौड़ा, विस्तृत

फ़राग़त = (فراغت) फ़ुर्सत पाना, छुटकारा मिलना, शौच करना

फ़र्राटा = (فرّاٹا) बहुत तेज़ी से भागना, तेज़-तेज़ पढ़ना, झंडे का तेज़ हवा में उड़ना

फ़रामोश = (فراموش) भूला हुआ, याद से उतरा हुआ

फ़रावानी = (فراوانی) बहुतायत, अतिप्रवाह, अधिक

फ़राहम = (فراہم) उपलब्ध करवाना, इकट्ठा करना

फ़रिश्ता = (فرشتہ) स्वर्ग का दूत, ईश्वर का अदृश्य सन्देश वाहक

फ़रीक़ = (فریق) पक्ष, प्रतिद्वन्द्वी, पार्टी

फ़रीज़ा = (فریضہ) अनिवार्य, कर्तव्य, दायित्व

फ़रीद = (فرید) सब से अलग, बेमिसाल

फ़रसूदा = (فرسودہ) पुराना, प्राचीन, चलन से बाहर, घिसा हुआ, गया गुज़रा, थका हुआ

फ़रेब = (فریب) धोखा, छल, झांसा

फ़रेफ़्ता = (فریفتہ) मोहित होना, किसी का दीवाना होना, मोह में फँसना

फ़रो = (فرو) कम होना. ग़ायब होना, हल्का पड़ना

फ़रोख़्त = (فروخت) बिक्री, विक्रय, बेचना

फ़रोग़ = (فروغ) बढ़ावा, प्रचार, प्रसार

फ़रोश = (فروش) बेचने वाला, व्यापारी, विक्रेता

फ़र्क़ = (فرق) अंतर, दूरी, कसर, सिर

फ़र्ज़ = (فرض) कर्तव्य, दायित्व, ख़ुदा की तरफ़ से अनिवार्य की गई इबादत

फ़रज़ाना = (فرزانہ) बुद्धिमान, विद्वान, चतुर, ज्ञानी, गुणी

फ़रज़न्द = (فرزند) पुत्र, बेटा, पूत

फ़र्द = (فرد) व्यक्ति, एक, किसी हुनर में माहिर, हिसाब किताब का रजिस्टर

फ़रमान = (فرمان) हुक्म, राजकीय आदेश, आज्ञा

फ़रमाना = (فرمانا) कहना, बोलना आदेश देना, भाषण देना

फ़रमाइश = (فرمائش) किसी वस्तु की मांग करना, अपने लिए कोई भेंट माँगना

फ़र्श = (فرش) बिछोना, दरी, चटाई, धरती, ज़मीन

फ़रस = (فرس) घोड़ा, अश्व

फ़रस्तादा = (فرستادہ) भेजा हुआ, प्रेषित, दूत, पैग़म्बर

फ़रह = (فرح) प्रसन्नता, ख़ुशी

फ़रहत = (فرحت) ताज़गी, ख़ुशी, सुकून

फ़रहाद = (فرہاد) पत्थर तोड़ने वाला, ईरान की एक प्रेम कथा का नायक

फ़रयाद = (فریاد) दोहाई, शिकायत करना, मदद मांगना, इंसाफ़ माँगना, दुखड़ा रोना

फ़लाह = (فلاح) कल्याण, भलाई, नेकी

फ़लक = (فلک) आकाश, गगन, आसमान

फ़लसफ़ा = (فلسفہ) दर्शनशास्त्र

फ़स्ल = (فصل) मौसम, ऋतु, पुस्तक का एक भाग, जुदाई, पैदावार

फ़साद = (فساد) दंगा, बलवा, हंगामा, लड़ाई

फ़साहत = (فصاحت) वाकपटुता, स्पष्टता, भाषा पर नियन्त्रण

फ़सील = (فصیل) दीवार, प्राचीर, चार दीवारी, चहार दीवारी

फ़स्ख़ = (فسخ) तोड़ना, रद्द करना

फ़हद = (فہد) तेंदवा

फ़हम = (فہم) समझ, बोध, बुद्धि

फ़हमाइश = (فہمائش) निर्देश, सलाह, समझाना, आगाह करना

फ़य्याज़ = (فیاض) उदार, दयालु, दरिया दिल

फ़व्वारा = (فوّارہ) फुहार, पिचकारी, पानी को ऊपर फेंकने वाला, फ़ाउंटेन

फ़ाक़ा = (فاقہ) निराहार, उपवास, भोजन न करना

फ़ाएल = (فاعل) कोई काम को अंजाम देने वाला, कुकृत्य करने वाला

फ़ाएदा = (فائدہ) लाभ

फ़ाएज़ = (فائز) किसी पद पर नियुक्त होने वाला, विजयी होने वाला

फ़ाजिर = (فاجر) बलात्कारी, बदचलन, संकीर्ण, पापी

फ़ाज़िल = (فاضل) अतिरिक्त, ज़्यादा, अधिक, मदरसों की उपाधि, बहु तशिक्षित

फ़ातिमा = (فاطمہ) पैग़म्बर साहिब की पुत्री का नाम

फ़ातिहा = (فاتحہ) शुभारम्भ, कुरआन का प्रथम सूरह, मृतकों की याद में आयोजन

फ़ातेह = (فاتح) विजयी, जीतने वाला, विजेता

फ़ानी = (فانی) नश्वर, मिटने वाला

फ़ानूस = (فانوس) झूमर, झाड़ जो घर में सजावटी रौशनी के लिए प्रयोग होता है

फ़ारसी = (فارسی) ईरान की भाषा

फ़ारिग़ = (فارغ) काम पूरा होना, काम निमट जाना, छुटकारा, फ़ुर्सत पाना, ख़ाली होना

फ़ारूक़ = (فاروق) फ़र्क़ करने वाला, सच और झूठ को अलग करने वाला

फ़ाल = (فال) ज्योतिष, भविष्य बताना, अच्छे बुरे शगुन बताना

फ़ालिज = (فالج) पक्षाघात, स्ट्रोक

फ़ाश = (فاش) खुलना, प्रकट, सामने आना

फ़ासिद = (فاسد) दुष्ट, बदमाश, दंगाई, बिगड़ा हुआ, ख़राब

फ़ासिक़ = (فاسق) झूठा, दुराचारी, ईश्वर की बात न मानने वाला

फ़ासला = (فاصلہ) दूरी (फ़ासिला)

फ़ाहिशा = (فاحشہ) चरित्र हीन महिला, वेश्या, देह व्यापार करने वाली

फ़िक्र = (فکر) चिंता, चिन्तन, सोच, ध्यान, ढूँढना, परवाह करना

फ़िक़ा = (فقہ) इस्लामी क़ानून, शरीयत, जानकारी, ज्ञान

फ़िक़रा = (فقرہ) वाक्यांश, जुमला, व्यंग्य कसना

फ़िगार = (فگار) घायल, ज़ख़्मी

फ़िगन = (فگن) छाया हुआ, फैला हुआ

फ़िजूर = (فجور) बलात्कार, दुराचार, अय्याशी

फ़िज़ा = (فضا) हवा, वातावरण, माहौल

फ़िज़्ज़ा = (فضّہ) चांदी

फ़ितना = (فتنہ) दंगा, बलवा, बेढब, समाज में अशांति फैलना, क्लेश

फ़ित्र = (فطر) रोज़ा खोलना, इफ़्तार, उपवास का अंत

फ़ितरत = (فطرت) प्रकृति, स्वभाव

फ़िदा = (فدا) निछावर, किसी परजान लुटा देना, प्राणों की आहुति देना

फ़िदया = (فدیہ) दंड राशी, जुर्माना, दैत, हत्या के बदले में दिया जाने वाला धन

फ़िन्जान = (فنجان) छोटी सी चाय की पियाली

फ़िराक़ = (فراق) जुदाई, वियोग, बिछड़ना, जुगत

फ़िरऔन = (فرعون) घड़ियाल, मगरमच्छ, मिस्र के अत्याचारी शासकों का वंश

फ़िरनी = (فرنی) ख़ीर

फ़िरदौस = (فردوس) स्वर्ग, बैकुंठ, गुलशन

फ़िस्क़ = (فسق) दुराचार, दुष्कर्म,

पाप, अपराध

फ़ितीन = (فطین) चालाक, होशियार, चतुर

फ़िस्ताई = (فسطائی) फासीवादी

फ़ी = (فی) बीच में, भीतर, हर एक

फ़ील = (فیل) हाथी

फ़ीरोज़ = (فیروز) सफल, विजयी

फ़ुक़दान = (فقدان) अभाव, कमी, उपलब्ध न होना, भूल

फ़ुग़ाँ = (فغاں) रोना,फ़रियाद करना, आंसू बहाना

फ़ुज़ूल = (فضول) बेकार, व्यर्थ, निकम्मा, फ़ालतू, आवश्यकता से अधिक

फ़ुज़ला = (فضلا) फ़ाज़िल (बहुत शिक्षित) का बहुवचन

फ़ुज़ला = (فضلہ) शौच, बचा खुचा, गंदगी

फ़ुतूर = (فطور) मनोभ्रंश, सुस्ती, ख़राबी, रुकावट खड़ी करना

फ़ुरक़ान = (فرقان) सत्य-असत्य का फ़र्क़ बताने वाला, क़ुरआन शरीफ़ का अन्य नाम

फ़ुर्सत = (فرصت) काम-काज से छुटकारा, अवकाश, ख़ाली समय

फ़ुलाँ = (فلاں) अज्ञात व्यक्ति, उक्त आदमी, इमका-ढिमका

फ़ुसूँ = (فسوں) जादू, धोखा, फ़रेब

फ़ेएल = (فعل) कार्य, क्रिया, काम, कार्यात्मक, निष्पादन

फ़ेहरिस्त = (فہرست) सूची, विवरण, लिस्ट

फ़ैज़ = (فیض) लाभ, फ़ायदा, उदारता, दरिया दिली

फ़ैसल = (فیصل) निर्णीत, निस्तारित

फ़ैसला = (فیصلہ) निर्णय, परख, निपटारा, परिणाम

फ़ोह्श = (فحش) अश्लील

फ़ौक़ियत = (فوقیت) प्राथमिकता, वरीयता, तरजीह देना

फ़ौज = (فوج) सेना, आर्मी

फ़ौत = (فوت) निधन, मरना

फ़ौरन = (فوراً) बिना देरी किये, इसी समय, झट-पट

फ़ौलाद = (فولاد) इस्पात, स्टील, मज़बूत

ब (ب)

बकैत = (بکیت) बक-बक करने वाला, बातों के ज़रिये रोब झाड़ने वाला

बकतर = (بکتر) युद्ध में पहना जाने वाला सुरक्षा कवच

बकतरबन्द = (بکتربند) कवचधारी, सैनिकों को सुरक्षित रखने वाले अस्त्र, आरमर्ड

बकवास = (بکواس) बक-बक, झिक-झिक, बे मतलब की बात

बक़ा = (بقا) अस्तित्व, जीवित रहना

बक़िया = (بقیہ) शेष, बचा हुआ, बचा-खुचा

बक़ौल = (بقول) कथानुसार, कहते हैं, कहे के अनुसार

बक़्क़ाल = (بقال) बनिया, परचून की दुकान चलाने वाला

बक़र = (بقر) गाय

बखेड़ा = (بکھیڑا) झगड़ा, झंझट, उलझाव, दंगा

बख़्त = (بخت) भाग्य, नसीब, क़िस्मत

बख़िया = (بخیہ) सीवन, दोहरा टांका, जमा पूंजी

बख़्शिश = (بخشش) दान, इनाम, टिप, मरने के बाद मुक्ति मिलना

बख़ील = (بخیل) कंजूस, कंटक, छोटे दिल वाला

बख़्शी = (بخشی) फ़ौजियों का वेतन बांटने वाला

बग़ल = (بغل) काँधे के नीचे का हिस्सा, निकट स्थान, पड़ोसी

बचाना = (بچا) रक्षा करना, जीवन दान देना, सहायता करना

बच्चा = (بچّہ) शिशु, बालक, सन्तान

बजाय = (بجائے) किसी की जगह पर, किसी के बदले

बजरा = (بجرہ) सजी हुई नाव

बज़ाज़ = (بزاز) कपड़े बेचने वाला

बज़ोर = (بزور) बल पूर्वक, ज़बरदस्ती, हेकड़ी

बज़्म = (بزم) सभा, गोष्ठी, संगठन, समाज, महफ़िल

बज़्ला = (بذلہ) चुटकुला, हंसी मज़ाक़ , व्यंग्यात्मक जुमला

बटवा = (بٹوا) छोटा बैग या थैली जिसमें पैसे व अन्य छोटी छोटी चीज़ें रखी जाती हैं

बटवारा = (بٹوارہ) विभाजन

बड़ा = (بڑا) विशाल, उच्च, लम्बा चौड़ा

बताना = (بتانا) समझाना, सूचित करना

बत्ती = (بتّی) शमा का धागा, बटी हुई रूई जो दिए में रखी जाती है

बत्तीसी = (بتّیسی) इंसानों के ऊपर नीचे के दांत

बत्न = (بطن) गर्भ, पेट

बद = (بد) बुरा, ख़राब, निकम्मा,

त्रुटि पूर्ण

बदौलत = (بدولت) किसी की वजह से, किसी के कारण, सम्मान सहित

बदन = (بدن) शरीर, काया, जिस्म, पिंडा

बदना = (بدنا) शर्त लगाना, जुआ खेलना, हाथ पर हाथ मर कर वचन देना

बदला = (بدلا) इन्तिक़ाम, दण्ड, एवज़

बधनी = (بدھنی) मिट्टी का टोटी दार लोटा

बनाना = (بنانا) निर्माण करना, ठीक करना, सुधारना, मज़ाक़ उड़ाना

बनावट = (بناوٹ) प्रारूप, नक़लीपन, साज सज्जा

बंद = (بند) गांठ, हड़ताल, बाँध, शायरी में छ्ह पंक्तियों का मुक्तक बंद होता हैं

बन्दा = (بندہ) गुलाम, दास, नौकर, चाकर, आज्ञाकारी, भक्त

बंदिश = (بندش) पाबंदी, गाँठ, गिरह, सुर साज़ और आवाज़ का लुभावना बंधन

बंदूक़ = (بندوق) आग्नेयास्त्र, गन

बन्दोबस्त = (بندوبست) व्यवस्था, प्रबंध, आयोजन

बन्दर = (بندر) वानर, साहिल, किनारा

बन्दरगाह = (بندرگاہ) पानी के जहाज़ ठहरने का स्थान, पोर्ट, गोदी

बन्दगी = (بندگی) तपस्या, पूजा, दास पन, गुलामी

बम्बा = (بمبا) पानी निकलने का स्थान, नल

ब्याज = (بیاز) सूद, लाभ,

बयाज़ = (بیاض) शायरी की किताब, डायरी,

बयाबान = (بیابان) उजाड़, वीरान, जंगल, रेगिस्तान, सहरा

बयान = (بیان) प्रवचन, भाषण, वक्तव्य, विवरण, अदालत या पुलिस के सामने गवाही

बयाना = (بیعانہ) अग्रिम धन राशि, एडवांस, सौदा पक्का होने पर दी जाने वाली रक़म

बरअक्स = (برعکس) विपरीत, उल्टा, विरुद्ध, ख़िलाफ़

बरआमद = (برآمد) निकासी, निर्यात, बाहर आना, नाजायज़ माल घर से निकलना

बरात = (برات) दूल्हा की शादी का जुलूस, भीड़-भाड़, शोभा यात्रा, बारात

बराबर = (برابر) समकक्ष, समरूप, समान

बरी = (بری) मुक्त होना, छूटना, दूल्हा के घर से दुल्हन के घर भेजा जाने वाला सामान

बरकत = (برکت) वृद्धि, ईश्वर की कृपा, घर भरा रहने की कामना करने वाला शब्द

बर्क़ = (برق) बिजली, विद्युत, आकाशीय बिजली, तेज़, चालाक

बरक़रार = (برقرار) बना रहना, स्थिर, निरंतर, अपने पद पर रहना

बर्ग = (برگ) पत्ता, पात, वरक़

बरगज़ीदा = (برگزیدہ) चयनित, पसंदीदा, लोकप्रिय

बरगश्ता = (برگشتہ) विरोधी, बाग़ी, विद्रोही, फिरा हु आ

बर्ख़ास्त = (برخاست) उठाना, स्थगन, भंग करना, निष्कासित, अपदस्त करना

बरख़ुरदार = (برخوردار) पुत्र, बेटा, भाग्यवान, नवयुवकों को पुकारने के लिए प्रचलति शब्द

बरजस्ता = (برجستہ) अचिंति, अविचारित, फ़ौरन, मौक़े पर, बिना सोचे, बिना तैयारी के

बरज़ख़ = (برزخ) रोक, अवधि, स्वर्ग नरक से पहले का स्थान

बर्फ़ = (برف) हिम, स्नो, बरफ़

बर्ताव = (برتاؤ) व्यवहार, सुलूक, रवय्या

बरतरी = (برتری) बढ़त, प्रभुत्व, वर्चस्व

बरतरफ़ = (برطرف) निष्कासित, अपदस्थ, हटाया जाना

बरदाश्त = (برداشت) सहन, धीरज, संयम

बरबाद = (برباد) नष्ट, नाश, तबाह, उजड़ना

बर्री = (برّی) थल, ज़मीनी, खुश्की

बरस = (برس) वर्ष, साल, वर्षा, सफ़ेद दाग़ की बीमारी

बरसात = (برسات) वर्षा ऋतु, बारिश

बरसी = (برسی) पुण्य तिथि, किसी की स्मृति में होने वाला वार्षिक आयोजन

बरहम = (برہم) आक्रोशित, गुस्से में, नाराज़

बला = (بلا) विपदा, आफ़त, परेशानी, डायन, चुड़ैल, भूत प्रेत

बलाग़त = (بلاغت) उच्च स्तर की भाषा, सुविचार, साहित्यिक भाषा में वार्ता लाप

बलदार = (بلدار) मुड़ा हु आ, घूमा

हु आ

बलन्द = (بلند) ऊँचा, उठा हु आ, उच्च

बशारत = (بشارت) अच्छा सपना, वह सूचना जो कोई पैग़म्बर या इमाम ख़्वाब में दे

बश्शाश = (بشاش) मगन, आनन्दित, ख़ुश, तरो ताज़ा

बस = (بس) केवल, सिर्फ़, ज़ोर, काफ़ी, संतुष्टि

बसना = (بسنا) नयी जगह जा कर रहना, बस्ती आबाद करना, सुगन्धित करना

बसेरा = (بسیرا) पक्षियों का रात गुज़ारना, रात बिताने की जगह, सराय

बसीरत = (بصیرت) ज्योति, अंतर्दृष्टि, दूरदर्शीता

बस्ता = (بستہ) झोला, बैग, बंधा हु आ

बस्ती = (بستی) मोहल्ला, गाँव, क़स्बा, खेड़ा, आबाद जगह

बसर = (بسر) गुज़ारना, बिताना, भोगना, निभाना

बहादुर = (بہادر) वीर, साहसी, हिम्मतवाला

बहाना = (بہانہ) ढब, छल, झूठ बोलना, टालना

बहाना = (بہانا) बहते पानी में कुछ डालना, सफ़ाई के लिये पानी लुंढाना

बहार = (بہار) वसंत ऋतु, जाड़े के बाद का मौसम, नए फूल खिलने की ऋतु

बहाल = (بحال) पहले जैसा, अपने पद पर दोबारा नियुक्ति, अपनी प्राकृतिक स्थिति में

बहु त = (بہت) अधिक, ज़्यादा, काफ़ी

बहकाना = (بہکانا) रस्ते से भटकाना, वरग़लाना, कान भरना, गुमराह करना

बहजत = (بہجت) प्रसन्नता. ख़ुशी, ताज़गी

बहनोई = (بہنوئی) जीजा, बहन का पति

बहबूदी = (بہبودی) कल्याण, भलाई, उत्थान

बहर = (بحر) समुद्र, महासागर, शायरी के मीटर को भी बहर कहते हैं

बहरहाल = (بہرحال) हर स्थिति में, हर हाल में,हर परिस्थिति में

बहलाना = (بہلانا) बच्चे का रोने से ध्यान भटकाना, दूसरी बात में उलझाना

बहस = (بحث) वाद विवाद, परिचर्चा, तर्क वितर्क

बा = (بہ) साथ

बाएस = (باعث) कारण, वजह, सबब

बाकरा = (باکرہ) कुंवारी कन्या, अछूती

बाक़ी = (باقی) बचा हु आ, शेष

बाग = (باگ) वह रस्सी जो घोड़े की लगाम में बाँधी जाती है

बाग़ = (باغ) उद्यान, फुलवारी, गार्डेन

बाग़ी = (باغی) विद्रोही, असंतुष्ट, सरकार का विरोधी

बाजी = (باجی) बड़ी बहन

बाज़ = (باز) दोबारा, वापस, खिलाड़ी, एक शिकारी पक्षी

बाज़ = (بعض) दोबारा, वापस

बाज़ार = (بازار) हाट, मार्किट, क्रय विक्रय की जगह

बाज़ी = (بازی) खेल, करतब, प्रतियोगिता, दावं, शर्त लगाना, बदना

बाज़ीगर = (بازیگر) खेल दिखाने वाला, मदारी, सर्कस का क़लाबाज़

बाज़ू = (بازو) भुजा, कन्धे से कोहनी तक अंग

बाज़गश्त = (بازگشت) अनुगूंज, गूंज, ईको

बाट = (باٹ) तौलने वाले बट्टे

बात = (بات) बोल, वाक्य, कहना

बाप = (باپ) पिता

बातिन = (باطن) अंतर मन, अंतरात्मा, छुपा, जो बाहर से दिखाई न दे

बातिल = (باطل) खोटा, झूठा, असत्य, अवैध, बेकार

बाद = (باد) पवन, हवा

बाद = (بعد) पश्चात

बादा = (بادہ) दारु, मदिरा, शराब

बादियान = (بادیان) सौंफ़

बादबान = (بادبان) नाव पर लगने वाला पर्दा जो गति देता है

बादशाह = (بادشاہ) राजा, सम्राट, शासक

बादल = (بادل) मेघ, घटा

बाब = (باب) द्वार, अध्याय, भाग

बाबत = (بابت) विषय, हिसाब, मुद्दे

बार = (بار) बोझ, भार, दोबारा

बारान = (باران) वर्षा

बारिश = (بارش) वर्षा, बरखा

बारूद = (بارود) विस्फोटक

बारगाह = (بارگاہ) दरबार, सदन

बाशिंदा = (باشندہ) नागरिक, निवासी
बासी = (باسی) मुरझाया हुआ, रात का बचा हुआ खाना, पहले से पका कर रखा हुआ, जो ताज़ा न हो
बाल = (بال) केश, बच्चे
बाला = (بالا) ऊँचा, ऊपरी, कान का ज़ेवर
बालाई = (بالائی) ऊपरी भाग, दूध की मलाई
बालिग़ = (بالغ) वयस्क
बालिश्त = (بالشت) फैलाने के बाद पंजे की नाप
बाली = (بالی) कम उम्र लड़की, कान में पहनने का ज़ेवर
बालीदगी = (بالیدگی) प्रजनन, बढ़ावा
बालीं = (بالیں) तकिया, सरहना, क़ब्र का ऊपरी भाग
बाल्टी = (بالٹی) डोलची, पानी भरने का बर्तन
बांका = (بانکا) टेढ़ा तिरछा जवान, छैल छबेला
बाँझ = (بانجھ) बंजर, ग़ैर उपजाऊ, प्रजनन की शक्ति से वंचित महिला
बाँटना = (بانٹنا) वितरण, बटवारा
बाम = (بام) छत, कोठा, दर्द निवारक औषधि
बावर्ची = (باورچی) रसोइया, शेफ़, खाना पकाने वाला
बावली = (باؤلی) सीढ़ियों वाला कुंवा, पागल औरत
बाहम = (باہم) आपस में, मिल जुल कर, मेल मिलाप
बायाँ = (بایاں) उल्टा हाथ
बिकाऊ = (بکاؤ) बिक्री योग्य, बिकने के लिए उपलब्ध
बिगाड़ना = (بگاڑنا) ख़राब करना, मिटाना, निकम्मा करना, बुरी आदतों में डालना
बिजली = (بجلی) विद्युत, बादलों की चमक, आम की गुठली, कान का ज़ेवर
बिज़ाअत = (بضاعت) जमा पूँजी, हिस्सा
बिछाना = (بچھانا) ज़मीन पर फैलाना, बिस्तर लगाना
बिदअत = (بدعت) नया चलन, नई रस्म, व्यवधान, वह प्रथा जो पैग़म्बर साहिब के युग में नहीं थी
बिदकना = (بدکنا) घोड़े या गाय बैल का डर कर उछलना, भड़क जाना
बिरादरी = (برادری) गोत्र, समाज, जातिय समूह , भाई बंदी, रिश्तेदारी, संगत

ब्रिन्ज = (برنج) चावल

बिरयान = (بریان) भुना हुआ, रोस्टेड

बिरयानी = (بریانی) भुने गोश्त और चावल का पुलाव

बिसात = (بساط) कारोबार, पूंजी, शतरंज का बोर्ड, हिम्मत, हौसला

बिसाती = (بساطی) घरेलू प्रयोग की वस्तुएं बेचने वाला, जनरल मर्चेंट

बिसूरना = (بسورنا) रोती सी शक्ल बनाना, हल्के-हल्के रोना

बिस्तर = (بستر) बिछोना, फ़र्श, ग़लीचा

बिस्मिल = (بسمل) बलि दिया गया जानवर, मारा गया व्यक्ति, घायल, तड़पने वाला

बिस्मिल्लाह = (بسم اللہ) अल्लाह के नाम से (शुरू करना)

बिल = (بل) सांप के छुपने का स्थान, चूहे के रहने की जगह

बिला = (بلا) बिना, बग़ैर, सिवा

बिलकना = (بلکنا) बच्चों का विचलित हो कर रोना, बेक़रार होना, बिलखना

बिना = (بنا) जड़, आरम्भ करना, नीव डालना

बिन्त = (بنت) बेटी, पुत्री, कन्या

बियाह = (بیاہ) विवाह, शादी, ब्याह

बीज = (بیج) बोने वाला दाना, गुठली

बीच = (بیچ) मध्य, अंदर, भीतर

बीड़ा = (بیڑا) पान की गिलौरी

बीतना = (بیتنا) गुज़रना, बसर होना, समाप्त होना

बीनाई = (بینائی) नेत्र ज्योति, दृष्टि, आँख की रौशनी

बीमार = (بیمار) रोगी, अस्वस्थ, मरीज़

बीवी = (بیوی) पत्नी

बीहड़ = (بیہڑ) ऊँची नीची ज़मीन वाला क्षेत्र, उबड़ खाबड़ इलाक़ा

बुका = (بکا) रोना, मातम

बुखार = (بخار) तप, बदन गर्म होना, धुवाँ, भाप

बुग़्ज़ = (بغض) बैर, छल, द्वेष कपट, ईर्ष्या, दुश्मनी

बुज़ = (بز) बकरी, बकरा, भेढ़

बुज़दिल = (بزدل) डरपोक

बुज़ुर्ग = (بزرگ) वृद्ध, बड़े, बूढ़े, ऋषि, पीर

बुझना = (بجھنا) समाप्त होना, ख़त्म होना, जैसे प्यास बुझना या आग बुझना

बुत = (بت) मूर्ति, प्रतिमा, पुतला

बुरा = (برا) ख़राब, घटिया,

निकम्मा

बुरादा = (برادہ) चूरा, लकड़ी कटने से निकलने वाले छोटे-छोटे कण

बुर्क़ा = (برقع) पर्दा करने वाली महिलाओं का वस्त्र, नक़ाब

बुर्ज = (برج) गुंबद, राशि, नक्षत्र, मठ

बुर्दबार = (بردبار) गम्भीर, संयम से काम लेने वाला,भरी भरकम व्यक्तित्व

बुन्दा = (بندا) कान में पहने जाने वाला ज़ेवर

बुर्राक़ = (براق)बहु तउजला, तेज़ गति वाला, पैग़ंबर साहब की विशेष सवारी

बुलाक़ = (بلاق) कान और नाक का ज़ेवर जिस में एक मोती लटका होता है

बुलूग़त = (بلوغت) वयस्कता, यौवन, जवानी

बुलहवस = (بوالہوس) वासना से ग्रसित, कामुकता में डूबा व्यक्ति, हवस का बाप, लालची

बुर्रश = (برش)काट, तेज़ी, धार

बूझ = (بوجھ) समझ, ज्ञान, संपदा, पहेली पूछना

बूटा = (بوٹا) नन्हा सा पौधा, कपड़ों या काग़ज़ पर बनाये जाने वाले फूल

बूढ़ा = (بوڑھا) वृद्‌ध, अधिक आयु का मनुष्य

बूँदाबांदी = (بوندا باندی) हल्की वर्षा

बूदोबाश = (بود و باش) निवास स्थल, रहने की जगह, आवास

बूरानी = (بورانی) दही का रायता

बे = (بے) बिना, अलावा, रहित

बेड़ा = (بیڑا) कई जलपोत, अनेक विमानों का समूह

बेड़ी = (بیڑی) बंदियों के पाँव में डाली जाने वाली ज़ंजीर

बेज़ार = (بیزار) उकताना, ऊब जाना, निराश, परेशान

बेटा = (بیٹا) पुत्र

बेटी = (بیٹی) पुत्री

बेदारी = (بیداری) जागरण, सोते से उठाना, नींद से जागना

बेल = (بیل) लता

बेलचा = (بیلچہ) ज़मीन खोदने का यंत्र

बेलदार = (بیلدار) खुदाई करने वाला श्रमिक

बेलन = (بیلن) रोटी पकाने के लिए प्रयोग होने वाली गोल लकड़ी

बेवा = (بیوہ) विधवा

बेवक़ूफ़ = (بیوقوف) बिना बुद्धि वाला, मूर्ख, अहमक़

बेवफ़ा = (بیوفا) जिस में वफ़ा न हो, वचन दे कर मुकर जाने वाला, विश्वासघाती

बेश = (بیش) ज़ियादा, अधिक, बहुत

बेशबहा = (بیش بہا) बहुमूल्य अनमोल, बढ़िया

बेहिश्त = (بہشت) स्वर्ग, जन्नत, बाग़, गुलशन

बेहिश्ती = (بہشتی) पानी पिलाने वाला, मश्क से घरों में पानी पहुँचानेवाला, स्वर्ग वाला

बेहूदगी = (بیہودگی) फूहड़ पन, बदतमीज़ी, बेढंगा पन, व्यर्थ बात, स्तर हीन आचरण

बेहतर = (بہتر) उत्तम, बहुत अच्छा, उम्दा

बैज़ा = (بیضا) अंडा

बैत = (بیت) घर, मकान, शायरी में चार पंक्तियों के बाद के शेर को बैत कहते हैं

बैतुलख़ला = (بیت الخلا) शौचालय, संडास, पाख़ाना

बैतुलमुक़द्दस = (بیت المقدس) पवित्र घर, यरोशलम की मस्जिदे अक़्सा का दूसरा नाम

बैतुलहराम = (بیت الحرام) वह जगह जहां वध या युद्ध करना मना हो, काबा परिसर का नाम

बैतबाज़ी = (بیت بازی) अन्ताक्षरी, शेर के अंतिम शब्द के अनुसार जवाबी शेर सुनाना

बैर = (بیر) दुश्मनी, विवाद, विरोध, अदावत

बैरूनी = (بیرونی) बाहरी व्यक्ति, विदेशी, बाह्य, आउटडोर

बैन = (بین) किसी मृतक की बातें याद करके रोना, मध्य, बीच में, फ़ासला, दूरी

बैनामा = (بیع نامہ) विक्रय प्रपत्र, सेल डीड, बिक्री के दस्तावेज़. रजिस्ट्री

बौखलाहट = (بوکھلاہٹ) घबराना, बावला होना, दीवानों की तरह फिरना

बोझ = (بوجھ) भार, वज़्न

बोझल = (بوجھل) लदा हुआ, भारी

बोटा = (بوٹا) मांस का बड़ा टुकड़ा

बोदा = (بودا) निर्बल, कमज़ोर, डरपोक, गला हुआ, फुसफुसा

बोरा = (بورا) टाट या प्लास्टिक का बड़ा थैला

बोल = (بول) शब्द, वाक्य, वचन, गीत का मुखड़ा या अंतरा

बोली = (بولی) भाषा, पक्षियों की चहचाहट, नीलाम में ख़रीदना

बोलचाल = (بول چال) आम भाषा, वार्तालाप, बात करने का तरीक़ा

बोसा = (بوسہ) चुम्बन, मुच्ची

बोसीदा = (بوسیدہ) पुराना, सड़ा गला, कमज़ोर

बोसोकनार = (بوس وکنار) चूमा चाटी, लिपट चिमट, प्रेमी प्रेमिका का आलिंगन

बोहतात = (بہتات) भरमार, बहु तायत, किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपलब्ध होना

बोहतान = (بہتان) निराधार इलज़ाम धरना, दोष लगाना

बोहरान = (بحران) संकट, उथलपुथल, मंदी, जोखिम

बौना = (بونا) ठिंगना, कम क़द वाला, छोटी काठी का मनुष्य

भ (بھ)

भगोड़ा = (بھگوڑا) मैदान छोड़ कर भागने वाला, सेना की नौकरी बिना बताये छोड़ने वाला

भजन = (بھجن) देवताओं की प्रशंसा वाला गीत, स्तुति

भट = (بھٹ) लोमड़ी, गीदड़, सियार इत्यादि जानवरों के रहने का स्थान

भटियारन = (بھٹیارن) सराय में यात्रियों को ठहराने वाली महिला, रोटी पकाने वाली

भटकना = (بھٹکنا) रास्ता भूल जाना, गुम हो जाना, डगर से हट जाना

भट्टा = (بھٹا) ईंट पकाने का स्थान, भट्ठा

भड़ास = (بھڑاس) दिल का मैल, मन का गुबार, दिल में छुपी अदावत

भड़कना = (بھڑکنا) शोला तेज़ होना, दिए के लौ जलना बुझना, गुस्सा करना, नाराज़ होना

भड़वा = (بھڑوا) वेश्या का दलाल, औरतों का धंधा करने वाला

भतीजा = (بھتیجا) भाई का पुत्र

भबका = (بھبکا) तेज़ दुर्गन्ध का हवा के साथ आना

भरपूर = (بھرپور) पूर्ण, पूरा, लबालब, पूरी शक्ति

भरोसा = (بھروسہ) विश्वास, एतिबार

भर्ती = (بھرتی) प्रवेश, दाख़िला, सेना में नौकरी, अस्पताल में

एडमिट होना

भरम = (بھرم) साख, भरोसा, ख़ुद पर गुमान

भलाई = (بھلائی) अच्छा कार्य, पुण्य का काम, कल्याण कारी क़दम

भागना = (بھاگنا) दौड़ना, पीठ दिखाना, बचना, फ़रार होना

भाड़ = (بھاڑ) वह चूल्हा या अलाव जिसमें चने व मूंगफली इत्यादि भूनते हैं

भाड़ा = (بھاڑا) किराया, मज़दूरी

भांजा = (بھانجا) बहन का बेटा

भांजी = (بھانجی) बहन की बेटी, किसी काम में टांग अड़ाना, रोड़ा अटकाना

भांड = (بھانڈ) हंसाने वाले, मिमिक्री और कामेडी करने वाले कलाकार

भांडा = (بھانڈا) मिट्टी का बड़ा बर्तन, राज़, भेद

भांपना = (بھانپنا) अंदाज़ा लगा लेना, देख कर ही समझ जाना, ताकना

भारी = (بھاری) बोझल, अधिक बोझ, कठिन, बड़ी

भाला = (بھالا) बल्लम, बरछी

भाव = (بھاؤ) दर, बाज़ार मूल्य, नृत्य की मुद्रा, हालत, स्थिति, आदत, रूप

भिकारी = (بھکاری) मंगता, फ़क़ीर, भिखारी

भिगोना = (بھگونا) पानी डालना, जल में तर करना, गीला करना

भिड़ाना = (بھڑانا) आपस में लड़ाना, सामने लाना, किसी चीज़ में टक्कर मारना

भी = (بھی) और, अलावा, ज़ियादा

भीक = (بھیک) भिखारी को दी जाने वाली वस्तु या धन राशि, भीख

भीगना = (بھیگنا) गीला होना, तर होना

भीड़ = (بھیڑ) जमघट, ठठ, अपार जनसमूह , हुजूम

भुगतना = (بھگتنا) झेलना, निबाहना, सहना, अंजाम को पहुंचना

भुजंग = (بھجنگ) काला कलूटा, बहुत काला, कोयल से मिलता जुलता पक्षी, काला सांप

भुट्टा = (بھٹّا) जुवार की बाली, मकई, छल्ली

भुनाना = (بھنانا) पैसे छुट्टा करना, चेक कैश करवाना, रक़म खुदरा करवाना

भुलाना = (بھلانا) याद न रखना, ध्यान से उतार देना

भुलावा = (بھلاوہ) झुटलावा,

बहकावा, ग़लत फ़हमी पालना, झूठ को सच मान लेना

भुस = (بھس) अनाज या दलहन का छिलका

भूका = (بھوکا) भूखा, जिस का पेट ख़ाली हो, इच्छुक, तलब रखने वाला

भूत = (بھوت) गुज़रा हुआ, प्रेत, बुरा साया

भूल = (بھول) चूक, ग़लती, याद न रहना, ध्यान से उतर जाना

भेस = (بھیس) रूप, ढंग, वेश भूषा, छिपने के लिए वस्त्र धारण करना

भोला = (بھولا) सीधा सादा, बिना छल कपट वाला व्यक्ति, नादान

भौंचक्का = (بھونچکا) हैरान रह जाना, हक्का बक्का, ताज्जुब होना

म (م)

मआश = (معاش) व्यवसाय, रोज़गार, आजीविका

मए = (مے) संग में, समेत, शराब, मदिरा

मएख़ाना = (میخانہ) शराब का अड्डा, बार, दारु पीने का विशेष स्थान

मकान = (مکان) आवास, निवास, घर

मकोड़ा = (مکوڑا) बड़ा कीड़ा

मक्का = (مکّہ) अरब का पवित्र नगर जहाँ काबा स्थित है

मक्कार = (مکّار) धोखेबाज़, फ़रेबी

मकतूब = (مکتوب) चिट्ठी, पत्र, लेटर

मकतब = (مکتب) पाठशाला, मदरसा, स्कूल

मकतबा = (مکتبہ) पुस्तक घर, किताब ख़ाना, बुक स्टोर

मकरूह = (مکروہ) घृणित, घिनौना, भोंडा, बदनुमा

मक़ाम = (مقام) स्थान, जगह, ठिकाना

मक़ामी = (مقامی) स्थानीय, मूल निवासी, देसी, लोकल

मक़ाला = (مقالہ) निबंध, शोध-पत्र, कही हुई बात, कथन

मक़तअ = (مقطع) ग़ज़ल या नज़्म का आख़री शेर जिस में शायर का तख़ल्लुस होता है

मक़तल = (مقتل) रणभूमि, जहाँ ख़ून बहाया जा जाता हो, वध स्थल

मक़तूल = (مقتول) जिसकी हत्या हुई हो, मृतक, क़त्ल होने वाला

मक़दम = (مقدم) स्वागत, आगमन, कहीं पधारना

मक़दूर = (مقدور) शक्ति, बूता, ताक़त, पहुंच, हौसला

मक़नातीस = (مقناطیس) चुम्बक, मैग्नेट

मक़बूज़ा = (مقبوضہ) अनाधिकृत, क़ब्ज़ा किया गया स्थान

मक़बूल = (مقبول) स्वीकृत, कुबूल किया गया, लोकप्रिय, शीर्ष

मक़बरा = (مقبرہ) क़ब्र की जगह, दरगाह, क़ब्र पर बना भवन

मक़रूज़ = (مقروض) ऋणी, देनदार. क़र्ज़दार

मक़सद = (مقصد) उद्देश्य, लक्ष्य, प्रयोजन

मख़दूम = (مخدوم) सम्मान के लायक़ व्यक्ति, जिसकी सेवा सम्मान की बात हो, बुज़ुर्ग

मख़मूर = (مخمور) मस्त, नशे में चूर, मदहोश

मख़मल = (مخمل) एक प्रकार का नर्म कपड़ा

मख़मसा = (مخمصہ) झमेला, उलझन, बखेड़ा, झिझक, असमंजस

मख़लूक़ = (مخلوق) जीव, प्राणी, कृति, रचा हुआ, उत्पन्न किया हुआ

मख़लूत = (مخلوط) मिला जुला, मिश्रित

मख़सूस = (مخصوص) विशिष्ट, विशेष, निर्दिष्ट, आरक्षित

मग़ज़ = (مغز) दिमाग़, मस्तिष्क, भेजा

मग़रिब = (مغرب) पश्चिम, सूर्यास्त का स्थान, वेस्ट

मग़रूर = (مغرور) घमंडी, अभिमानी, अहंकारी

मग़फ़िरत= (مغفرت) मरने के बाद मुक्ति, पाप की क्षमा, निजात, मोक्ष

मग़मूम = (مغموم) उदास, चिंतित, ग़म में डूबा

मग़लूब = (مغلوب) परास्त, विवश, बल पूर्वक दबाया हुआ

मगस = (مگس) मधु मक्खी

मचलना = (مچلنا) हट करना, ढिटाई, कोई चीज़ लेने के लिए अड़ना, ज़िद करना

मछली = (مچھلی) मत्स्य, मच्छी

मजाज़ = (مجاز) अधिकृत, वास्तविक न होना, गुज़रने का स्थान, फ़र्ज़ी, दुनियावी

मजाल = (مجال) पराक्रम, सामर्थ, हिम्मत, हौसला

मजीद = (مجید) आदरणीय, सम्मानित, पवित्र कुरान के साथ

लगने वाला शब्द

मजज़ूब = (مجذوب) मस्त, दीवाना, ख़ुदा की याद में डूबा हु आ

मजनूँ = (مجنوں) दीवाना, उन्मत्त, मानसिक रोगी, जुनून का शिकार, लैला का प्रेमी

मजबूर = (مجبور) विवश, असहाय, बेबस, लाचार

मजमा = (مجمع) भीड़, समूह, जमघट

मजमुआ = (مجموعہ) संग्रह, संयोजन

मजमूई = (مجموعی) सकल, समग्र, कुल

मजरूह = (مجروح) घायल, आहत, ज़ख्मी

मजलिस = (مجلس) सभा, संगठन, इमाम हुसैन की याद में आयोजित होने वाला कार्यक्रम

मज़ा = (مزہ) स्वाद, ज़ायक़ा, आनन्द

मज़ाक़ = (مذاق) हास्य-व्यंग, हंसी-ठटा, मज़ेदार, स्वाद, चस्का

मज़ार = (مزار) समाधि स्थल, दरगाह, किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग की क़ब्र

मज़ीद = (مزید) अधिक, अतिरिक्त, बढ़ोतरी

मज़कूर = (مذکور) उक्त, उल्लेखित, सूचीबद्ध, जिस का वर्णन किया गया हो

मज़दूर = (مزدور) श्रमिक, पल्लेदार, बोझा ढोने वाला, दिहाड़ी पर काम करने वाला

मज़बूत = (مضبوط) सशक्त, टिकाऊ, पक्का, अटल

मज़मून = (مضمون) विषय, आलेख, निबंध, आर्टिकल

मज़म्मत = (مذمّت) निंदा, आलोचना, भर्त्सना

मज़लूम = (مظلوم) पीड़ित, अत्याचार का शिकार, दुखी, सताया हु आ

मज़हका = (مضحکہ) व्यंग्य करना, खिल्ली उड़ाना, हंसी मज़ाक़ बनाना

मज़हब = (مذہب) धर्म, पन्थ, दीन, ईमान

मज़हर = (مظہر) जहां कुछ दिखाया जाए, अखाड़ा, झांकी की जगह, तमाशे का मंच

मटरगश्ती = (مٹر گشتی) आवारा गर्दी, घूमना फिरना

मत = (مت) ना, नहीं, समझ, बुद्धि

मताअ = (متاع) बाज़ार में बिकने वाला सामान, पूंजी, संपत्ति

मतानत = (متانت) गंभीरता,

शालीनता, भद्रता, विनम्रता

मतीन = (متین) गम्भीर, ठोस, मज़बूत

मतब = (مطب) औषधालय, डाक्टर का चेम्बर

मतबअ = (مطبع) छापा ख़ाना, मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस

मतबख़ = (مطبخ) रसोई, किचन

मतलअ = (مطلع) आकाश पर जहाँ सूरज चाँद उभरते हैं, ग़ज़ल का पहला शेर

मतलब = (مطلب) अर्थ, स्वार्थ

मतलूब = (مطلوب) वांछित, अपेक्षित, आवश्यक

मतवाला = (متوالا) मस्त, नशे में चूर

मद = (مد) मद्य, शराब, दारू, मतवाला पन, अभिमान, नदी

मदार = (مدار) ग्रहों के घूमने की परिधि, उपग्रह की कक्षा, ऑर्बिट

मदक़ूक़ = (مدقوق) क्षय रोग का शिकार व्यक्ति, टी बी का रोगी

मदग़म = (مدغم) एकीकृत, सम्मिलित

मदफ़न = (مدفن) समाधि, क़ब्र, दफ़्न होने का स्थल, मज़ार

मदद = (مدد) सहायता, सहारा, समर्थन, हेल्प

मद्दाह = (مداح) प्रशंसक, फ़ैन, तारीफ़ करने वाला

मदरसा = (مدرسہ) शिक्षा स्थल, स्कूल, धर्म का ज्ञान देने वाली शिक्षण संस्था

मदह = (مدح) प्रशंसा, स्तुति, तारीफ़, गुणगान

मदहोश = (مدہوش) जिस को होश न हो, नशे में धुत, बेसुध, बदमस्त

मद्धम = (مدھم) धीमा, धीरज, संगीत का सुर गाने वाले की आवाज़ से नीचा होना

मन = (من) दिल, जी, अंतरात्मा, चालीस सेर का भार

मनिहार = (منیہار) चूड़ियाँ बेचने और बनाने वाले

मनक़बत = (منقبت) प्रशंसा, तारीफ़, सच्चे लोगों को श्रद्धांजलि देने वाली काव्य शैली

मनक़ूल = (منقول) उल्लेखित, उद्धृत, हवाला देना, उद्धरण करना

मंगनी = (منگنی) सगाई, रिश्ता पक्का होना, कोई चीज़ बिना क़ीमत दिए माँगना

मंज़िल = (منزل) पड़ाव, गंतव्य स्थान, तल, घर, विश्राम स्थल, ठिकाना

मंज़र = (منظر) दृश्य, सीन

मंज़ूम = (منظوم) काव्य, पद्य
मंज़ूर = (منظور) स्वीकृत, क़ुबूल
मन्तिक़ = (منطق) वार्ता, बातचीत, बात करने का हुनर, दलील दे कर अपना पक्ष रखना
मंदूब = (مندوب) प्रतिनिधि, दूत
मन्नत = (منت) मुराद, इच्छा, भेंट, मुराद पूरी होने पर चढ़ावा या नेक काम करने का वादा
मनफ़ेअत = (منفعت) लाभ, फ़ायदा
मंशूर = (منشور) घोषणापत्र, राजकीय आदेश, बिखरा हुआ
मंसूख़ = (منسوخ) रद्द होना, मिट जाना, कैंसिल
मंसब = (منصب) पद, ओहदा
मंसूब = (منسوب) संबद्ध, किसी के नाम से जुड़ा होना, जिस से सगाई हुई हो, मंगेतर
मंसूबा = (منصوبہ) योजना, साज़िश, प्लान, स्कीम
मन्हूस = (منحوس) अप शगुन, बुरा, अभागा
मफ़तूह = (مفتوح) हारा हुआ, पराजित, परास्त
मफ़लूक = (مفلوک) परेशां हाल, बरबाद, तबाह हो चुका व्यक्ति
मफ़लूज = (مفلوج) पक्षाघात का पीड़ित, निष्क्रय, अक्रिय, ठप्प होना
मफ़हूम = (مفہوم) अर्थ, तात्पर्य, आशय
मबहूत = (مبہوت) हैरान, हक्का बक्का, चकित, बावला
ममात = (ممات) मृत्यु, मरना, देहांत
ममासिल = (مماثل) हमशक्ल, मिलता जुलता
ममदूह = (ممدوح) जिसकी प्रशंसा की जाए, प्रशंसा पात्र
ममनूअ = (ممنوع) वर्जित, निषिद्ध, मना, जिसकी अनुमति न हो
मयस्सर = (میسّر) उपलब्ध, मौजूद, जो वस्तु आसानी से मिल सके
मरियम = (مریم) पवित्र लड़की, कुंवारी कन्या, हज़रत ईसा की माता का नाम
मरकज़ = (مرکز) केंद्र
मर्ग = (مرگ) मृत्यु
मरज़ = (مرض) रोग, बीमारी
मर्ज़ी = (مرضی) इच्छा, अनुमति, मंज़ूरी, सहमति
मरतबा = (مرتبہ) श्रेणी, रुतबा, दर्जा, पद, पदवी, कई बार, कई दफ़ा
मर्द = (مرد) पुरुष, मनुष्य, नर, आदमी

मरदुम = (مردم) आम लोग, जन मानस

मरबूत = (مربوط) बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, एकीकृत, समन्वित

मरम्मत = (مرمّت)पुनर्निर्माण, टूटी चीज़ों को ठीक करना, रिपेरिंग

मर्मर = (مرمر) श्वेत, सफ़ेद,

मरसिया = (مرثیہ) शोक-काव्य, इमाम हुसैन की याद में पढ़ा जाने वाला महाकाव्य

मरहबा = (مرحبا) वाह, वाह, धन्य, शाबाश, क्या कहना

मरहमत = (مرحمت) प्रदान करना, दया करना, अनुग्रह

मरहला = (مرحلہ) चरण, गन्तव्य स्थान, मंज़िल

मर्वारीद = (مروارید) मोती, सीप से निकलने वाले गोल दाने

मरहम = (مرہم) घाव पर लगने वाला लेप, मलहम, बाम

मरहूने मिन्नत = (مرہون منت) एहसान के नीचे दबा, शुक्रिये के बोझ तले दबा

मलामत = (ملامت) भर्त्सना, धुत्कारना, डांटना, झिड़कना, बुरा कहना

मलका = (ملکہ) रानी, महारानी, राजा की पत्नी, शासन करने वाली महिला

मलऊन = (ملعون) शापित, लानत योग, निकला गया, शैतान

मलूल = (ملول) उदास, दुखी

मलक = (ملک) फ़रिश्ता, यमदूत, देवदूत, एंजेल

मलफूज़ = (ملفوظ) सम्मानित लोगों के कथन, किसी बुज़ुर्ग द्वारा वर्णित कोई कथा

मलफ़ूफ़ = (ملفوف) लिफ़ाफ़े में बंद, लपेट कर रखा गया, ढका हुआ

मलंग = (ملنگ) जिस को अपना होश न हो, अपने आप में मस्त, एक मुस्लिम वर्ग

मलबूस = (ملبوس) पहनने के कपड़े, वस्त्र धारण, पहने हुए या उतारे हुए वस्त्र

मल्लाह = (ملاح) नाविक, मांझी

मलहूज़ = (ملحوظ) ध्यान, ख़याल, लिहाज़ रखना

मशअल = (مشعل) ज्वाला, लौ, मशाल

मशीयत = (مشیت) मर्ज़ी, इच्छा, इरादा, ख़ुदा की मर्ज़ी

मश्क = (مشک) चमड़े का बना जल भरने वाला झोला

मशकूक = (مشکوک) संदिग्ध,

संदेहास्पद, दुविधा की स्थिति

मशकूर = (مشکور) धन्यवाद का पात्र, जिसका आभार व्यक्त किया जाए

मश्क़ = (مشق) अभ्यास, प्रेक्टिस

मशक्क़त = (مشقّت) परिश्रम, मेहनत कठिनाई, कष्ट

मशग़ला = (مشغلہ) कार्य, दिल बहलाना, शौक़, व्यस्तता

मशमूलात = (مشمولات) समाविष्ट, युक्त, सम्मिलित, शामिल सामग्री

मशरब = (مشرب) पन्थ, दीन, धर्म, पानी पीने का स्थान

मशरिक़ = (مشرق) पूरब, सूर्योदय वाला छोर

मशविरा = (مشورہ) परामर्श, सुझाव, सलाह

मशहूर = (مشہور) प्रसिद्ध, नामवर, नामचीन

मस = (مس) छूना, हाथ लगाना, हाथ फेरना

मसा = (مسا) सांध्य, शाम, साँझ

मसाएब = (مصائب) कष्ट, पीड़ा, दुख, यातना

मसाफ़त = (مسافت) दूरी, फ़ासला

मसारिफ़ = (مصارف) कुल व्यय, परिव्यय, ख़र्चे

मसावात = (مساوات) बराबरी, समानता, ऊँच नीच रहित

मसील = (مثیل) हम शक्ल, मिलता जुलता, यकसां

मसीहा = (مسیحا) उपचारक, डाक्टर, रोग मुक्त करने वाला, मरीज़ों को अच्छा करने वाला

मसनवी = (مثنوی) उर्दू कविता का एक रूप जिस में कहानी क़िस्से रचे जाते हैं

मसऊद = (مسعود) अच्छे शगुन वाला, भाग्यवान

मस्ख़ = (مسخ) विकृत, विरूपण, कुचल कर शक्ल बिगड़ जाना, विकृति

मसख़रा = (مسخرہ) हास्य कलाकार, कामेडियन, विदूषक, जोकर

मस्त = (مست) नशे में चूर, मतवाला, कामुक

मस्ताना = (مستانہ) बे फ़िक्रा, मदमस्त, मतवाला, किसी जूनून का शिकार

मस्तानी = (مستانی) मद भरी औरत, कामुक महिला, दीवानी, बावली, बेफ़िक्र

मस्तूर = (مستور) छुपा हुआ, पंक्तियों में उल्लेखित, लिखा गया

मस्तूरात = (مستورات) पर्देदार

महिलाऐं , बुर्क़ा पहनने वाली औरतें

मस्दूद = (مسدود) अवरुद्ध, बंद किया गया, रुका हुआ

मसनद = (مسند) आसन, गद्दी

मसनूई = (مصنوعی) नक़ली, कृत्रिम

मसरफ़ = (مصرف) ख़र्च करने की जगह, ख़र्च करने का अवसर, किस उपयोग का

मसरूफ़ = (مصروف) व्यस्त, काम में लगा हुआ, बिज़ी

मसरूर = (مسرور) आनंदित, अति प्रसन्न, हर्ष और उल्लास में डूबे

मसर्रत = (مسرّت) आनन्द, ख़ुशी, हर्ष, उल्लास

मसल = (مثل) कहावत, मुहावरा

मसलूब = (مصلوب) फांसी पर चढ़ाया गया व्यक्ति

मसलक = (مسلک) पंथ, वर्ग, रास्ता, ग्रुप

मसलन = (مثلاً) अर्थात, जैसे कि, जिस प्रकार, उदाहरण स्वरूप

मसलहत = (مصلحت) समयानुसार नीति, पॉलिसी, स्वार्थ देख कर निर्णय करना

मसअला = (مسئلہ) समस्या, मुद्दा

महासिल = (محاصل) जो कुछ प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्ति, नफ़ा, सूद

महारत = (مہارت) कौशल, विशेषज्ञता

महक = (مہک) सुगंध, ख़ुशबू, मीठी बास

महकमा = (محکمہ) विभाग, डिपार्टमेंट

महकूम = (محکوم) शासित, अधीन, अधीनस्थ, जिस पर हुक्म चलाया जाए

महज़ = (محض) केवल, मात्र, बस, सिर्फ़, खरा, शुद्ध

महताब = (مہتاب) चाँद , माहताब शब्द का छोटा रूप

महद = (مہد) शिशु का पालना, हिंडोला, झूला

महदी = (مہدی) मार्ग दर्शक, अगुवाई करने वाला, शिया वर्ग के अंतिम इमाम का नाम

महबूब = (محبوب) प्रियतम, प्रिय, प्यारा, चहीता, दोस्त, दिल पसंद

महफ़िल = (محفل) सभा, संगोष्ठी, जश्न, ख़ुशी का आयोजन

महफ़ूज़ = (محفوظ) सुरक्षित, बचा हुआ, रखा हुआ

महबूबा = (محبوبہ) प्रेमिका, जिस लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा हो

महबूस = (محبوس) बंदी, बंधवा, क़ैदी

महमिल = (محمل) ऊँट पर रखा जाने वाला पर्दे लगा हौदा

महमूद = (محمود) प्रशंसा का पात्र
महरम = (محرم) परिवार के वह सदस्य जिनका आपस में शादी करना प्रतिबंधित है
महरूम = (محروم) वंचित, नाकाम रहना, अभागा, न पा सकने वाला
महल = (محل) राज निवास, भव्य मकान, अमीरों का गृह, अवसर, समय, वक़्त
महल्ला = (محلّہ) मोहल्ला, इंसानों की कोई बस्ती, आदमियों के रहने का स्थान
महसूस = (محسوس) अनुभूति, स्पर्श ज्ञान , प्रतीत, लगना
महसूल = (محصول) चुंगी, टोल टैक्स, डाक खर्च, स्थानीय कर, राजस्व
महव = (محو) मिटाना, खो जाना, गुम रहना, शब्दों को खुरच देना
महवर = (محور) धुरा, कीली, एक्सिस
मा = (ما) ना, नहीं, मत
माअनी = (معنی) अर्थ, मतलब, मायने
मआरिका = (معرکہ) युद्ध स्थल, रणभूमि, यादगार युद्ध, बड़ी जंग
मआल = (مآل) परिणाम, फल, नतीजा, हासिल
माइल = (مائل) आकर्षित, झुकाव रखने वाला
माक़ूल = (معقول) उचित, तर्कसंगत, पर्याप्त
माख़ूज़ = (ماخوذ) वांछित, घटना में शामिल, फंसा हुआ, किसी पुस्तक या आलेख से उदधृत
माजाई = (ماجائی) सगी बहन
माजिद = (ماجد) सम्मानित बुज़ुर्ग
माजून = (معجون) गाढ़ा द्रव्य, यूनानी दवा
माजरा = (ماجرا) घटना, क़िस्सा, बीती, हाल चाल
माज़ी = (ماضی) अतीत, भूतकाल, बीता हुआ युग
माज़ूर = (معذور) अपंग, विकलांग, अक्षम, विवश

माज़ूल = (معزول) अपदस्थ, बर्ख़ास्त, गद्दी से हटाया जाना, सत्ताहीन होना
माज़िरत = (معذرت) खेद व्यक्त करना, किसी से क्षमा याचना
मादा = (مادہ) स्त्रीलिंग, नारी, महिला
माद्दा = (مادّہ) पदार्थ, सामान, सभी वस्तुएं बनाने वाला मसाला

मादर = (مادر) माँ, माता, अम्मां

मादरी ज़बान = (مادری زبان) मातृभाषा

मात = (مات) पराजय, हार, परास्त होना

मातक़द्दुम = (ماتقدّم) पहले से, पूर्व का, एहतियात

मातम = (ماتم) मृत्यु का ग़म मानना, इमाम हुसैन की याद में सिर या सीना पीट कर रोना

मातहत = (ماتحت) अधीनस्थ, सहायक, आधीन, हाथ बटाने वाला

माथा = (ماتھا) मस्तक, कपाल, खोपड़ी, सिर का सामने का हिस्सा

माँ = (ماں) माता, अम्मां, जननी

मानेए = (مانع) मना करने वाला, रोकने वाला, रास्ते का रोड़ा

मानूस = (مانوس) परिचित, जाना पहचाना, हिला हुआ जानवर

मानना = (ماننا) स्वीकार करना, सहमत होना

मांझी = (مانجھی) खेवय्या, नाव चलाने वाला, मल्लाह

मांद = (ماند) फीका, कुरूप, मद्धम, चमक खो जाना

मांदा = (ماندہ) पीछे छूटा हुआ, थका, बचा हुआ

माबैन = (مابین) बीच में, मध्य, दौरान

मामूं = (ماموں) माँ का भाई

मामूर = (مامور) तैनात, नियुक्त

मामूर = (معمور) भरा हुआ, बंद, ताला लगा हुआ, बसा हुआ

मामूरा = (معمورہ) बस्ती, आबादी, शहर

मामूल = (معمول) दिनचर्या, सामान्य, नियमित

मामूली = (معمولی) साधारण, औसत दर्जे का, छोटा सा

माशा अल्लाह = (ماشاءاللہ) अल्लाह रखे, ख़ुदा चाहे, बुरी नज़र से बचाने का वाक्य

माशूक़ा = (معشوقہ) प्रेमिका, जिस लड़की से मोहब्बत हो गई हो, जिसने दिल मोह लिया हो

मासिवा = (ماسوا) इस के अलावा, इस के अतिरिक्त

मासबक़ = (ماسبق) पहले गुज़र चुका, पिछला, पूर्व उल्लेखित

मासलफ़ = (ماسلف) बीता हुआ, पिछला

मार = (مار) सांप, सर्प, पिटाई, चोट, वार

मारूफ़ = (معروف) सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध, जिसको बहुत लोग जानते हों

मारपीट = (مارپیٹ) लड़ाई झगड़ा,

गुत्थम गुत्था

मार देना = (ماردینا) हत्या करना

मारना = (مارنا) पिटाई करना, दबाना, कूटना

मासूम = (معصوم) पाप से दूर, त्रुटिहीन, निर्दोष, अबोध बच्चे

माल = (مال) धन, दौलत, पूँजी, सामान

माला = (مالا) फूलों, नोटों, मोतियों या रत्नों से बनने वाला हार

मालिश = (مالش) सिर या पूरे शरीर का मसाज, जी मतलाना, उल्टी होने से पहले की बेचैनी

मालियत = (مالیت) कुल मूल्य, क़ीमत, दर

मालिक = (مالک) स्वामी, ईश्वर, ख़ुदा, ओनर

माली = (مالی) बाग़ की देख भाल करने वाला, बाग़बान

मालेख़ूलिया = (مالیخولیا) वहम की बीमारी, एक प्रकार का मानसिक रोग

मालूम = (معلوم) ज्ञात होना, पता होना, जानकारी होना

माह = (ماہ) चाँद, महीना, मास

माहज़र = (ماحضر) उपलब्ध भोजन, जो कुछ पहले से खाने के लिए उपलब्ध हो

माहताब = (ماہتاب) पूरा चाँद

माहिर = (ماہر) विशेषज्ञ, पारखी, कुशल, एक्सपर्ट

माही = (ماہی) मछली

माहीगीर = (ماہی گیر) मछेरा, मछुआरा

माया = (مایہ) पूँजी, कुल जमा, सामान

मायूस = (مایوس) निराश, बेआस, असफल, ना उम्मीद

मिक़दार = (مقدار) मात्रा, (तौल में) दवा, भोजन और जल की मात्रा के लिये प्रयोग होता है

मिज़गां = (مژگاں) पलकें

मिज़ाज = (مزاج) स्वभाव, मनोदशा

मिज़ाह = (مزاح) हास्य, मज़ाक़, व्यंग

मिट्टी = (مٹی) धरती, माटी, देश, पृथ्वी, मौत होना, मृत शरीर

मिन = (من) में, से, पर, ऊपर, मिलता जुलता, साथ

मिंबर = (منبر) लकड़ी का ज़ीना जिस पर उलेमा बैठ कर व्याख्यान देते हैं

मिन्नत = (منّت) चापलूसी, विनती, प्रार्थना, ख़ुशामद

मिर्ज़ा = (مرزا) अमीर बाप का बेटा, मुग़लों को दिया गया उपनाम

मिल्क = (ملک) जागीर, ज़मीन, जायदाद

मिलकियत = (ملکیت) स्वामित्व, ज़मींदारी, इम्लाक पर अधिकार

मिलनसार = (ملنسار) मिलने जुलने का शौक़ीन, अच्छे बर्ताव और नर्म स्वभाव वाला व्यक्ति

मिल्लत = (ملّت) धर्म, मज़हब, दीन

मिसाल = (مثال) उदाहरण, चित्रण

मिसकीन = (مسکین) निर्धन, परेशान हाल, आधीन, कंगाल

मिसमार = (مسمار) ध्वस्त, बर्बाद, गिरा देना, ढा देना

मियाँ = (میاں) पति, सरदार, स्वामी

मियान = (میان) बीच, मध्य, कमर, तलवार का कवर

मियाना = (میانہ) बीच का, मध्य वर्गीय, मंझला, कीली, धुरी

मीआद = (میعاد) अवधि , कार्यकाल, समय सीमा

मीज़ान = (میزان) तराज़ू, तुला राशि, कुल योग, टोटल

मीन = (مین) मछली, राशि का नाम, ऐब, त्रुटी

मीना = (مینا) स्वर्ग, आकाश, रंग बिरंगा शीशा, शराब की बोतल, सुराही, चित्रकारी

मीरासी = (میراثی) गाने बजाने वालों की बिरादरी

मीलाद = (میلاد) जन्म लेना, पैग़म्बर साहब के जन्म दिन पर आयोजित कार्यक्रम

मीनार = (مینار) नूर की जगह, ऊँचा स्तम्भ, मस्जिद के साथ बनने वाला ऊँचा कलश

मीर = (میر) नेतृत्व करने वाला, अफ़सर, चौधरी, सय्यद, सभा का अध्यक्ष

मीरास = (میراث) उत्तराधिकार, विरासत, पुश्तैनी धरोहर

मुआ = (موا) मरा हुआ, निगोड़ा, बेजान

मुआफ़ = (معاف) क्षमा, माफ़, छूट

मुआमिला = (معاملہ) मामला, चक्कर, केस, समस्या

मुआलिजा = (معالجہ) उपचार, इलाज, रोग का निदान

मुअल्लिफ़ = (مؤلّف) लेखक

मुआशरा = (معاشرہ) समाज

मुआसिर = (معاصر) समकालीन, अपने युग का

मुआविज़ा = (معاوضہ) क्षतिपूर्ति,

बदला, पलटा नुक़सान की भरपाई

मुआविन = (معاون) सहयोगी, सहायक, समर्थक, सहभागी

मुआहिदा = (معاہدہ) समझौता, अनुबंध, संधि पर सहमत होना, दो पक्षों के बीच क़रार

मुकाफ़ात = (مکافات) बदला, फिरौती, इन्तिक़ाम

मुकालमा = (مکالمہ) संवाद, बातचीत, वार्तालाप, डायलॉग

मुकद्दर = (مکدّر) नफ़रत भरा, गदला, मैला, उदास, नाराज़

मुकम्मल = (مکمل) पूर्ण, पूरा, कुल, सारा

मुकर्रर = (مکرّر) दोबारा, पुनः, दोहराना, फिर, एक बार और

मुकर्रम = (مکرّم) सम्मानित, सुशोभित, सम्मानीय

मुक़ाबिल = (مقابل) समक्ष, सामने, प्रतिद्वंद्वी, बराबर

मुक़ाबला = (مقابلہ) टकराव, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, युद्ध में आमना सामना

मुक़द्दिमा = (مقدمہ) आगे चलने वाली सैनिक टुकड़ी, पुस्तक की प्रस्तावना

मुक़द्दम = (مقدّم) सर्व प्रथम, पूर्वता, पिछला, पहला, अनिवार्य, आवश्यक

मुक़द्दमा = (مقدّمہ) मामला, दावा, केस, अदालत से इन्साफ माँगना

मुक़द्दर = (مقدّر) भाग्य, पूर्व निर्धारित, क़िस्मत

मुक़द्दस = (مقدّس) पवित्र, पाक

मुक़फ़्फ़ल = (مقفّل) ताला लगाना

मुक़र्रर = (مقرّر) नियुक्त, तैनात, ठहराना, नौकरी देना, तय करना

मुक़र्रिर = (مقرر) वक्ता, भाषण देने वाला, तक़रीर करने वाला

मुख़ातिब = (مخاطب) सम्बोधित करने वाला, भाषण देने वाला, ध्यान देना

मुख़ातब = (مخاطب) जिसको सम्बोधित किया जाए या ध्यान आकर्षित किया जाए

मुख़ालिफ़ = (مخالف) विरोधी, प्रतिद्वंद्वी, विपरीत, विपक्ष

मुख़ालिफ़त = (مخالفت) विरोध, दुश्मनी, ज़िद, विरोध जताना

मुख़ासिमत = (مخاصمت) बैर, दुश्मनी, अदावत

मुख़्तार = (مختار) अधिकृत, जिस के पास अधिकार हो, स्वतंत्र

मुख़्तलिफ़ = (مختلف) विभिन्न, अलग अलग, भिन्न, भांति भांति

मुख़्तसर = (مختصر) लघु, ख़ुलासा, अल्प, कम,थोड़ा

मुख़न्नस = (مخنث) किन्नर, हिजड़ा

मुख़बिर = (مخبر) ख़बर देने वाला, पुलिस का गुप्त सूत्र, जासूस, भेदी

मुख़म्मस = (مخمس) पांच पक्तियों वाला काव्य, पांच कोण वाली वस्तु

मुख़लिस = (مخلص) निष्ठावान, श्रद्धा रखने वाला, गंभीर, बिना गरज़

मुग़ = (مغ) पारसी, ज़ोराष्ट्रन, मजूसी

मुग़ीलाँ = (مغیلاں) कीकर, बबूल, ईरान का एक कांटेदार वृक्ष

मुग़न्निया = (مغنیہ) ग़ायिका

मुग़ल = (مغل) मंगोल, तुर्की के पठान, सादा दिल, सही

मुजामेअत = (مجامعت) संभोग, शारीरिक सम्बन्ध

मुजाविर =(مجاور) पड़ोसी, पुजारी, किसी मज़ार का रक्षक, पवित्र स्थल का सेवक

मुजाहिद = (مجاہد) प्रयासरत, प्रयत्नशील, सेनानी, योद्धा, जिहाद करने वाला

मुजीब = (مجیب) जवाब देने वाला, स्वीकार करने वाला

मुजतहिद = (مجتہد) शीयआ (शिया) वर्ग के धर्मगुरु, सही रास्ता निकालने वाला, प्रयास करने वाला

मुजरा = (مجرا) कटौती, प्रणाम, नमस्कार, नृत्य करना, सुबह या शाम का नाच

मुजरिम = (مجرم) अपराधी, दोषी, आरोपी, पापी

मुजर्रद = (مجرد) अकेला, छड़ा, कुंवारा

मुजल्ल्द = (مجلد) आवरण सहित, आवृत, कवर्ड

मुजस्सम = (مجسم) देहधारी, शरीर धारक, बदन वाला

मुजस्समा = (مجسمہ) प्रतिमा, मूर्ति, बुत, आकृति

मुज़ाफ़ात = (مضافات) उपनगरीय क्षेत्र, आस पास के इलाक़े

मुज़ाहिमत = (مزاحمت) प्रतिरोध, विरोध, रोक टोक, अटकाव

मुज़ायक़ा = (مضائقہ) संकोच, हर्ज, परवाह, तंगी

मुज़तरिब = (مضطرب) असहज, व्याकुल, बेचैन

मुज़बज़ब = (مذبذب) अनिश्चित स्थिति, करें या न करें की उलझन

मुज़महिल = (مضمحل) उदास, कमज़ोर, थका हुआ, सुस्त

मुचलका = (مچلکہ) न्यायलय में लिखित वचन देना, अपनी ज़मानत लेना, बांड भरना

मुतआ = (متعہ) लिव इन रिलेशन शिप, शीयआ (शिया) मुसलमानों में अस्थाई विवाह की प्रथा

मुतअदिद = (متعدّد) कई, अनेक, गिने हु ए एकाधिक

मुतअददी = (متعدّی) हद से बढ़ने वाला, छूत का रोग

मुताख़िर = (متأخّر) बाद में आने वाला

मुताबिक़ = (مطابق) तदानुसार, बराबर, उसके जैसा

मुतारिफ़ = (متعارف) परिचय. प्रसिद्ध, जान पहचान

मुतालिआ = (مطالعہ) अध्ययन, पुस्तकें पढ़ना, जानकारी बढ़ाना

मुताल्लिक़ = (متعلّق) संबंधित, रिश्तेदार, संलग्नक

मुतालिबा = (مطالبہ) मांग, तक़ाज़ा, अपना हक़ तलब करना

मुतासिफ़ = (متأسّف) दु:ख प्रकट करने वाला, क्षमा मांगने वाला

मुतास्सिब = (متعصّب) असहिष्णु, पक्षपाती, धर्मांध, घृणा करने वाला

मुतासिर = (متأثّر) प्रभावित, पीड़ित

मुतीअ = (مطیع) आज्ञाकारी, विनम्र, हु क्ममानने वाला, आधीन

मुतकब्बिर = (متکبّر) घमंडी

मुतकल्लिम = (متکلّم) बोलने वाला, बात करने वाला

मुतजस्सिस = (متجسّس) खोजने वाला, जिज्ञासु, उत्सुक

मुत्तक़ी = (متّقی) अल्लाह से डरने वाला, पाप से बचने वाला

मुत्तफ़िक़ = (متّفق) सहमत

मुतफ़क्किर = (متفکّر) चिंतित, उदास

मुतफ़र्रिक़ात = (متفرّقات) विविध, विभिन्न, अलग अलग, बिखरा हु आ

मुतबादिल = (متبادل) वैकल्पिक, विकल्

मुतबस्सिम = (متبسّم) मुस्कुराने वाला, खिला हु आ

मुतरादिफ़ = (مترادف) पर्याय, बराबर, समकक्ष

मुतर्जिम = (مترجم) अनुवादक

मुतनाज़आ = (متنازع) विवादित, जो चीज़ झगड़े का कारण हो, विवादास्पद

मुतनासिब = (متناسب) आनुपातिक, पौष्टिक

मुतनब्बा =(متنبہ)
चेताया गया, सावधान किया गया

मुतलातिम = (متلاطم) अशांत, थपेड़े मारने वाला

मुतलाशी = (متلاشی) ढूँढने वाला, साधक, खोजकर्ता, चाहने वाला

मुतलक़ = (مطلق) स्वतंत्र, बिलकुल, जो किसी के आधीन न हो

मुतलक़ा = (مطلّقہ) तलाक़ पा चुकी महिला

मुतवाज़ी = (متوازی) समानांतर

मुतवफ़्फ़ी = (متوفّی) मृतक, मरा हुआ, जिसका निधन हो गया

मुतवल्ली = (متولّی) वक़्फ़ प्रापर्टी का इंचार्ज, देखभाल करने वाला, केयर टेकर

मुतरिब = (مطرب) गवय्या, गायक, गाने वाला

मुतमईन = (مطمئن) संतुष्ट, बेफ़िक्र, जिसे कोई चिंता न हो

मुतहर्रिक = (متحرّک) गतिशील, चलती हुई, गतिशील, एनिमेटेड

मुदाख़िलत = (مداخلت) हस्तक्षेप, दख़ल देना, घुसपैठ

मुदारात = (مدارات) स्वागत, सत्कार, आओ भगत

मुद्दआ = (مدّعا) तात्पर्य, मतलब, अर्थ, प्रयोजन, दिल की इच्छा

मुद्दई = (مدّعی) दावा करने वाला, फ़रियादी, न्याय मांगने वाला

मुद्दत = (مدّت) अवधि, कार्यकाल, काल, देर

मुदब्बिर = (مدبّر) चिंतनशील, समस्याओं को हल करने वाला विशेषज्ञ, सलाहकार

मुदरिक = (مدرک) बुद्धिमान, समझने वाला

मुदर्रिस = (مدرّس) शिक्षक, उस्ताद, पढ़ाने वाला

मुदल्लल = (مدلّل) तर्कसंगत, तार्किक, दलील के साथ

मुनाजात = (مناجات) काना फूसी, ईश्वर से प्रार्थना, वह काव्य जिसमें दुआ मांगी जाए

मुनाज़िरा = (مناظرہ) तकरार, तर्क वितर्क, बहस, परिचर्चा

मुनाफ़ा = (منافع) लाभ, फ़ायदा

मुनाफ़िरत = (منافرت) घृणा, साम्प्रदायिकता, द्वेष, नफ़रत

मुनाफ़िक़ = (منافق) पाखंडी, दोहरे चरित्र वाला जिसके दिल में कुछ और जुबान पर कुछ

मुनादी = (منادی) घोषणा करने वाला, प्रचार कर्ता, ढिंढोरची

मुनासिब = (مناسب) उचित, उपयुक्त, अनुकूल, ठीक

मुनकर = (منکر) ख़राब, बुरा,

घिनौना, घृणित

मुनकिर = (منکر) इंकार करने वाला, मुकर जाने वाला, रद्द करने वाला, काफ़िर

मुनकशिफ़ = (منکشف) खुलने वाला, खुला हुआ, प्रकट

मुनक़्क़िद = (منعقد) आयोजित

मुनक़ता = (منقطع) ख़त्म किया गया, विच्छेद, काट देना

मुनक़लिब = (منقلب) पलटने वाला, औंधा, उलटने वाला

मुनज्जिम = (منجم) ज्योतिषी, नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाला, तारों की चाल बताने वाला

मुन्जमिद = (منجمد) ठंड से जमा हुआ

मुन्दर्जा = (مندرجہ) लिखा हुआ, लिखित

मुनज़्ज़म = (منظم) संगठित, सुनियोजित

मुन्तक़िल = (منتقل) स्थानांतरित, एक जगह से दूसरी जगह जाना, घर बदलना

मुन्तक़िम = (منتقم) बदला लेने वाला, प्रतिशोध का अधिकार रखने वाला

मुन्तख़ब = (منتخب) चयनित, चुना हुआ, चुनाव जीतने वाला

मुन्तज़िम = (منتظم) प्रबन्धक, प्रशासक, व्यवस्थापक

मुन्तज़र = (منتظر) जिस की प्रतीक्षा की जा रही हो, जिस के आने की आशा हो

मुन्तज़िर = (منتظر) प्रतीक्षार्थी, इन्तिज़ार करने वाला

मुन्तशिर = (منتشر) बिखरा हुआ, छितरा हुआ, फैला हुआ, तितर बितर

मुन्दमिल = (مندمل) भरता हुआ घाव, ठीक होता हुआ ज़ख़्म

मुंशी = (منشی) आरम्भ करने वाला, लिखने वाला, सचिव

मुंसिफ़ = (منصف) न्याय करने वाला, न्यायप्रिय, दीवानी अदालत का मजिस्ट्रेट

मुंसलिक = (منسلک) नत्थी किया हुआ, पिरोया हुआ

मुंह = (منہ) मुख, चेहरा

मुनहदिम = (منہدم) गिरना, ध्वस्त होना, ढह जाना

मुनहरिफ़ = (منحرف) भटका हुआ, विकृत व्यवहार करने वाला, विद्रोही, बाग़ी

मुनहमिक = (منہمک) व्यस्त, एकाग्रता से काम करना

मुन्हसिर = (منحصر) निर्भर

मुब्तिला = (مبتلا) पीड़ित, ग्रस्त, घिरा हुआ

मुबादा = (مبادا) ऐसा न हो, ख़ुदा न करे

मुबादी = (مبادی) वास्तविक, आधार, आरम्भ

मुबादला = (مبادل) विनिमय, आदान प्रदान, उल्टा पुल्टा

मुबारक = (مبارک) शुभ, भाग्यवान, मंगलमय

मुबालग़ा = (مبالغہ) अतिशयोक्ति, बात बढ़ा चढ़ा कर करना, वास्तविकता से परे

मुबाशरत = (مباشرت) संभोग, शारीरिक सम्बन्ध

मुबाह = (مباح) उचित, जायज़, पवित्र

मुबाहिसा = (مباحثہ) वाद विवाद, परिचर्चा, बहस

मुबीन = (مبین) स्पष्ट, खुला हुआ, प्रकट, रौशन, बयान किया हुआ

मुबर्रा = (مبرا) दोष मुक्त, निर्दोष, आज़ाद

मुबश्शिर = (مبشر) ख़ुशख़बरी देने वाला, अच्छी बात की भविष्य वाणी करने वाला

मुबस्सिर = (مبصر) देखने वाला, समीक्षक, दृष्टि वाला, टिप्पणी कार

मुब्लिग़ = (مبلغ) कुल रक़म, सोने की मात्रा, रुपयों की संख्या

मुबल्लिग़ = (مبلغ) प्रचारक, उपदेशक, मिशनरी

मुबहम = (مبہم) अस्पष्ट, गोल मोल, जिस का अर्थ साफ़ समझ में न आये, भ्रमित

मुबय्यना = (مبینہ) कथित, तथाकथित

मुफ़ाजात = (مفاجات) अचानक, यकायक, असामयिक, बेवक़्त

मुफ़ारिक़त = (مفارقت) जुदाई, बिछड़ना, अलग होना

मुफ़ीद = (مفید) उपयोगी, लाभप्रद, सार्थक

मुफ़्त = (مفت) निशुल्क, बिना मूल्य, फोकट में, फ़्री

मुफ़्ती = (مفتی) धर्म शास्त्री, क़ाज़ी के ऊपर का अधिकारी, फ़तवा देने वाला

मुफ़र्रेह = (مفرّح) ताज़गी देने वाला, शीतल

मुफ़लिस = (مفلس) दरिद्र, निर्धन, ग़रीब, ख़ाली हाथ

मुफ़सिद = (مفسد) उपद्रवी, दंगा करने वाला, झगड़ालू, दंगाई

मुफ़स्सिर = (مفسّر) व्याख्या

करने वाला, टीकाकार

मुमानिअत = (ممانعت) निषेध, निषिद्ध, रोक, प्रतिबंधित, मनाही

मुमकिन = (ممکن) संभव, जो हो सकता हो, आसान, सहल

मुमताज़ = (ممتاز) प्रतिष्ठित, प्रख्यात, अग्रणी, अलग, भिन्न, उत्कृष्ट

मुमतहिन = (ممتحن) परीक्षक, इम्तेहान लेने वाला, जांचने वाला, परखने वाला

मुरक्कब = (مرکب) मिश्रण

मुराक़िबा = (مراقبہ) ध्यान की मुद्रा, आँख बंद कर के कुछ सोचना

मुराजेअत = (مراجعت) वापसी, लौटना, उल्टा फिरना

मुराद = (مراد) मनोकामना, मतलब, इच्छा, मन्नत

मुरासलात = (مراسلات) पत्राचार, चिट्ठी-पत्री, अख़बारों में जनता के पत्रों का कालम

मुरीद = (مرید) भक्त, चेला, किसी से आस्था रखने वाला

मुर्तकिब = (مرتکب) दोषी, अपराधी, मुजरिम, कोई काम अंजाम देने वाला

मुर्ग़ = (مرغ) पक्षी, परिंदा, मुर्ग़ा

मुरत्तब = (مرتب) संकलन, साहित्यिक संग्रह, एकत्रीकरण

मुर्तज़ा = (مرتضیٰ) लोकप्रिय, हज़रत अली का उपनाम

मुर्दा = (مردہ) मृत, देह, निर्जीव, बेजान

मुर्शिद = (مرشد) गुरु, सही मार्ग दिखाने वाला, महंत, सूफ़ी बुज़ुर्ग

मुरस्सअ = (مرصّع) सजा हुआ, रत्नों से सुसज्जित, अच्छा गद्य और पद्य

मुरसल = (مرسل) भेजा हुआ, प्रेषित, पैग़म्बर, अवतार

मुरव्वज = (مروّج) प्रचलित, वर्तमान युग का, चलता हुआ

मुरव्वत = (مروّت) नर्मी बरतना, अच्छा बर्ताव करना, किसी की ग़लती पर चुप रहना

मुलाक़ात = (ملاقات) भेंट, आपस में मिलना जुलना, मेल मिलाप

मुलाज़िम = (ملازم) कर्मचारी, नौकर, सेवक

मुलाहज़ा = (ملاحظہ) देखना, ग़ौर करना, ध्यान देना

मुल्क = (ملک) देश, राज्य, गणराज्य

मुल्तमिस = (ملتمس) निवेदक, आग्रह करने वाला, अर्ज़ी देने वाला

मुल्तवी = (ملتوی) स्थगित,किसी अन्य तिथि के लिए आगे बढ़ाना, टालना

मुलम्मअ = (ملمّع) चांदी पर सोने की पालिश, अन्य धातुओं पर चांदी की पालिश

मुल्ला = (ملّا) मस्जिद का इमाम, बच्चों को पढ़ाने वाला, अच्छा लिखने वाला

मुलहिक़ = (ملحق) संबद्ध, लगा हुआ, सटा हुआ, जुड़ा हुआ, निकट

मुलहिद = (ملحد) मज़हब से भटक जाने वाला, नास्तिक, अधर्मी

मुशाएरा = (مشاعرہ) कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी, शाएरों की सभा

मुशाबेह = (مشابہ) हम शक्ल, मिलता जुलता, एक जैसा, रंग रूप में समानता

मुशावरत = (مشاورت) परामर्श, मन्त्रणा, राय लेना, पंचायत, सलाह लेना

मुशाहिरा = (مشاہرہ) वेतन

मुशीर = (مشیر) सलाहकार, परामर्शदाता

मुश्क = (مشک) कस्तूरी

मुश्किल = (مشکل) कठिनाई, कष्ट, संकट, विपदा

मुश्किलकुशा = (مشکل کشا) कष्ट में मदद करने वाला, संकट मोचन, हज़रत अली का उपनाम

मुश्कें = (مشکیں) दोनों बाज़ू, दोनों बाहें

मुश्त = (مشت) मुट्ठी

मुश्ताक़ = (مشتاق) अभिलाषी, उत्सुक, इच्छुक

मुशतएल = (مشتعل) उग्र, आक्रोशित, उत्तेजित, उकसाया हुआ, भड़का हुआ

मुश्तबा = (مشتبہ) संदिग्ध, जिस पर शक हो

मुश्तरक = (مشترک) साझे का, मिला जुला, संयुक्त

मुशतमिल = (مشتمل) युक्त, आधारित, शामिल

मुश्तहिर = (مشتہر) विज्ञापन द्वारा प्रसारित व प्रचारित, मशहूर किया गया

मुश्फ़िक़ = (مشفق) कृपा करने वाला, प्यार देने वाला, दयालु

मुशरिक = (مشرک) किसी को अल्लाह का समकक्ष मानने वाला, बहुदेववादी

मुशर्रफ़ = (مشرّف) जिस को सौभाग्य मिला हो, जिस को

सम्मानित किया गया हो

मुसाफ़िर = (مسافر) यात्री, परदेसी

मुसाफ़िहा = (مصافحہ) हाथ मिलाना

मुसालिहत = (مصالحت) संधि, सुलह, मेल-मिलाप

मुसाहिब = (مصاحب) साथी संगी, मित्र, सहायक

मुसीबत = (مصیبت) विपदा, परेशानी, संकट

मुसतएद = (مستعد) तैयार, तत्पर जागरूक, चालाक, होशियार

मुस्तअफ़ी = (مستعفی) त्याग पत्र देने वाला

मुसतक़िल = (مستقل) स्थाई, नियमित, निरंतर, लगातार

मुसतक़ीम = (مستقیم) सीधा, प्रत्यक्ष, स्पष्ट

मुसतक़र = (مستقر) अड्डा, ठहरने का स्थान, ठिकाना

मुसतजाब = (مستجاب) स्वीकार होना, क़ुबूल होना

मुस्तफ़ा = (مصطفیٰ) बुराइयों से दूर, लोकप्रिय, चयनित, हज़रत मोहम्मद का एक उपनाम

मुसतक़बिल = (مستقبل) भविष्य, आने वाला समय

मुसतसना = (مستثنیٰ) मुक्त, छूट, अपवाद

मुसतहकम = (مستحکم) मज़बूत, स्थिर, अटूट

मुसतहक़ = (مستحق) पात्र, अधिकारी, हक़दार, लायक़

मुसतहब = (مستحب) पसंद किया जाने वाला कार्य, प्रशंसनीय काम

मुसतहसन = (مستحسن) पसंदीदा कार्य, नेक काम

मुसद्दस = (مسدس) छः कोरों वाला, शायरी में 6 पक्तियों वाला काव्य

मुसद्दिक़ा = (مصدّقہ) प्रमाणित, सत्यापित

मुसबत = (مثبت) सकारात्मक

मुस्लिम = (مسلم) मुसलमान, इस्लाम धर्म पर चलने वाला

मुसल्लत = (مسلّط) थोपा हुआ, ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करने वाला

मुसल्लम = (مسلم) पूरा, समूचा, सब, सारा, सिद्ध हो चुका, स्वीकार किया गया

मुसल्लस = (مثلّث) त्रिकोण, त्रिभुज

मुसल्लह = (مسلّح) हथियार बंद, सशस्त्र, हथियारों से लैस

मुसलसल = (مسلسل) निरंतर, लगातार, सतत

मुसन्निफ़ = (مصنّف) लेखक, लिखने वाला, राईटर

मुसव्वदा = (مسوّدہ) मसौदा, प्रारूपण, ड्राफ्ट, निबंध की लिखित प्रति, ख़ाका

मुसव्विर = (مصوّر) चित्रकार, कलाकार, तस्वीर बनाने वाला

मुहाजिर = (مہاجر) आप्रवासी, प्रवासी नागरिक, शरणार्थी, विदेश से आकर बसने वाला

मुहाल = (محال) कठिन, असंभव, मुश्किल

मुहासिबा = (محاسبہ) जवाबदेही, हिसाब किताब, गणना

मुहासिरा = (محاصرہ) घेराबंदी, घेरा डालना, चारों ओर दुश्मन की सेना होना

मुहावरा = (محاورہ) कहावत, बोल-चाल, लोकोक्ति, जनप्रवाद, रोज़ाना बोली जाने वाली भाषा

मुहिम = (مہم) अभियान

मुहीत = (محیط) छाया हुआ, फैला हुआ, घेरा, गोल चक्कर

मुवाख़ज़ा = (مواخذہ) महाभियोग, दोषारोपण, निंदा प्रस्ताव

मुवाज़ना = (موازنہ) तुलना, बराबरी, अंदाजा लगाना

मुवक्किल = (موکّل) पक्षकार, किसी को अपना वकील बनानेवाला

मुवज़्ज़िन = (موذّن) अज़ान देने वाला

मुवददत = (مودّت) प्रेम, मित्रता, मोहब्बत

मुवर्रिख़ = (مورّخ) इतिहासकार

मुवल्लिद = (مولّد) जन्म भूमि, पैदा होने का स्थान

मुवल्लद = (مولّد) नव जात शिशु, पैदा होने वाला

मुवाफ़िक़ = (موافق) अनुकूल, अनुसार, मेल खाता हुआ

मुवासलात = (مواصلات) संचार, संप्रेषण, कम्युनिकेशन

मू = (مو) बाल, केश

मूजिब = (موجب) सबब, कारण, अनुसार

मूज़ी = (موذی) दुःख देने वाला, कंजूस, कष्ट पहुँचानेवाला

मूनिस = (مونس) एकांत में मित्रता निभाने वाला, सुख देने वाला, साथी, दोस्त, यार

मूबाफ़ = (موباف) बालों में बाँधा जाने वाला रिबन, या नक़ली चोटी

मूरिस = (مورث) पूर्वज, पुरखे

मूशिगाफ़ = (موشگاف) बाल की खाल निकालने वाला

मूसल = (موصل) अन्नाज कूटने वाला पत्थर

मूसलाधार = (موسلا دھار) लगातार होने वाली वर्षा

मूसीक़ार = (موسیقار) संगीतकार, संगीत निर्देशक

मूसीक़ी = (موسیقی) संगीत, राग विद्या

मेख़ = (میخ) कील, सरिया का टुकड़ा, खूँटी

मेज़बानी = (میزبانی) मेहमानदारी, अतिथि सत्कार, किसी कार्यक्रम का आयोजन करना

मेराज = (معراج) सीढ़ी, ज़ीना, ऊपर चढ़ने का माध्यम, पैग़म्बर साहिब की आकाशीय यात्रा

मेल = (میل) झुकाव, सम्पर्क, मिलाप, दोबारा दोस्ती होना, मिलावट, जोड़ी

मेंह = (مینہ) वर्षा, बारिश

मेहनत = (محنت) श्रम, शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम

मेहमान = (مہمان) अतिथि, गेस्ट

मेहर = (مہر) शादी के समय मुस्लिम लड़की को लड़के की ओर से मिलने वाला धन

मेहराब = (محراب) मस्जिद में बना आर्क जहाँ नमाज़ के समय धर्म गुरु खड़ा होता है

मेहरबानी = (مہربانی) कृपा, ध्यान देना, ख़याल करना, अच्छा बर्ताव करना

मेयार = (معیار) गुणवत्ता, मानक, कसौटी

मेवा = (میوہ) फल, फ्रूट

मैकदा = (میکدہ) शराब ख़ाना, दारू का अड्डा, बार

मैमून = (میمون) भाग्यवान, मुबारक, शुभ, बन्दर, लंगूर

मैमना = (میمنہ) सेना का दायाँ अंग, दाहिनी ओर

मैल = (میل) गंदगी, कीच, ज़ंग, किसी से दिल साफ़ न होना

मोअत्तल = (معطل) निलंबित, सस्पेंड, ठप

मोअन्नस = (مونّث)स्त्रीलिंग, महिला, मादा

मोअम्मा = (معمّہ)पहेली, रहस्य, भेद

मोअयन = (معیّن) निर्धारित, नियुक्त

मोअल्लिम = (معلّم)शिक्षक, गुरू, उपदेशक, इल्म सिखाने वाला

मोअद्देबाना = (مودّبانہ) शालीनता के साथ, सम्मान सहित, पूरे संस्कार से

मोईन = (معین) सहायक, मदद करने वाला

मोतादिल = (معتدل) सामान्य, ना धीमा न तेज़, ना ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म

मोतरिज़ = (معترض) आलोचक, कीड़े निकालने वाला, रोक टोक करने वाला

मोदी = (مودی) अनाज का व्यापारी, बनिया, परचून की दुकान वाला

मोल = (مول) मूल्य, भाव, क़ीमत, दाम

मोमिन = (مومن) ईमान दार मुसलमान, कपड़ा बुनने वाले लोग

मोहकम = (محکم) दृढ़, ठोस, मज़बूत, अटल

मोहूम = (موہوم) काल्पनिक, फ़र्ज़ी, वास्तविकता से परे

मोहक़्क़िक़ = (محقّق शोधकर्ता, अन्वेषक, अनुसंधानकर्ता

मोहज़्ज़ब = (مہذب) सभ्य, संस्कारी, शिष्टाचारी

मोहताज = (محتاج) दरिद्र, कंगाल, ज़रूरतमंद, इच्छुक, जिस के पास कुछ न हो

मोहतात = (محتاط) सतर्क, सावधान, बहु तसोच कर निर्णय लेने वाला

मोहतमिम = (مہتمم) प्रबन्धक , इन्तिज़ाम करने वाला, मैनेजर

मोहतरम = (محترم) माननीय, आदरणीय, महोदय, सम्मान के लायक़

मोहतरमा = (محترمہ) सुश्री, मैडम, सम्मानित महिला,

मोहतसिब = (محتسب) लोकपाल, हिसाब मांगने वाला, अकाउंटेंट

मोहब्बत = (محبت) प्रेम, प्रीत, प्यार, इश्क़, चाहत (मुहब्बत)

मोहम्मद = (محمد) सबसे अधिक प्रशंसा का पात्र, पैग़म्बर साहब का नाम (मुहम्मद)

मोहमल = (مہمل) बेकार, निकम्मा, व्यर्थ, अर्थ हीन

मोहरी = (مہری) नाली, पैंट या पायजामे का निचला हिस्सा

मोहर्रिक = (محرک) प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहित करने वाला

मोहर्रम =(محرم) इस्लामी वर्ष का पहला माह जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुएथे (मुहर्रम)

मोहलिक = (مہلک) मार डालने

वाला, हानि पहुँचाने वाला, जान लेवा, घातक

मोहलत = (مہلت) समय बढ़ाना, अवधि में छूट, ढील देना, छुट्टी

मौक़ा = (موقع) अवसर, कोई विशेष स्थान, उपयुक्त समय

मौक़ूफ़ = (موقوف) निरस्त, निलंबित, नौकरी से निकाला गया, केन्द्रित, रोका गया

मौज = (موج) लहर, तरंग, जोश, मस्ती, बहुतायत

मौजूद = (موجود) उपस्थित, निहित, अस्तित्व

मौज़ू = (موضوع) विषय, मुद्दा, प्रसंग, टॉपिक

मौज़ूं = (موزوں) उपयुक्त, अनुरूप, अनुकूल, मीटर में लिखा गया काव्य

मौत = (موت) मृत्यु, देहांत, जीवन समाप्त होना

मौला = (مولا) स्वामी, मालिक, बादशाह, मदद करने वाला, इश्वर, इमाम, मित्र,

मौलवी = (مولوی) धर्म का जानकार, मदरसा बोर्ड में 12 वीं कक्षा के समकक्ष

मौसम = (موسم) ऋतु, फ़स्ल, सीज़न

मौसूल = (موصول) प्राप्त हुआ

मौसूफ़ = (موصوف) प्रशंसा का पात्र, महोदय, जिस की तारीफ़ की जाए

य (ی،ے)

यक = (یک) अकेला, एक

यकायक = (یکایک) अचानक, चेतावनी के बिना

यकता = (یکتا) लाजवाब, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, ईश्वर

यक़ीन = (یقین) विश्वास, आश्वासन, निसंदेह, भरोसा

यख़ = (یخ) बर्फ़, ठंड से जमा हुआ जल, आईस

यगाना = (یگانہ) सगा, क़रीबी रिश्तेदार, अकेला, एकमात्र

यगानगत = (یگانگت) रिश्तेदारी, एकता, एकरूपता

यज़ीद = (یزید) इमाम हुसैन की हत्या कराने वाला सीरिया का शासक

यज़ीदियत = (یزیدیت) निर्मम हत्यारों के समूह के लिए प्रयोग होने वाला शब्द

यज़ीदी = (یزیدی) इराक़ में

प्रचलित एक धर्म जिसका असली नाम ऐज़दी है

यज़दां = (یزداں) पारसी धर्म में ख़ुदा का एक नाम

यतीम = (یتیم) अनाथ, जिस बच्चे का पिता मर जाए

यद = (ید) हाथ

यरक़ान = (یرقان) पीलिया का रोग, जांडिस

यरग़माल = (یرغمال) बंधक, अपहृत

यलग़ार = (یلغار) हल्ला बोलना, शत्रु की सेना पर टूट पड़ना, धावा

यसरिब = (یثرب) मदीना नगर का पुराना नाम

या = (یا) मदद के लिए आवाज़ देने का शब्द, दो वस्तुओं के बीच चयन का शब्द

याग़ = (یاغ) तेल

याज़ दहु म= (یازدہم) ग्यारह

याद = (یاد) स्मरण, स्मृति, ध्यान

यादगार = (یادگار) स्मारक, निशानी, प्राचीन भवन, स्मृति चिन्ह

याना = (یانا) छोटी उम्र का

यानी = (یعنی) अर्थात, तात्पर्य

याफ़्त = (یافت) प्राप्ति, कमाई, लाभ, पाया हु आ

याब = (یاب) पाने वाला

याबिस = (یابس) सुखाने वाला, शुष्क,

यार = (یار) मित्र, दोस्त, साथी संगी, प्रेमी

यास = (یاس) निराशा, मायूसी, उदासी

यासमीन = (یاسمین) चमेली का फूल

यावर = (یاور) सहायता करने वाला, समर्थक, परेशानी में हाथ थामने वाला

यूरिश = (یورش) चढ़ाई, आक्रमण, हमला

यौम = (یوم) दिन, दिवस, दिनांक

यौमिया = (یومیہ) प्रतिदिन, दैनिक

र (ر)

रईस = (رئیس) धनवान, प्रमुख, अध्यक्ष, मालदार

रऊनत = (رعونت) घमंड, गुरूर

रअद = (رعد) बादल कड़कने की आवाज़, गरज

रअना = (رعنا) सुंदर, मन मोहक चाल वाला, ख़ुशनुमा, नाज़ुक, जवान

रअशा = (رعشہ) कंपन, थरथराहट, पार्किंसन बीमारी, हाथ पैर और सर कांपना

रकअत = (رکعت) झुकाव, नमाज़ का एक भाग

रकाब = (رکاب) घुड़ सवार के लिए घोड़े के दोनो ओर लटका लोहे का पायदान

रक़ाबत = (رقابت) प्रतिद्वंद्विता, विरोध, एक महबूब के दो चाहने वालों की शत्रुता

रक़ीक़ = (رقیق) द्रव्य, पतला, तरल, रस

रक़ीब = (رقیب) प्रतिद्वंद्वी, महबूब को चाहने वाला दूसरा व्यक्ति, प्रतियोगी, दावेदार

रक़्क़ासा = (رقّاصہ) नर्तकी, नृत्यांगना, नाचने वाली

रक़बा = (رقبہ) क्षेत्रफल

रक़म = (رقم) धन, रुपया पैसा, लिखित, लिखा हुआ, कुल योग्य, तहरीर

रक़्स = (رقص) नृत्य, नाच, डांस

रखवाली = (رکھوالی) चौकीदारी, देख भाल

रख़्त = (رخت) सामान, संसाधन, संपत्ति

रख़ना = (رخنہ) रुकावट, अंतराल, खाई, छेद

रख़शां = (رخشاں) चमकीला, रौशन

रग = (رگ) नस

रग़बत = (رغبت) चाव, झुकाव, आकर्षण

रचाना = (رچانا) ख़ुशी मानना, तय करना, आरम्भ करना

रचना = (رچنا) प्रभावित होना, रंग चढ़ना, विवाह का सामान जमा करना

रजअत = (رجعت) वापसी, प्रतिगमन, तलाक़ के बाद उसी औरत से फिर शादी करना

रजाई = (رجائی) आशावान, आशावादी

रजीम = (رجیم) निष्कासित, निकाला हुआ, पत्थर मार कर भगाया हुआ

रजज़ = (رجز) योद्धाओं द्वारा रणभूमि में वीरता और परिवार का दिया जाने वाला काव्य-परिचय

रज़ = (رز) अँगूर

रज़ाई = (رزائی) रूईदार दुलाई, छोटा लिहाफ़

रज़ी = (رضی) पसंदीदा, मन पसंद, ख़ुश करने वाला

रज़ील = (رذیل) कमीना, घटिया व्यक्ति, तुच्छ

रज़्ज़ाक़ = (رزّاق) अन्न दाता

रज़्म = (رزم) युद्ध, लड़ाई, रण, जंग

रत्ती = (رتّی) बहुत कम, पुराने युग का सबसे छोटा बाँट, एक माशे में 8 रत्ती होते हैं

रतूबत = (رطوبت) तरी, नमी, सीलन, बलग़म, थूक

रद्द = (ردّ) अस्वीकार, ठुकराना, निरस्त, ख़ारिज, रद

रद्द-ए-अमल = (ردّعمل) प्रतिक्रिया, रिएक्शन

रद्द-ओ-बदल = (ردّوبدل) फेर बदल, परिवर्तन

रदीफ़ = (ردیف) ऊँट, घोड़े पर पीछे बैठी सवारी, शेर के वह अंतिम शब्द जो बदलते नहीं

रंगीला = (رنگیلا) रंगीन मिज़ाज, बांका, सजीला, ज़िन्दा दिल

रंज = (رنج) दुःख, खेद, पछतावा

रंजिश = (رنجش) बिगाड़, अन-बन, कलह, दुश्मनी

रंजीदा = (رنجیدہ) दुखी, शोकाकुल, उदास

रन्डी = (رنڈی) वेश्या, देह व्यापार करने वाली महिला, नर्तकी

रफ़ा = (رفع) दूर करना, हटाना, निकालना

रफ़ाक़त = (رفاقت) साथ, दोस्ती, हमरही, साथ चलना

रफ़ीक़ = (رفیق) मित्र, साथ देने वाला, हमराही, साझेदार, साथी

रफ़्त = (رفت) गया

रफ़्ता = (رفتہ) गुज़रा हुआ, बीता हुआ, खोया हुआ, मरा हुआ

रफ़्तगाँ = (رفتگاں) वह लोग जो गुज़र गए , जो मर चुके

रफ़्तार = (رفتار) गति,चाल, चलन, स्पीड

रफ़्ता रफ़्ता = (رفتہ رفتہ) धीरे-धीरे, होले-होले, आहिस्ता-आहिस्ता, चलते-चलते, होते-होते

रफ़ू = (رفو) फटे कपड़ों की मरम्मत करना

रफ़ू चक्कर = (رفوچکّر) भाग जाना, ग़ायब हो जाना

रमी = (رمی) कोई चीज़ फेंकना

रमीदा = (رمیدہ) भागा हु आ, वहशी

रमक़ = (رمق) थोड़ी सी जान, रही सही ज़िन्दगी, ज़रा सा

रम्ज़ = (رمز) आँखों, भंवों या होंटों का इशारा, भेद, रहस्य, गोपनीय, इशारा

रमज़ान = (رمضان) रोज़े रखने का पवित्र महीना, पापों को जलाने वाला

रमल = (رمل) अदृश्य बातों को जानने का ज्ञान

रम्माल = (رمّال) तांत्रिक, ज्योतिषी, अदृश्य चीज़ों के बारे में बताने वाला

रब्ब = (رب) पालनहार, ईश्वर, स्वामी, मालिक

रब्त = (ربط) संपर्क, लगाओ, मेल जोल, लिंक

रलियां = (رلیاں) ख़ुशी, गुल छर्रे उड़ाना (यह शब्द ऐश करने लिए प्रयोग होता है)

रशीद = (رشید) निर्देशित, सीधा रास्ता पा जाने वाला, जिसका पथ प्रदर्शन किया गया हो

रश्क = (رشک) ईर्ष्या, दूसरे की चीज़ देख कर दुखी होना

रसाई = (رسائی) पहु ंच, पैठ, धीरज,

रसीद = (رسید) पावती, प्राप्ति की पर्ची, पहु ंचना

रसीदा = (رسیدہ) पहु ंचा हु आ व्यक्ति, बुज़ुर्ग, पक्का फल

रस्तगारी = (رستگاری) छूट, निजात, रिहाई

रस्ता = (رستہ) पथ, मार्ग, रास्ता

रसद = (رسد) आपूर्ति, भोजन, सेना के पास मौजूद खान पान का स्टाक

रसद = (رصد) अवलोकन

रसद गाह = (رصدگاہ) मौसम और सितारों का अवलोकन करने वाला केंद्र

रस्म = (رسم) प्रथा, प्रचलन, परिपाटी, अनुष्ठान

रहा सहा = (رہا سہا) बचा खुचा, हामी, सहायक

रहीने मिन्नत = (رہین منت) आभारी होना, किसी का उपकार मानना, कृतज्ञ होना

रहल = (رحل) मसकन, मंज़िल, ऊंट की काठी (पालन)

रहम = (رحم) दया, कृपा

रहमान = (رحمان) कृपालु, दयावान, परोपकारी

रहमत = (رحمت) मेहरबानी, कृपा, करम

रवा = (روا) प्रचलित, उचित, सूजी

रवादारी = (رواداری) सहिष्णुता, सब धर्मों का सम्मान करना, पक्षपात रहित

रवां = (رواں) जारी, बहता हुआ, चालू

रवानी = (روانی) बहाओ, धारा-प्रवाह

रवानगी = (روانگی) प्रस्थान

रविश = (روش) ढंग, तौर, तरीक़ा, चाल चलन, प्रथा,पैदल चलने के लिये बना रास्ता

रवय्या = (رویہ) बर्ताव, चाल चलन, सुलूक, ढंग

राएज = (رائج) प्रचलित, जारी किया गया, संविधान के अनुसार, आम

राकिब = (راکب) सवार, जानवर या जहाज़ पर बैठ कर यात्रा करने वाला

राक़िम = (راقم) लेखक, लिखने वाला

राग़िब = (راغب) आकर्षित, झुकाव, इच्छुक, चाव दिखाना

राज = (راج) राज्य, देश, बादशाही, सरकार

राज़ = (راز) रहस्य, गुप्त बात, भेद

राज़िक़ = (رازق) पालनहार, भोजन देने वाला

राज़ी = (راضی) सम्मत, सहमत, सही मान लेना, कोई काम करने की हामी भर लेना

राड़ = (راڑ) रार , झगड़ा, लड़ाई, बच्चों की हट

रातिब = (راتب) पालतू जानवरों को दिया जाने वाला खाना, प्रतिदिन उपयोग का सामान

राँदा = (راندہ) निष्कासित, निकाला हुआ, धुतकारा हुआ

राशिद = (راشد) निर्देशित, जिस का पथप्रदर्शन किया गया हो

रास = (راس) अनुकूल, फलना फूलना, मुबारक, भला होना

रास्त = (راست) दायाँ, सीधा, सच, सही, ठीक

रास्ता = (راستہ) मार्ग, पथ

रासिख़ = (راسخ) सुदृढ़, पक्का, अटल, मज़बूत विश्वास वाला, कट्टर

रावल = (راول) अफ़सर, शक्तिमान, सरदार, सिपाही

रावी = (راوی) किसी घटना का विवरण देने वाला, संवाददाता

राह = (راہ) रास्ता, मार्ग, पथ

राहिल = (راحل) प्रस्थान करने वाला, यात्री

राही = (راہی) यात्री, मुसाफ़िर, राहगीर

राहनुमा = (راہنما) मार्ग दर्शक, नेता, नेतृत्व करने वाला, रहबर
राय = (رائے) प्रस्ताव, विचार, मत
रायगाँ = (رائگاں) व्यर्थ जाना, बेकार, निष्फल, निरर्थक
रायदेहन्दा = (رائےدہندہ) वोटर, मतदाता
रिआया = (رعایا) प्रजा, रियाया
रिक़्क़त = (رقت) रोना, आंसू बहाना, किसी पर तरस खाना, दिल भर आना
रिजाल = (رجال) पुरुष
रिज़ा = (رضا) मर्ज़ी, ख़ुशी, अनुमति
रिज़्क़ = (رزق) जीविका, भोजन, खाना
रिज़ामंदी = (رضا مندی) सहमति, इच्छा, रज़ामंदी
रिज़ाकार = (رضاکار) स्वयंसेवी, स्वैच्छिक कार्यकर्ता, रज़ाकार
रिज़वान = (رضوان) स्वर्ग, बरकत, स्वर्ग के दरबान का नाम
रिझाना = (رجھانا) आकर्षित करना, लुभाना, अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना
रिंद = (رند) आज़ाद, स्वतंत्र, शराबी, दारुबाज़, होशियार चालाक
रिफ़अत = (رفعت) ऊंचाई, शीर्ष, उन्नति, रुतबा ऊँचा होना, बुलंदी
रिफ़ाह = (رفاہ) धर्मार्थ, परोपकार, जन कल्याण वाले कार्य
रिबा = (ربا) ब्याज, सूद
रिश्ता = (رشتہ) संबंध, नाता, वास्ता
रिश्वत = (رشوت) घूस, ग़ैर क़ानूनी वसूली, भ्रष्ट तरीक़े से प्राप्त की गई रक़म
रिसालत = (رسالت) ईश्वरीय संदेश वाहक, पैग़ंबरी
रिसाला = (رسالہ) पत्रिका, पुस्तिका, घुड़सवार सैनिक टुकड़ी
रियाअत = (رعایت) छूट, कमी, नर्मी, मेहरबानी, अपवाद, डिस्काउंट
रिवायत = (روایت) परंपरा, वर्णन, विवरण, रिपोर्ट
रिहा = (رہا) छूटना, आज़ाद होना
रिहाई = (رہائی) मुक्ति, बंदी गृह से बाहर आना, छुटकारा
रिहाइश = (رہائش) आवास, निवास, घर, मकान
रीश = (ریش) दाढ़ी
रुक्न = (رکن) सदस्य, कार्यकर्ता, खम्बा, आवश्यक हिस्सा, बाहरी भाग
रुक़आ = (رقعہ) पुर्ज़ा शादी का लिखित प्रस्ताव, काग़ज़ का

टुकड़ा, निमन्त्रण पत्र

रुख़ = (رخ) मुख, गाल, तरफ़, ओर, दिशा

रुख़सार = (رخسار) गाल

रुख़सत = (رخصت) विदाई, छुट्टी, रवानगी

रुजूअ/रोजुअ = (رجوع) सम्पर्क साधना, वापस होना, दोबारा मिलाप, अदालत से न्याय मांगना

रुजहान = (رجحان) प्रवृत्ति, रुचि, झुकाव

रुतब = (رطب) ताज़ा खजूर

रुबाई = (رباعی) काव्य की एक शैली जिस में चार पक्तियों में बात पूरी हो जाती है

रुलाना = (رلانا) किसी को सताना, रोने पर मजबूर करना

रुशद = (رشد) मार्गदर्शन, पथ-प्रदर्शन, होश संभालना

रुसूख़ = (رسوخ) पहुंच अधिकारीयों से सम्बन्ध, राजनीतिज्ञों से रिश्ते

रुसवाई = (رسوائی) कुख्याति, कलंकित होना, बदनामी

रू = (رو) चेहरा, मुखड़ा, सामना, कारण

रूइदगी = (روئیدگی) उगना, वनस्पति का बढ़ना हरियाली

रूई = (روئی) कपास

रूकश = (روکش) प्रतिदवंदवी, विरोधी

रूखा = (روکھا) फीका, सूखा, नीरस, खुरदरा, निर्मम, निर्दयी

रूगर्दां = (روگرداں) मुंह फेरने वाला, नाराज़, रूठा हुआ, भटका हुआ

रूद = (رود) दरिया, नदी, नहर

रूदाद = (روداد) व्यथा, विवरण, दास्तान, रिपोर्ट

रूनुमा = (رونما) प्रकट होना, घटित

रूनुमाई = (رونمائی) विमोचन, अनावरण, पहली बार दुल्हन का चेहरा दिखाया जाना

रूबाह = (روباہ) लोमड़ी, बुज़दिल

रूबरू = (روبرو) आमने सामने

रूपोश = (روپوش) छुपा हुआ, भागा हुआ, वांछित

रूपहला = (روپہلا) चाँदी का बना हुआ, चाँदी के रंग का

रूमाल = (رومال) मुंह पोछने वाला कपड़ा, नैपकिन

रूवीयत = (رویت) दीदार, नज़र आना

रूशिनास = (روشناس) परिचित, पहचानने वाला

रूसियाह = (روسیاہ) मुंह काला

करने वाला, पापी, बुरे आचरण का व्यक्ति

रूह = (روح) आत्मा, जान

रूया = (رویا) ख़्वाब, सपना

रेख़ता = (ریختہ) मिली जुली भाषा अर्थात उर्दू, बिखरा हुआ, ईंट, कंकर, उर्दू की शाएरी

रेख़ती = (ریختی) वह काव्य जो महिलाओं के बोली में कही जाए

रेग = (ریگ) रेत, बालू

रेगिस्तान = (ریگستان) मरुस्थल, मरुभूमि, बंजर धरती, रेगज़ार

रेज़ = (ریز) किसी चीज़ का अंश, बहाने वाला, गिराने वाला

रेज़ा = (ریزہ) टुकड़ा, पारचा, पुर्ज़ा

रेज़िश = (ریزش) नाक से पानी बहना, ज़ुकाम, नज़ला

रेज़गारी = (ریزگاری) खुदरा पैसे, सिक्के वाली करंसी

रेला = (ریلا) बाढ़ का धारा, पानी का का चढ़ाव, भीड़ का धक्का

रेल पेल = (ریل پیل) धक्कम धक्का, भीड़ का आगमन, बहु तायत

रेशा = (ریشہ) नसें, रगें, सूत एंव फलों के तार, फूंसड़ा

रेशा दवानी = (ریشہ دوانی) विघटनकारी साज़िश, दंगा कराना, जोड़ तोड़

रेहन = (رہن) गिरवी रखना, बंधक

रेहान = (ریحان) तुलसी का पौधा

रेहबानियत = (رہبانیت) संन्यास, दुनिया से किनारा करना, अध्यात्म से जुड़ना

रेहल = (رحل) क़ुरान शरीफ़ रखने के लिए लकड़ी का बना एक स्टैंड

रेहलत = (رحلت) निधन, मृत्यु, प्रस्थान

रोक = (روک) प्रतिबंध, आड़, रुकावट

रोज़ = (روز) दिवस, वार, तिथि, दिन

रोज़ा = (روزہ) उपवास, व्रत, सूर्योदय से पहले से सूर्यास्त तक खाना पीना छोड़ना

रोज़ाना = (روزانہ) प्रतिदिन, दैनिक

रोज़ी = (روزی) जीविका, रोज़गार

रोज़नामा = (روزنامہ) दैनिक समाचार पत्र

रोज़नामचा = (روزنامچہ) हर दिन का विवरण, थाने का रजिस्टर, डायरी में लिखी याददाश्त

रोब = (رعب) भय, धाक, दबदबा

रौ = (رو) पानी का बहाव, जोश, धुन, सेना, भीड़

रौग़न = (روغن) तेल, घी, चिकनाई

रौज़ा = (روضہ) मक़बरा, दरगाह पर बना भवन , समाधि स्थल

रौंदना = (روندنا) पैरों से कुचलना, बरबाद करना

रौनक़ = (رونق) चहल पहल, चमक, सौंदर्य, सजावट, भीड़ भाड़

रौशन = (روشن) चमकता हु आ, उज्ज्वल, चमकदार

रौशनी = (روشنی) उजाला, प्रकाश, दृष्टि

रौशनाई = (روشنائی) उजाला, नूर, लिखने वाली सियाही, इंक

ल (ل)

लईन = (لعین) ज़ालिम, दुराचारी, नरक में जाने वाला, शापित

लक़ो दक़ = (لق ودق) लम्बा चौड़ा स्थान, चटियल मैदान, वीराना, जहाँ दूर तक पेड़ न हों

लक़ब = (لقب) उपनाम

लक़वा = (لقوہ) एक प्रकार का पक्षाघात जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, फ़ालिज

लख़्त = (لخت) टुकड़ा, अंश, अंग, हिस्सा

लख़्ता = (لختہ) जमे हुए रक्त का टुकड़ा

लख़्ते जिगर = (لخت جگر) पुत्र या पुत्री, जिगर का टुकड़ा

लगन = (لگن) बड़ा सा बर्तन जिस में आटा गूंधा जाता है, सम्बन्ध, धुन, ख़याल

लगान = (لگان) कृषि पर लगने वाला सरकारी कर

लगाना = (لگانا) छूना, जोड़ना, चिपकाना, टांकना, उकसाना, चुग़ली करना, उलझाना

लगाम = (لگام) बाग, घोड़े का मुंह बाँधने वाला चमड़े का फ़ीता

लग़ो = (لغو) बेतुका, वाहियात, अर्थहीन, व्यर्थ, बकवास

लग़ज़िश = (لغزش) फिसलना, चूक, भूल, ग़लती, भटकना

लजाम = (لجام) लगाम, बाग

लज़ीज़ = (لذیذ) स्वादिष्ट, मज़ेदार

लज़्ज़त = (لذت) स्वाद, मज़ा, ज़ायक़ा, आनंदमय,

लट = (لٹ) जटा, बालों की लड़ी, रस्सी, डोरी

लड़ाई = (لڑائی) युद्ध, जंग, झगड़ा

लड़का = (لڑکا) पुत्र, बालक. छोकरा

लड़की = (لڑکی) पुत्री, कन्या, बालिका

लड़ना = (لڑنا) विवाद, तकरार,

झगड़ा, आपस में टकराना, ज़ोर आज़माई, कुश्ती,

लत = (لت) बुरी आदत

लताफ़त = (لطافت) अनुग्रह, उम्दगी, नर्मी, मुलायमियत, सफ़ाई, पाकीज़गी,

लताड़ना = (لتاڑنا) लातें मारना, धुत्कारना, आलोचना करना, डांटना फटकारना

लतीफ़ा = (لطیفہ) चुटकुला, मज़ेदार बात, हास्य व्यंग, जोक

लतपत = (لت پت)लथपथ, सना हुआ, बुरा हाल, भरा हुआ

लनतरानी = (لن ترانی) अपनी बड़ाई करना, डींग मारना, दूर की हाँकना,

लंगोट = (لنگوٹ) कच्छा, गुप्तांग ढांकने वाला कपड़ा जो पहलवान या साधू बांधते हैं

लंगोटी = (لنگوٹی) धोती, साड़ी, कमर के नीचे बाँधा जाने वाला कपड़ा

लंगड़ा = (لنگڑا) जिस का पैर ख़राब हो या पैर न हो, दिव्यांग, आमों की एक प्रजाति

लंगर = (لنگر) बोझ, जहाज़ को ठहराने वाला भारी लोहा, जहाँ मुफ़्त में खाना मिले

लपट = (لپٹ) आंच, शोला, लू, गर्म हवा, लौ

लपाटी = (لپاٹی) झूठा, फेंकू

लपकना = (لپکنا)झपटना, दौड़ना, उचकना, छीनना

लफ़ = (لف) लपेटा हुआ, तह किया हुआ, संलग्न

लफ़्ज़ = (لفظ) शब्द, बात

लफ़्फ़ाज़ = (لفاظ) फेंकू, लम्बी लम्बी हांकने वाला

लब = (لب) होंट, किनारा, मुंडेर, साहिल

लबो लहजा = (لب ولہجہ) उच्चारण, बात करने का तरीक़ा, बोलने का अंदाज़

लबादा = (لبادہ) ऊपर से नीचे तक बदन को ढांकने वाला वस्त्र

लबलबी = (لبلبی) बंदूक या पिस्तौल का ट्रिगर

लबन = (لبن) दूध

लब्बैक = (لبیک) किसी की आवाज़ पर जवाब देना कि हाज़िर हूँ, उपस्थित हूँ कहना

लम्हा = (لمحہ) पल, घड़ी, सेकेण्ड, आँख झपकने की अवधि

लरज़िश = (لرزش) कंपन, कपकपी, थरथराहट

लरज़ना = (لرزنا) हिलना, कांपना, थर्राना, डरना

ललकारना = (للکارنا) चुनौती देना, नारा लगाना, पुकारना, कड़क कर बोलना

लश्कर = (لشکر) असंगठित सेना, भीड़ भाड़, समूह, छावनी, कैम्प

लवारा = (لوارا) गाय भैंस का बछड़ा

लवाज़िम = (لوازم) आवश्यक तत्व, अनिवार्य वस्तुएं

लव्वामा = (لوامہ) मनुष्य की अंतरात्मा जो ग़लत काम करने पर उसकी भर्त्सना करे

लहू = (لہو) रक्त, ख़ून, एक बाप दादा की सन्तान

लहक = (لہک) झूमना, यौवन, हवा के साथ फैलने वाली सुगंध

लहजा = (لہجہ) बोलने का अंदाज़, काव्य शैली, गुफ़्तगू का तरीक़ा

लहज़ा = (لحظہ) पल, लम्हा, पलक झपकने की अवधि

लहद = (لحد) समाधि, क़ब्र, मज़ार, वह गड्ढा जिस में मृत शरीर रखा जाता है

लहन = (لحن) सुरीली आवाज़, अच्छा गला

लहम = (لحم) गोश्त, मांस

लहर = (لہر) तरंग, पानी की मौज, ज्वार भाटा, उमंग, जोश, कड़ी गर्मी या सर्दी

लहलहाना = (لہلہانا) झूमना, फलना फूलना, हवा से हिलना

ला = (لا) बिना, बग़ैर, नहीं, ना

लइब = (لعب) खेल कूद, दिल बहलाना, सैर सपाटा

लाइल्म = (لاعلم) अनजान, अज्ञान, अनभिज्ञ, बेख़बर

लाएक़ = (لائق) योग्य, क़ाबिल, उपयुक्त, अनुकूल

लाओबाली = (لاابالی) बेपरवाह, बेफ़िक्रा, मस्त

लाग = (لاگ) लगाव, संबंध, क्षेत्र, लगन, प्रेम,

लागत = (لاگت) प्रासंगिक व्यय, मूल्य, ख़र्च, कास्ट

लाग़र = (لاغر) दुबला पतला, कमज़ोर, क्षीण

लाजवाब = (لاجواب) अतुलनीय, जिस का जवाब न हो, बढ़िया, शानदार

लाचार = (لاچار) असहाय, मजबूर, बेबस

लात = (لات) पाँव से प्रहार, ठोकर

लानत = (لعنت) अभिशाप, शाप, फटकार, धुत्कारना

लांघना = (لانگھنا) फांदना, छलांग मारना, पार करना, ऊपर से गुज़र जाना

लांबा = (لانبا) लम्बा, ऊँचा

लापरवा = (لاپروا) लापरवाह, ध्यान न रखने वाला, अल्हड़

लाम = (لام) सेना, फ़ौज, सैन्य दस्ता

लामबंदी = (لام بندی) सेनाओं का आमने सामने आना, मोर्चा बंदी करना

लाल = (لال) रेड, सुर्ख़, बेटा, पुत्र, रंग का नाम

लअल = (لعل) लाल रंग का हीरा

लालच = (لالچ) लोभ, फुसलावा

लावारिस = (لاوارث) जिस का कोई उत्तराधिकारी ना हो

लाश = (لاش) पार्थिव शरीर, मृत व्यक्ति, मुर्दा

लाहए अमल = (لائحہ عمل) रणनीति, कार्य योजना, कार्यनीति, कार्यक्रम,

लाहक़ = (لاحق) पीछे लगा हुआ, संलग्न, मिला हुआ, जुड़ा हुआ

लिए = (لئے) वास्ते, हेतु, क्रम, ग़रज़

लिपटना = (لپٹنا) चिमटना, पीछे लग जाना, गले मिलना, बाहों में भरना

लिफ़ाफ़ा = (لفافہ) आवरण, वह चीज़ जो किसी चीज़ पर लपेटी जाए, काग़ज़ का कवर

लिबास = (لباس) वस्त्र, कपड़े, पहनावा, परिधान, ड्रेस

लियाक़त = (لیاقت) योग्यता, प्रवीणता

लिवा = (لوا) झंडा, ध्वज, परचम, अलम

लिसान = (لسان) भाषा, बोली, ज़बान

लिहाज़ = (لحاظ) आदर, सम्मान, ध्यान, ख़याल रखना, दृष्टि, नज़र

लिहाज़ा = (لہٰذا) इसलिए, अतः, ताकि

लीक = (لیک) लकीर, रास्ता, सड़क, पगडंडी, गाड़ी के पहिये के निशान

लुक़मा = (لقمہ) निवाला, कौर, खाने की वह मात्रा जो एक बार में मुंह में डाली जाए

लुग़त = (لغت) बोली, भाषा, शब्दकोश, डिक्शनरी

लुत्फ़ = (لطف) मेहरबानी, कृपा, नर्मी, मज़ा

लुंडा = (لنڈا) दुम कटा, बिना शाखाओं और पत्तों वाला पेड़, जिसका कोई साथी न हो

लुंजा = (لنجا) हाथ पाँव से वंचित, अपंग, दिव्यांग

लुब = (لب) निचोड़, सत, ख़ुलासा, संक्षेप

लुब-ए-लुबाब = (لبّ لباب)सार का सार, सत का सत, अति विशुद्ध

लुभाना = (لبھانا) आकर्षित करना, किसी को लालच देना, मोहना, फुसलाना

लुहान = (لہان) ख़ून से लिथड़ा हुआ, यह शब्द लहू-लुहान के साथ प्रयोग होता है

लू = (لو) गर्म हवा

लूआब = (لعاب) थूक, राल, लेस, चेप

लूनी = (لونی) खारा, शोरा, वह नमकीन मिट्टी जो दीवार से झड़ती है

लेकिन = (لیکن) किन्तु, परन्तु

लेना = (لینا) प्राप्त करना, पकड़ना, संभालना

लेप = (لیپ) मरहम, आवरण, तह, घाव पर औषधि लगाना

लेस = (لیس) चिपचिपाहट, गोबर मिली मिट्टी, चेप, चिपकने वाला द्रव्य

लै = **(لے)** धुन, तान, सुर, आवाज़

लैल = (لیل) रात, रात्रि

लैलो नहार = (لیل ونہار) रात दिन

लैला = (لیلیٰ) काली, सांवली, हसीना, मजनूं की प्रेमिका

लैस = (لیس) तैयार, कील कांटे से दुरुस्त, हथियारों से सुसज्जित

लो = (لو) पकड़ो, थामो, संभालो

लोग = (لوگ) बहुत से आदमी, मनुष्यों का समूह

लोधी = (لودھی) पठानों का एक वंश

लौंदा = (لوندا) ढेला, डला, गुन्धी हुई मिट्टी, मक्खन का डला

लोबान = (لوبان) एक गोंद जो जलाए जाने पर सुगंध देता है

लोरी = (لوری) वह गीत जो माँ बच्चे को सुलाने के लिए हल्की आवाज़ में गाती है

लोहार = (لوہار) लोहे की चीज़ें बनाने वाला

लोहय्या = (لوہیا) लोहे का सामान बेचने वाला

लौ = (لو) ज्योति, शोला, ध्यान, आशा, कान का निचला हिस्सा

लौंडा = (لونڈا) छोकरा, वह लड़का जिस की दाढ़ी मूंछ न निकली हो

लौह = (لوح) लिखने की तख़्ती, मुखपृष्ठ, क़ब्र पर मृतक के नाम का पत्थर

व (و)

वकील = (وکیل) अधिवक्ता, क़ानून की डिग्री लेकर अदालत में वकालत करने वाला

वकालत = (وکالت) किसी मुक़द्दमे में वादी या सफ़ाई पक्ष की पैरवी करना, विकालत

वक़अत = (وقعت) साख, अहमियत, विश्वसनीयता

वक़ार = (وقار) गरिमा, प्रतिष्ठा, गौरव, भारी भरकम पन

वक़्त = (وقت) समय, युग, घड़ी, पल, अवधि, बारी, आयु, मौत, मुसीबत

वक़्ती = (وقتی) अस्थाई, टेम्परेरी, अंतरिम, आकस्मिक

वक़्फ़ = (وقف) ठहरना, ट्रस्ट, जायदाद को जन-कल्याण के लिए समर्पित करना

वक़्फ़ा = (وقفہ) अन्तराल, इंटरवल

वगरना = (وگرنہ) अन्यथा, वर्ना, और अगर नहीं

वग़ा =(وغا) युद्ध, लड़ाई, हंगामा, दंगा

वजअ = (وجع) दर्द, टीस

वजाहत = (وجاہت) सुन्दरता, सम्मान, दबदबा, चेहरे का तेज

वज्द = (وجد) बहुत अधिक ख़ुशी, हाल, बेख़ुदी, सूफ़ियों की महफ़िल का हाल आना

वज्ह = (وجہ) चेहरा, शक्ल, सूरत, वजह, कारण, तरफ़, ओर, ढंग

वज़अ = (وضع) प्रारूप, स्वरूप, डिज़ाइन, चलन, बनावट, फैशन

वज़ीफ़ा = (وظیفہ) छात्रवृत्ति, पेंशन, रोज़ पढ़ी जाने वाली दुआ, किसी बात की रट लगाना

वतीरा = (وطیرہ) आचरण, स्वभाव, आदत, रीति

वतन = (وطن) स्वदेश, मातृभूमि, गृहनगर,

वफ़ा = (وفا) निष्ठा, दोस्ती निभाना, साथ देना, नमक हलाली

वफ़ात = (وفات) मृत्यु, देहांत, मौत

वफ़्द = (وفد) प्रतिनिधिमंडल, दल, शिष्टमंडल

वबा = (وبا) महामारी, छूत की बीमारी, मौसम के साथ आने वाले रोग

वबाल = (وبال) बवाल, मुसीबत, झगड़ा, विपदा, उलझन

वर = (ور) उपर, शक्तिशाली, प्रबल

वरा = (ورا) पीछे की ओर, दूसरी तरफ़, पीठ के पीछे, परे, सिवा, अतिरिक्त

वरक़ = (ورق) पृष्ठ, पत्रक, पत्तर, सोने या चाँदी का कुटा हुआ टुकड़ा, शीट, पेज

वरग़लाना = (ورغلا) भड़काना, धोखा देना, बहकाना, अपहरण करना

वर्ज़िश = (ورزش) व्यायाम, कसरत

वरता = (ورطہ) भंवर, मृत्यु का स्थान, ऐसी जगह जहाँ से निकलने का रास्ता न हो

वर्द = (ورد) गुलाब का फूल

वर्दी = (وردی) फ़ौजी लिबास, यूनिफ़ार्म, एक प्रकार के सैनिक बैंड को भी वर्दी कहते हैं

वर्ना = (ورنہ) अन्यथा, नहीं तो

वरम = (ورم) सूजन, शरीर के किसी अंग का फूल जाना

वल्दियत = (ولدیت) पितृत्व, पिता का नाम

वली = (ولی) वह मनुष्य जो ख़ुदा के क़रीब हो, संरक्षक, मेहरबान

वलीमा = (ولیمہ) विवाह के बाद वर की तरफ़ से दिया जाने वाला महाभोज

वले = (ولے) मगर, किन्तु

वलवला = (ولولہ) जोश, उमंग, उत्साह, बहुतअधिक शौक़

वसीक़ा = (وثیقہ) समझौता, अनुबंध, सहमति पत्र, एग्रीमेंट, प्रामिसरी नोट, प्रोनोट

वसूक़ = (وثوق) भरोसा, विश्वसनीय, पक्का स्रोत

वही = (وحی) ईश्वरीय संदेश जो पैगम्बरों या अवतारों के माध्यम से आया था

वहदानियत = (وحدانیت) एकेश्वरवाद, एकता

वहदत = (وحدت) एक होना, यकताई, अकेलापन

वहम = (وہم) भ्रम, शक, काल्पनिक

वहशी = (وحشی) जंगली, असभ्य, क्रूर, बर्बर

वहाबी = (وہابی) एक मुस्लिम वर्ग

व्हहाज = (وہاج) बहुत चमकता हुआ, ज्योतिर्मय

वा = (وا) खुला हुआ, फैला हुआ, विशाल, दुबारा, दूसरी बार, फिर पीछे

वअज़ = (وعظ) प्रवचन, धार्मिक भाषण

वाएज़ = (واعظ) प्रवचन देने वाला

वाक़िआ = (واقعہ) घटना, प्रकरण, जग बीती, आप बीती, वारदात, माजरा, विवरण

वागुज़ार = (واگزار) किसी की ज़मीन या जायदाद वापस करना, छोड़ देना

वाजिद = (واجد) बात निकालने वाला, पाने वाला, वुजूददेने वाला

वाजिब = (واجب) अनिवार्य, कर्तव्य, उपयुक्त, आवश्यक

वाज़ेए = (واضع) बनाने वाला, निर्माता

वाज़ेह = (واضح) स्पष्ट, साफ़ साफ़ लिखा हुआ, उजागर

वाड़ा = (واڑا) मोहल्ला, टोला, गली, क्षेत्र, देश, राज्य

वादा = (وعدہ) प्रतिज्ञा, वचन

वादी = (وادی) घाटी, नीची ज़मीन, दो पर्वतों के बीक की धरती

वादीद = (وادید) मुड़ कर देखना, लौट कर देखना

वापस = (واپس) पीछे, पलटना, लौटना, बाद में, अस्वीकृत, रद्द किया हुआ, दुबारा

वाफ़िर = (وافر) बहुत, भरपूर, थोक में, पर्याप्त मात्रा में

वाबस्ता = (وابستہ) सम्बंधित, नातेदार, प्रतिबद्ध, जुड़ा हुआ, नौकर चाकर

वार = (وار) चोट, हमला, मार, घाव लगाना, अवसर, बारी

वारा = (وارا) बचत, किफ़ायत, लाभ, फ़ायदा, बीमारी से छुटकारा

वारिद = (وارد) आगन्तुक, आने वाला, पहुँचनेवाला, दाख़िल होने वाला

वारिदात = (واردات) वारदात, घटना, दुर्घटना, हत्या चोरी या कोई और जुर्म

वारिस = (وارث) उत्तराधिकारी, मृत व्यक्ति के माल का हक़दार

वारे न्यारे = (وارے نیارے) ख़ूब लाभ होना, पांचो उँगलियाँ घी में होना, बल्ले बल्ले होना

वारफ़्तगी = (وارفتگی) आपे से बाहर होना, बेख़ुदी, बेख़बरी

वारस्तगी = (وارستگی) छुटकारा, आज़ादी, निजात, मुक्ति मिलना

वारना = (وارنا) निछावर करना, भेंट देना, क़ुर्बान करना, सदक़ा करना

वावैला = (واویلا) ऊँची आवाज़ में रोना पीटना, दोहाई देना, फ़रियाद करना

वासिक़ = (واثق) पक्का, दृढ़, मज़बूत, स्थायी

वासिता = (واسطہ) वास्ता, माध्यम, मध्यस्थ, बिचौलिया, लगाव, सम्बन्ध, कारण, सरोकार

वासेअ = (واسع) फैलने वाला, व्यापक, विस्तृत

वासिफ़ = (واصف) तारीफ़ करने वाला, गुण गान करने वाला

वासिल = (واصل) मिला हुआ, मिलने वाला, जुड़ा हुआ, प्राप्त होने वाला

वाहिद = (واحد) एकमात्र, अकेला, एकल, मात्र

विक़ा = (وقع) हमला, धावा, युद्ध

वक़ाए = (وقائع) युद्ध के समाचार, युद्ध स्थल के हालात

विजदान = (وجدان) अंतर्ज्ञान, जानना, खोजना, पता लगाना

विज़ारत = (وزارت) मंत्रालय, मंत्री मंडल

विदाअ = (وداع) विदाई, प्रस्थान, विदा, रुख़सत

विफ़ाक़ = (وفاق) संघीय ढांचा, महासंघ, फेडरेशन, फेडरल

विर्द = (ورد) दोहराना, दिनचर्या, नियमित काम, प्रति दिन की जाने वाली क्रिया

विरसा = (ورثہ) धरोहर, विरासत, मृत रिश्तेदार का छोड़ा हुआ धन या जायदाद

विला = (ولا) मोहब्बत, मित्रता, उल्फ़त, मुहब्बत

विलादत = (ولادت) जन्म, पैदा होना

विलायत = (ولایت) राज्य, हुकूमत, अंग्रेज़ों के समय में इंग्लैण्ड को विलायत कहते थे

वीरान = (ویران) निर्जन, सुनसान, एकांत

वुक़ूअ = (وقوع) घटना, वारदात, हंगामा, दंगा

वुजूद = (وجود) अस्तित्व, जीवन, हस्ती, उत्पन्न, शरीर, बदन

वुरूद = (ورود) प्रवेश करना, अंदर आना, आगमन

श (ش)

शअब = (شعب) पहाड़ी, सड़क, दर्रा, नीची ज़मीन, परिवार, वंश, क़बीला

शअबान = (شعبان) अलग करना, हिजरी वर्ष का आठवां महीना जिसमें शबे बराअत मनाते हैं

शक = (شک) संदेह

शकर = (شکر) खांड, चीनी, बूरा

शक्ल = (شکل) सूरत, चेहरा, प्रारूप, आकृति, ढांचा, आकार, तौर तरीक़ा

शकील = (شکیل) सुंदर, अच्छी शक्ल वाला

शकूर = (شکور) बहुत आभार व्यक्त करने वाला, अधिक शुक्रिया अदा करने वाला

शकेब = (شکیب) सहन शीलता, सहिष्णुता, सब्र

शक़ावत = (شقاوت) क्रूरता, बदमाशी, संगदिली, बेरहमी

शक़ी = (شقی) क्रूर, ज़ालिम, अत्याचारी

शक़्क़ = (شق) फटा हुआ, दीवार में दरार पड़ना, धरती का फटना

शख़्स = (شخص) व्यक्ति, आदमी

शख़्सियत = (شخصیت) व्यक्तित्व

शग़ाल = (شغال) गीदड़, सियार

शग़फ़ = (شغف) बहुत दिलचस्पी, बेहद लगाव, ज़्यादा आकर्षण, अधिक झुकाव

शजर = (شجر) पेड़, वृक्ष, दरख़्त

शजरा = (شجرہ) वंशावली, पुरखों के नामों की सूची, गाँव के खेतों का मानचित्र

शत्त = (شط) नदी का किनारा, दरिया, नदी

शत्म = (شتم) गाली, उप शब्द

शनासाई = (شناسائی) जान पहचान, परिचय

शंबा = (شنبہ) सनीचर, शनि, हफ़्ता, दिवस, वार

शफ़ा = (شفا) किनारा, साहिल

शफ़ीक़ = (شفیق) मेहरबान, कृपा करने वाला, दयालु, हमदर्द, प्यारा

शफ़क़ = (شفق) सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद आकाश पर नज़र आने वाली लाली

शफ़क़त = (شفقت) करूणा, अनुकंपा, दया, किसी से अपने बच्चों जैसा सुलूक करना

शफ़्फ़ाफ़ = (شفاف) बहुत उजला, आर पार दिखाई देने वाला, पारदर्शी

शब = (شب) रात्रि, रात

शबाब = (شباب) यौवन, जवानी, तरूणाई, युवाकाल, युवावस्था

शबान = (شبان) चरवाहा, गडरिया

शबाना = (شبانہ) रात का

शबाहत = (شباہت) शक्ल मिलना, मिलता जुलता रूप रंग, समानता

शबिस्ताँ = (شبستاں) बादशाह के सोने का कमरा, मस्जिद में रात भर इबादत करने का स्थान

शबीना = (شبینہ) रात का, बासी, रमज़ान की किसी एक रात में पूरा क़ुरआन पढ़ना

शबीह = (شبیہ) छवि, प्रतिरूप, प्रतीक

शबे आशूर = (شب عاشور) दसवीं मोहर्रम की रात

शबे ग़म = (شب غم) जुदाई की रात, दुःख भरी रात

शबे ज़ुल्मात = (شب ظلمات) काली रात, घुप अँधेरे वाली रात

शबे शहादत = (شب شہادت) हज़रत हुसैन के शहीदी दिवस से पहले की रात

शबो रोज़ = (شب وروز) रात दिन

शबनम = (شبنم) ओस, रात के समय फूल पौधों पर जमने वाली नमी

शब्बीर = (شبیر) सुंदर, उच्च चरित्र वाला, हज़रत इमाम हुसैनका उपनाम

शब्बेदारी = (شب بیداری) जागरण, रात भर जागना, शीयअ वर्ग में मातम के लिए निर्धारित रात

शमा = (شمع) मोम बत्ती, दिया, दीपक, कैंडिल

शमामा = (شمامہ) सुगंध, ख़ुशबू

शमीम = (شمیم) सुगन्धित हवा, ख़ुशबू, महक

शमूलियत = (شمولیت) शामिल होना, सम्मलित होना, भागीदारी, लिप्त होना

शमशीर = (شمشیر) तलवार

शम्स = (شمس) सूर्य, सूरज

शमसी = (شمسی) सूर्यवंशी, सौर, सोलर

शर = (شر) बुराई, दुष्टता, असुर

शरअ = (شرع) धर्म का रास्ता, इस्लामी संविधान, क़ुरआन के क़ानून, शरीयत

शराफ़त = (شرافت) सज्जनता, शालीनता, सीधा सादा होना

शराब = (شراب) मदिरा, दारु, मद्य

शरारा = (شرارہ) चिंगारी, आग का पतंगा

शरारत = (شرارت) दुष्टता, उत्पात, बच्चों की हरकतें, महबूब की शोख़ी

शरीक = (شریک) सम्मलित, साथी, साझेदार, सहभागी, सहयोगी, प्रतिभागी, शामिल

शरीफ़ = (شریف) सज्जन पुरुष, शालीन और सभ्य व्यक्ति, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाला

शरीर = (شریر) दंगाई, दुष्ट व्यक्ति, तेज़ बच्चा, खिलंडरा बालक

शरअंगेज़ी = (شرانگیزی) बुराई का बढ़ाना, दंगा भड़काना, उन्माद फैलाना

शर्क़ = (شرق) पूरब, पूर्व, सूर्योदय का स्थान

शरज़ा = (شرزا) तेंदुआ

शर्त = (شرط) मैदान बदना, वचन देना, बाज़ी लगाना, इक़रार करना

शरबत = (شربت)शीरे में पक्का हुआ किसी फल या फूल का रस

शरफ़ = (شرف) श्रेय, सौभाग्य, सम्मान, आदर

शर्म = (شرم) लाज, आत्म सम्मान, हया

शर्मिंदगी = (شرمندگی) लज्जित होना, सम्मान को ठेस लगना

शरयान = (شریان) छोटी छोटी रगें, नसें

शरह = (شرح) सविस्तार बताना, व्याख्या, मूल्यांकन, भाव, दर

शल = (شل) थका हुआ, सुन हो जाना

शलवार = (شلوار) महिलाओं का पायजामा, पठानी पहनावा

शशदर = (ششدر) हक्का बक्का, 6 द्वार वाला घर, वह स्थान जहाँ से निकलना मुश्किल हो

शव्वाल = (شوّال) हिजरी वर्ष का दसवां महीना, जो ईदुल फ़ित्र के दिन से शुरू होता है

शह = (شہ) राजा, दूल्हा, बड़ा, भड़काना, बहकाना, हवा देना

शहादत = (شہادت) गवाही, प्रमाण, सुबूत, ख़ुदा के रास्ते में जान देना, बलिदान

शहाना = (شہانہ) शादी का जोड़ा, लाल चूड़ियां, शादी का गीत

शहामत = (شحامت) मोटा पन, मुटापा, वीरता, दिलेरी, बहादुरी

शहाब = (شہاب) लौ, लपट, उल्का

शहीद = (شہید) देश या धर्म के लिए जान देने वाला, फ़िदा होने वाला

शहद = (شہد) मधु

शहना = (شحنہ) कोतवाल, नगर का संरक्षक, कर वसूल करने वाला

शहना = (شہنا) शहनाई, बांसुरी, नफ़ीरी

शहर = (شہر) नगर, सिटी, महीना, माह

शहरी = (شہری) नागरिक, नगर वासी, नगरीय

शहला = (شہلا) भूरी आँखों वाली महिला, नर्गिस का फूल

शहवत = (شہوت) कामुकता, वासना

शाएक़ = (شائق) अभिलाषी, उन्मुख, उत्सुक, इच्छुक, आतुर

शाइस्ता = (شائستہ) विनम्र, परिष्कृत, सभ्य

शाएबा = (شائبہ) शक, मिलावट

शाएर = (شاعر) कवि

शाएरी = (شاعری) काव्य

शाकिर = (شاکر) धन्यवाद देने वाला, शुक्र करने वाला, सहनशील

शाकी = (شاکی) शिकायत करने वाला, परिवादी

शाक़ = (شاق) मुश्किल, कठिन, दूभर,

शाख़ = (شاخ) शाखा, ठहनी, डाली, उपखंड

शाख़साना = (شاخسانہ) झगड़ा, रुकावट, परिणाम, तकरार या झगड़े का कारण

शागिर्द = (شاگرد) शिष्य, चेला

शाज़ = (شاذ) अजब, अनोखा, दुर्लभ

शातिम = (شاتم) गाली देने वाला, कटु वचन कहने वाला

शातिर = (شاطر) चालाक, मक्कार, बच निकलने वाला अपराधी, शतरंज का माहिर ख़िलाड़ी

शाद = (شاد) प्रसन्न, ख़ुश, आनन्दित, प्रफुल्लित

शादाब = (شاداب) तृप्त, हरा भरा, ताज़ा, सिंचित

शादी = (شادی) विवाह, ब्याह, समारोह, ख़ुशी, प्रसन्नता

शदीद = (شدید) गंभीर, चरम, गहन, सख़्त, तेज़

शान = (شان) वैभव, महिमा, भव्यता, दबदबा, सम्मान

शाना = (شانہ) कंघी, कान्धा

शाफ़ए = (شافع) सिफ़ारिश करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला

शाबाश = (شاباش) सराहनीय व प्रशंसात्मक शब्द, सफलता पर पीठ थपथपाना

शाम = (شام) संध्या, सांय काल, सीरिया देश का नाम

शामिल = (شامل) सम्मिलित, लिप्त, मिला हुआ, शरीक

शामियाना = (شامیانہ) पंडाल, मंडप, तम्बू, टेंट, धूप से बचने के लिए ताना गया कपड़ा

शामे ग़रीबां = (شام غریباں) परदेसियों की एक रात, मोहर्रम की एक विशेष शोक सभा

शामत = (شامت) बदनसीबी, बुरा समय, मुसीबत, कठिन घड़ी, अमंगल, अप शगुन

शाम्मा = (شامہ) सूंघने की शक्ति

शारेअ = (شارع) प्रमुख मार्ग, चौड़ी सड़क, शरीयत लाने वाला पैग़म्बर

शारेह = (شارح) व्याख्या करने वाला मूल्यांकन करने वाला

शाअशा = (شعشعہ) चमक, सूर्य का प्रकाश, शब्द का आख़िरी भाग, अफ़वाह, झूठी खबर

शाश = (شاش) मूत्र, पेशाब

शाल = (شال) ऊन या रेशम की चादर

शाह = (شاہ) स्वामी, राजा, बादशाह, फ़क़ीरों और सूफियों को भी शाह कहा जाता है

शाहज़ादा = (شہزادہ) राजकुमार, राज-पुत्र, प्रिंस (शहज़ादा)

शाहज़ादी = (شہزادی) राजकुमारी, प्रिंसेस (शहज़ादी)

शाहाना मिज़ाज = (شاہانہ مزاج) सम्राट जैसा स्वभाव, राजाओं जैसा आचरण

शाहिद = (شاہد) गवाह, साक्षी, प्रत्यक्षदर्शी

शहनशाह = (شہنشاہ) महाराजा, सम्राट, बादशाहों का बादशाह

शाही = (شاہی) राजत्व, राजा का शासित क्षेत्र, राजा से जुड़ी चीज़ें

शाहीन = (شاہین) बहु त ऊंचाई पर उड़ने वाला शिकारी पक्षी, गरुड़

शायआ = (شائع) प्रकाशित, छपा हु आ

शायाँ = (شایاں) उपयुक्त, अनुरूप, अनुकूल, जो वस्तु सजे

शायद = (شاید) संभवतः, हो सकता है, कदाचित

शिआर = (شعار) चलन, तरीक़ा, तौर

शिकायत = (شکایت) दुखड़ा, रोग, गिला, शिकवा, फ़रियाद

शिकार = (شکار) जानवर मारना, ग्रस्त, पीड़ित

शिकन = (شکن) झोल, सिलवट, तोड़ने वाला

शिकंजा = (شکنجہ) अपराधियों को दंड देने का यंत्र, लकड़ी या पुस्तक दबाने वाला औज़ार

शिकम = (شکم) पेट, आमाशय, उदर

शिकवा = (شکوہ) शिकायत, गिला, दुखड़ा

शिकस्त = (شکست) पराजय, हार, मात, टूट फूट

शिकस्ता = (شکستہ) टूटा हु आ, ख़राब

शिगाफ़ = (شگاف) दरार, झिरी, क्रैक

शिगुफ़्ता = (شگفتہ) खिला हु आ, प्रसन्न चित्त, ख़ुश, शगुफ़्ता

शिगूफ़ा = (شگوفہ) बिन खिला फूल, कली, अजीब या अनोखी बात, शगूफ़ा

शिताब = (شتاب) जल्दी, झट पट, फ़ौरन

शिद्दत = (شدت) तीव्रता, गंभीरता, कठिनाई, तकलीफ़, बल

शिफ़ा = (شفا) बीमारी से निजात मिलाना, रोग से मुक्त होना, उपचार से स्वस्थ होना

शिराकत = (شراکت) हिस्सेदारी, साझा, योगदान, भागीदारी

शिर्क = (شرک) किसी को अल्लाह का सहयोगी मानना

शिरकत = (شرکت) भागीदारी, साझेदारी, सम्मलित होना, भाग लेना, शामिल होना

शिनाख़्त = (شناخت) पहचान, आई डी

शिनावरी = (شناوری) तैरना

शियअ = (شیعہ) दोस्त, मित्र, पैगंबर साहिब के परिवार को चाहने वाले मुसलमान, शिया

शीर = (شیر) दूध, दुग्ध

शीराज़ा = (شیرازہ) पुस्तक के पृष्ठों को जोड़ने वाली सिलाई, एकता, अखंडता

शीरीनी = (شیرینی) मिठास, मिठाई, मीठा

शीरख़्वार = (شیر خوار) दूध पीता शिशु

शीशा = (شیشہ) कांच, दर्पण, बोतल, गिलास

शीश महल = (شیش محل) कांच का भवन, दर्पण से सजा कक्ष

शुआ = (شعاع) किरण, प्रकाश, चमक

शुक्रिया = (شکریہ) धन्यवाद, आभार, थैंक्स

शुग़्ल = (شغل) काम, धंधा, कारोबार, पेशा

शुजाअत = (شجاعت) वीरता, शौर्य, बहादुरी

शुतुर = (شتر) ऊंट

शुद = (شد) हो चुका, हु आ

शुदबुद = (شدبد) किसी काम की समझ होना, थोड़ा निपुण होना. सुद्ध बुद्ध

शुनवाई = (شنوائی) सुनवाई, मुक़द्दमे की कार्रवाई, ध्यान दिया जाना

शुबह = (شبہ) शक, संदेह

शुमार = (شمار) गणना, गिनती

शुरूआत = (شروعات) प्रारम्भ, पहल, उठान, आग़ाज़, शुभारम्भ

शुरवा = (شروا) सालन, करी, तरी, शोरबा

शुस्ता = (شستہ) धुला हुआ, साफ़, शुद्ध, विशुद्ध, सुरुचिपूर्ण, मंझा हुआ, पाकीज़ा

शूरा = (شوریٰ) सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन

शए = (شے) वस्तु, चीज़, मामला

शेख़ = (شیخ) मिस्टर, श्रीमान, बूढ़ा आदमी, पीर, दरगाह का प्रमुख, एक मुस्लिम क़बीला

शेख़ी = (شیخی) डींगें मारना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, घमंड करना

शेफ़्तगी = (شیفتگی) प्रेम, इश्क़, मंत्र मुग्ध होना, मदहोशी

शेर = (شیر) काव्य, सिंह, बाघ

शेवन = (شیون) रोना, आंसू बहाना, मातम मनाना

शेवा = (شیوہ) तौर, नियम, ढंग, तरीक़ा

शैतान = (شیطان) स्वर्ग से निष्कासित किया गया दूत इब्लीस, मनुष्यों को बहकाने वाला, दुष्ट

शैदा = (شیدا) मोहित, मुग्ध, फ़िदा

शोअबा = (شعبہ) विभाग, शाखा, टुकड़ा, हिस्सा, सेक्शन

शोअब्दा = (شعبدہ) जादू का खेल, हाथ की सफ़ाई, नज़र बंदी, चालाकी

शोख़ = (شوخ) चंचल, शरीर, तेज़, हंसमुख

शोख़ी = (شوخی) चंचलता , चुलबुलाहट, तेज़ी, शरारत

शोमी = (شومی) दुर्भाग्य, अशुभ, मन्हूस

शोर = (شور) हुल्लड़ हंगामा, धूम, तेज़ ध्वनि

शोरबा = (شوربہ) पतला सालन, पक्के हुए मांस का पानी, करी, तरी

शोरिश = (شورش) विद्रोह, अशांति, उपद्रव, बलवा, बवाल

शोरीदा = (شوریدہ) परेशान, व्याकुल, जुनूनी, दीवाना

शोला = (شعلہ) ज्योति, ज्वाला, आग की लपट, लौ

शोशा = (شوشہ) झगड़े का कारण, चुटकुला, पुर्ज़ा, टुकड़ा

शोहदा = (شہدا) लफ़ंगा, लुच्चा, बदमाश, गुंडा

शो-हदा = (شہدا) शहीद का बहुवचन

शोहरत = (شہرت) प्रसिद्धि, ख्याति, लोकप्रियता,प्रतिष्ठा

शोहरा = (شہرہ) धूम धाम, कोई बात मशहूर हो जाना

शौकत = (شوکت) प्रताप, महिमा, रोब, शान

शौक़ = (شوق) रुचि, मनभावन गतिविधि

शौक़ीन = (شوقین) किसी चीज़ में रुचि रखने वाला, छैला, रंगीला, अय्याश

शौहर = (شوہر) पति, स्वामी, जीवन साथी

स (س)

सअद = (سعد) शुभ, नेक, मुबारक

सआदत = (سعادت) सौभाग्य, ख़ुशक़िस्मती, सम्मान, भलाई

सईद = (سعید) भाग्यवान, अच्छी क़िस्मत वाला

सई = (سعی) दौड़ धूप और प्रयत्न करना, अग्रिम धन राशि, हज की एक धार्मिक रीति

सकत = (سکت) शक्ति, बल, उर्जा

सकता = (سکتہ) वह अवस्था जब कोई व्यक्ति मरा हुआ लगता है मगर वह जीवित होता है

सकना = (سکنا) सम्भव होना, मुम्किन

सक़ाफ़त = (ثقافت) संस्कृति, सभ्यता

सक़ाबा = (سقابہ) नहाने की टन्की, हौज़, नहाने का स्थान

सक़ाया = (سقایہ) पानी का कटोरा, पानी पिलाना

सक़ीफ़ा = (سقیفہ) चौड़ा तख़्ता, ड्योढ़ी में बैठने का चौका

सकीना = (سکینہ) चैन, सुकून, क़रार, हज़रत इमाम हुसैन की छोटी बेटी का नाम

सक़ील = (ثقیل) भारी, बोझल, ना पचने वाला खाद्य पदार्थ

सक़्क़ा = (سقّہ) पानी पिलाने वाला, मश्क में पानी भर का लाने वाला

सक़्फ़ = (سقف) छत, तम्बू, टेंट

सक़र = (سقر) नरक, जहन्नुम

सक़लैन = (ثقلین) दोनों संसार

सख़ावत = (سخاوت) उदारता, दरिया दिली

सख़ी = (سخی) उदार, दानी, बड़े दिल वाला

सख़्त = (سخت) कड़ा, कठोर, पक्का, ठोस

सग = (سگ) कुत्ता, कूकुर

सगा = (سگا) अपना, वास्तविक, एक ही माता पिता की संतान

सच = (سچ) सत्य, सही, ठीक, वास्तविकता

सजअ = (سجع) पंक्षियों के चहकने की आवाज़

सजावट = (سجاوٹ) सज धज, बनाओ सिंघार, श्रृंगार

सज्जाद = (سجّاد) बहुत सजदे करने वाला

सज्जादा = (سجّادہ) गद्दी, मुसल्ला, किसी पीर के बैठने का स्थान

सज्जादानशीन = (سجّادہ نشین) किसी पीर का उत्तराधिकारी

सजदा = (سجدہ) नमाज़ के समय ज़मीन पर माथा टेकना, नतमस्तक होना

सज़ा = (سزا) दण्ड, बुराई का बदला, स्कूल में बच्चों को दंड

सड़क = (سڑک) मार्ग, रास्ता

सड़ना = (سڑنا) किसी फल मे कीड़े पड़ना, मृत शरीर से दुर्गन्ध उठना

सत्यानास = (ستیا ناس) बरबादी, विनाश, तबाही

सतर = (ستر) छुपाना, परदा, कमर से घुटने तक का वस्त्र, पंक्ति, रेखा, सतर

सतह = (سطح) स्तर, समतल, तल

सत्तार = (ستّار) छुपाने वाला, ढांपने वाला, अल्लाह का एक नाम

सद = (صد) सौ, शत

सदा = (سدا) हमेशा, नित्य, लगातार

सदा = (صدا) आवाज़, ध्वनि

सद्द = (سد) रुकावट, दीवार, ओट

सद्देबाब = (سدِباب) द्वार बन्द करना, प्रतिबन्ध लगाना, पूरी तरह रोक देना

सन = (سن) दिल धक से हो जाना, एक पौधा जिस की छाल से रस्सी बनती है

सन = (سنہ) वर्ष

सना = (ثنا) प्रशंसा, स्तुति, सराहना, वन्दना, तारीफ़

सनाख़्वानी = (ثناخوانی) स्तुति गान, प्रशंसा गीत गाना, गुणगान

संग = (سنگ) पत्थर, साथ, साहचर्य, सोहबत

संगत = (سنگت) साथी, गाने बजाने के कार्यक्रम में गायक के साथ आवाज़ मिलाने वाले

संगीन = (سنگین) गंभीर, भारी, बोझल, बन्दूक़ के आगे लगने वाला क़रौली जैसा हथियार

संगम = (سنگم) दो नदियों के मिलने की जगह, मुलाक़ात, इकट्ठे होना

संगेमील = (سنگ میل) एक नगर से दूसरे नगर दूरी की बताने वाला पत्थर

संजाब = (سنجاب) दुर्लभ प्रजाति के जानवर की खाल से बना नर्म वस्त्र

संजाफ़ = (سنجاف) झालर, किनारा, वह गोट जो कपड़ों पर सजावट के लिए टांकी जाती है

संजीदा = (سنجیدہ) गम्भीर, भारी भरकम, अनुभवी, हास्य परिहास में न पड़ने वाला

सन्तरी = (سنتری) प्रहरी, पहरेदार, सिपाही

सनद = (سند) प्रमाणपत्र, प्रमाण, उपाधि, डिग्री

सन्नाटा = (سناٹا) अकेला पन, तन्हा होना, आबादी न होना, वीरानी, ख़ामोशी

संभालना = (سنبھالنا) सहारा देना, थामना, रोकना, सहायता करना, गिरने न देना

संवारना = (سنوارنا) किसी चीज़ के रूप को निखारना, विकसित करना, सौंदर्य को बढ़ाना

सनसनाहट = (سنسناہٹ)हाथ पैर या पूरे बदन में झुनझुनी

सनसनी = (سنسنی) भय का वातावरण बनाना, रोमांच के लिये बात को बढ़ाना

सपाट = (سپاٹ) समतल, चटियल, साफ़, सादा

सपाटा = (سپاٹا) झपट, लम्बी दौड़ जो तेज़ी से पूरी की जाए, सैर, घूमना फिरना

सफ़ाहत = (سفاہت)कमीनापन, नीच हरकत, मूर्खता

सफ़्फ़ाक = (سفاک) निर्मम, निर्दयी, हत्यारा, ख़ूनी, बे रहम, अत्याचारी

सफ़्फ़ाह = (سفاح) बहु तरक्त पात करने वाला, स्वाधीनता दिलाने वाला, बहु तबड़ा दानी

सफ़र = (سفر) यात्रा, कूच, दूसरे स्थान के लिये प्रस्थान, रवानगी

सफ़ेदी = (سفیدی) उजाला, अंडे का अंदर का हिस्सा, दीवार पर चूना करवाना

सफ़ीना = (سفینہ) नाव, कश्ती, पानी का जहाज़, अदालती सम्मन, आदेश-पत्र

सफ़ीर = (سفیر) राजदूत, किसी राज्य या देश का प्रतिनिधि

सब = (سب) कुल, तमाम, हर एक, पूरा

सबात = (ثبات) ठहराव, हठ, स्थायित्व, स्थिरता

सबील = (سبیل) पियाऊ, छबील, उपाय, रास्ता, तरीक़ा
सबक़ = (سبق) पाठ, शिक्षा, दण्ड, सीख
सबक़त = (سبقت) बढ़त, किसी से आगे निकलना, पहल करना
सब्ज़ = (سبز) हरा, ताज़ा, कच्चा
सब्ज़ा = (سبزہ) हरियाली, हरा भरा, पेड़ पौधे, घास वाला क्षेत्र
सब्ज़ी = (سبزی) तरकारी, भाजी, साग पात
सब्त = (ثبت) मुद्रांकित, मुहर लगना, पत्थर या मणि पर कोई शब्द खुदा होना
सब्ब = (سب) गाली देना, लानत भेजना, बुरा कहना
सबब = (سبب) कारण, वजह, स्रोत
सम = (سم) ध्वनि, सुर, ताल
समा = (سما) आकाश, आसमान
समाअ = (سماع) सुनना, क़व्वाली की महफ़िल
समाअत = (سماعت) सुनवाई, अदालती कार्वाई, सुनने की शक्ति
समाक़ = (سماق) मार्बल पत्थर, एक प्रकार का संगे मरमर
समाजत = (سماجت) चापलूसी, ख़ुशामद, गिड़गिड़ाना
समाना = (سمانا) पूरा होना, बसना, सुगन्धमय होना, पटियाला के पास सुप्रसिद्ध दरगाह
समीअ = (سمیع) सुनने वाला, ख़ुदा का एक नाम
समीन = (ثمین) बहुमूल्य अष्टमुखी, आठ भुजाओं वाला
समेटना = (سمیٹنا) इकट्ठा करना, जमा करना, पूरा करना, संभालना
समैत = (سمیت) साथ में, संग, इकट्ठे
समूम = (سموم) ज़हरीली हवा, विषाक्त वायु, विषैली हवा
समझौता = (سمجھوتہ) सन्धि, सहमति, आपसी अनुबंध, एग्रीमेंट
सम्त = (سمت) दिशा, ओर, तरफ़, रास्ता (सिम्त)
समां = (سماں) समय, वक़्त, रौनक़, तमाशा, सैर, मौसम, अवसर, ऋतु, रंग
समन = (ثمن) मूल्य, महत्व, क़ीमत
संबोसा = (سنبوسہ) समोसा, तिकोना
सम्म = (سم) विष, ज़हर
समर = (ثمر) फल, मेवा, परिणाम, बदला, उपज
सरा = (سرا) घर, हवेली, ठहरने

की जगह, धर्मशाला, यात्री निवास, सराए

सरापा = (سراپا) हुलिया, सर से पैर तक हर अंग की प्रशंसा वाला काव्य

सराब = (سراب) मृगतृष्णा, भ्रम, मिराज

सरासीमा = (سراسیمہ) घबराया हुआ, चिंतित, परेशान

सरासर = (سراسر) पूरा, कुल, तमाम, एक सिरे से दूसरे सिरे तक

सराहना = (سراہنا) तारीफ़ करना, दाद देना, प्रशंसा करना, सराहनीय शब्द

सरीअ = (سریع) जल्दी करने वाला, तेज़, त्वरित, तुरंत

सरोश = (سروش) आकाश-वाणी, ईश्वर का संदेश लाने वाले फ़रिशते हज़रत जिबरईल

सरौता = (سروتہ) छालिया या गंडेरी काटने वाला यन्त्र

सरकाना = (سرکانا) आगे बड़ाना, दूसरी तरफ़ खिसकाना, छुपना, उड़ा देना,रिश्वत देना

सरकार = (سرکار) शासन, हुकूमत, स्वामी, शाही, सम्मान व्यक्त करने वाला शब्द

सरक़ा = (سرقہ) चोरी

सरगर्मी = (سرگرمی) गतिविधि, दौड़ धूप, परिश्रम, कोशिश

सरगोशी = (سرگوشی) काना फूसी, चुपके से कुछ कहना, चुग़ली, कान में बात करना

सर्द = (سرد) ठंडा, नीरस, धीमा, मन्द, मुर्दा, नपुंसक

सर्दी = (سردی) जाड़ा, शीत ऋतु, ठंड, ज़ुकाम, कपकपी, शीतकाल

सरपट = (سرپٹ)घोड़े के भागने की बहुत तेज़ गति

सरपरस्त = (سرپرست) अभिभावक, संरक्षक

सरफ़रोश = (سرفروش) जान देने पर हर समय तैयार, दिलेर, जांबाज़

सरबराह = (سربراہ) मुखिया, प्रधान, प्रमुख

सरबरहैना = (سربرہنہ) नंगे सिर, बिना टोपी पहने, बिना सिर पर चादर डाले

सरनिगूँ = (سرنگوں) झुकना, औंधा, सर के बल, शर्मिंदा

सरमा = (سرما) जाड़ा, सर्दी का मौसम, ठंड

सरमाई = (سرمائی) शीतकालीन, जाड़े से सबन्धित, ठंड में प्रयोग होने वाला

सरमायादारी = (سرمایہ داری) पूंजीवाद, कैपिटलइज़्म

सरमायाकारी = (سرمایہ کاری) पूंजी निवेश, किसी व्यवसाय में रूपया लगाना, इंवेस्टमेंट

सरमद = (سرمد) हमेशा रहने वाला, दिल्ली के मशहूर सूफ़ी शायर जिनकी हत्या औरंगज़ेब के आदेश पर हुई

सर्वत = (ثروت) रुसूख़, अपार धन, अधिकार क्षेत्र, समृद्धि

सरवर = (سرور) बादशाह, शासक, हाकिम

सरसराहट = (سرسراہٹ) हवा से पत्तों के हिलने की अवाज़, सांप या कीड़ों के रेंगने की आवाज़

सरसरी = (سرسری) उचटती, चलते चलते, बिना महत्व दिये

सरहद = (سرحد) सीमा, किनारा, बार्डर

सलाख़ = (سلاخ) गोल छड़, लोहे का राड, सरिया

सलाम = (سلام) सकुशल रहने की दुआ, अभिनन्दन, नमाज़ के समापन पर कहे जाने वाले शब्द

सलामी = (سلامی) सम्मान व्यक्त करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, अंतिम विदाई

सलाम कराई = (سلام کرائی) कन्या पक्ष के बुज़ुर्गों द्वारा दूल्हा को दी जाने वाली धनराशि

सलामत = (سلامت) सुरक्षित, दीर्घायु, स्वस्थ रहने की कामना, कुशल क्षेम

सलासा = (ثلاثہ) तीन

सलासिल = (سلاسل) बेड़ियाँ, कड़ियाँ, बन्दी के पैर में डाली जाने वाली ज़ंज़ीर

सलासत = (سلاست) लेखन में रवानी, नर्मी, कठिन शब्दों का प्रयोग न होना

सलीक़ा = (سلیقہ) सुगड़पन, बात करने का हुनर, जगह के अनुसार आचरण बोध होना

सलीम = (سلیم) ठीक, उचित, चंगा, सादा दिल, अच्छे हृदय वाला

सलीस = (سلیس) आसान, सहज, साधारण लोगों की समझ में आने वाली भाषा

सल्तनत = (سلطنت) साम्राज्य, राज्य, देश, अधिकार क्षेत्र

सलफ़ = (سلف) पूर्वज, पिछ्ले युग के लोग, दादा पर-दादा

सलफ़ी = (سلفی) एक मुस्लिम वर्ग

सलसबील = (سلسبیل) स्वर्ग की एक नदी का नाम, शराब, सुखद वस्तु

सिलसिला = (سلسلہ) श्रृंखला, कड़ियाँ, ज़ंजीर, लड़ी, वंश, सम्बंध

सलम = (سلم) अग्रिम धनराशि, किसी चीज़ की क़ीमत एडवांस में दे देना

सलमा = (سلمیٰ) महबूबा, प्रेमिका

सलमा = (سلمہ) सोने चांदी के पतले फ़ीते को बट कर बनाया जाने वाला लचीला तार

सहाब = (سحاب) बादल, घटा

सहार = (سہار) सहन, धीरज, धैर्य

सहारा = (سہارا) थामना, सहायता, विश्वास, मदद करना, आशा करना

सही = (سہی) सीधा, स्वीकार्य, बर्दाश्त करना

सहीह = (صحیح) ठीक, उचित, त्रुटि रहित

सहेली = (سہیلی) सखी, किसी महिला की महिला मित्र, हम जोली

सहूलत = (سہولت) सुविधा, आसानी

सहना = (سہنا) बर्दाशत करना, झेलना, धैर्य से काम लेना

सहर = (سحر) भोर, सवेरा, तड़का, उषा

सहम = (سہم) डर, भय, हिस्सा, भाग

सहल = (سہل) सुलभ, सुविधाजनक, आसान, उपभोक्ता / उपयोगकर्ता के अनुकूल

सहलाना = (سہلانا) हल्के हल्के हाथ फेरना, चुमकारना, थपकना

सहव = (سہو) भूल चूक, ग़लती

सवाद = (سواد) कालक, आस पास, उप नगरीय क्षेत्र, निकटवर्ती

सवादे आज़म = (سوادِ اعظم) महानगर, बड़ी संख़्या, बहु संख्यक

सवाल = (سوال) प्रश्न, पूछना, कुछ मांगना, समस्या, संदेह उत्पन्न करना

सवानेह = (سوانح) जीवनी, आत्म कथा

सवाब = (ثواب) अच्छे काम का पुरस्कार, इनाम, फल

सवार = (سوار) जो पैदल ना हो, किसी सवारी पर चढ़ा हुआ, मस्त, मतवाला

सवारी = (سواری) यात्रा का वाहन, यात्री, किसी बुरी आत्मा या जिन्न का सवार होना

सवीक़ = (سویق) सत्तू

सवेर = (سویر) शीघ्र, प्रथम, पहले, समय से पूर्व

सवेरा = (سویرا) भोर, सुबह का समय, प्रकाश का फैलना

सय्याह = (سیاح) सैलानी, पर्यटक, टूरिस्ट, सैर सपाटे के लिए निकलने वाला

सय्यारा = (سیارہ) ग्रह

सय्याल = (سیال) द्रव, तरल पदार्थ

सय्यद = (سید) सरदार, नेता, इमाम, पैग़म्बर हज़रत मोहम्मद की बेटी हज़रत फातिमा के वंशज

सा = (سا) जैसा, मिलता जुल्ता

साएबान = (سائبان) घर के आगे या छत पर लगाया गया शेड, छप्पर, कपड़े की छत

साएमा = (سائمہ) चराई पर निकला मवेशी

साएमा = (صائمہ) रोज़ादार लड़की

साएर = (سائر) सैलानी, घूमने फिरने वाला, सैर सपाटा करने वाला

साएल = (سائل) भिखारी, मांगने वाला, भिक्षुक , सवाल करने वाला

साअत = (ساعت) घड़ी, घंटा, लम्हा, पल, समय बताने वाली घड़ी, निश्चित समय

साकित = (ساکت) शांत, चुप, स्तब्ध, निष्क्रिय

साकिन = (ساکن) निवासी, रहने वाला, ठहरा हु आ, स्थिर

साक़ित = (ساقط) गिरना, रद होना, अस्वीकृत

साक़िब = (ثاقب) चमकीला, चमकदार, उज्ज्वल, रौशन

साक़ी = (ساقی) शराब पिलाने वाला

साख = (ساکھ) प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, एतिबार

साख़्त (ساخت) बनावट, संरचना, डिज़ाइन

साग़र = (ساغر) प्याला, जाम, कुल्हड़, शराब पीने का गिलास

साजिद = (ساجد) सिर झुकाने वाला

साज़ = (ساز) सामान, अस्त्र शस्त्र, मेल जोल, अनुकूल, बनाने वाला, वाद्य यंत्र

साज़िश = (سازش) षड़यंत्र, मिलीभगत, क़ानून विरोधी गतिविधियां

साज़िंदा = (سازندہ) संगीतज्ञ, वाद्य यन्त्र बजाने वाला

साथी = (ساتھی) संग रहने वाला, मित्र, हमराही, सहयोगी

साबित = (ثابت) सिद्ध, पूरा, सर्वमान्य, सच्चा

सादा = (سادہ) कोरा, बिना लिखा हु आ, सरल, आसान, साधारण, भोला-भाला

सादगी = (سادگی) सरल आचरण, साधारण रूप

सान = (سان) इशारा, निशान, चिन्ह, पता लगना, धार करने वाला पत्थर

सानी = (ثانی) दूसरा, द्वितीय,

तुल्य, समकक्ष, जोड़

सानिहा = (سانحہ) त्रासदी, शोकपूर्ण घटना, बड़ी दुर्घटना

सानिया = (ثانیہ) दूसरी, पल, सेकेंड, घड़ी

सानवी = (ثانوی) माध्यमिक, द्वितीयक, सेकन्डेरी

सांस = (سانس) श्वास, फूंक, दरार, भांप

साबिक़ = (سابق) पूर्व, भूतपूर्व, पिछले युग का, आगे जाने वाला

साबिक़ा = (سابقہ) पुरानी परम्परा, किसी से पाला पड़ना, जान पहचान

साबरी = (سابری) खजूरों की सब से उच्च प्रजाति, उच्च कोटि का कपड़ा

सामान = (سامان) माल, आवश्यक वस्तुएं, उपकरण, अस्त्र शस्त्र

सामेईन = (سامعین) श्रोता, सुनने वाले

सामना = (سامنا) मुक़ाबला, मुठभेड़, बेपरदा हो कर मिलना, मुलाक़ात

सामराज = (سامراج) साम्राज्यवाद, बादशाहत, अलोकतांत्रिक शक्तियां

साया = (سایہ) छांव,पेड़ की छाया, भूत प्रेत का प्रभाव, संरक्षण

साया = (سایا) महिलाओं का लहँगा या घाघरा

सारा = (سارا) सब का सब, तमाम, कुल

सारा = **(سارہ)** शुद्ध, बेहतरीन, सुगंधित, रस

सारिक़ = (سارق) चोर

सारबान = (ساربان) ऊंट हाँकने वाला

साल = (سال) वर्ष, बरस

सालार = (سالار) प्रधान, सेना प्रमुख, सरदार, सेनापति, नेतृत्व करने वाला

सालिक = (سالک) यात्री, राह चलने वाला, जो दुनियादार भी हो और ईश्वर को भी पाना चाहे

सालिस = (ثالث) तीसरा, बिचौलिया, मध्यस्थ, तृतीय

सालिसी = (ثالثی) पंचायत, मध्यस्थता, दो पक्षों के बीच समझौता कराना

साहिर = (ساحر) जादू करने वाला

साहिल = (ساحل) समुंद्र या नदी का किनारा

सिकना = (سکنا) आग पर तपाया जाना, करारा करना, सेंकना

सिखाना = (سکھانا) प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना, समझाना, बहकाना, पट्टी पढ़ाना

सिड़ी = (سڑی)पागल, मानसिक

रूप से बीमार, दीवाना

सितान = (ستان) स्थान, जगह, ठिकाना

सितारा = (ستارہ) तारा, नक्षत्र, गोल चमकदार टुकड़े जो आंचल में टांके जाते हैं

सितवत = (سطوت) रोब, शान, क्रोध, क़हर

सितम = (ستم) अत्याचार, ज़ुल्म, कष्ट पहुंचाना, अन्धेर

सिन = (سن) आयु, उम्र

सिनान = (سنان) भाला, बल्लम की नोक, बरछी (सिनां)

सिपारी = (سپاری) बलिदान, क़ुर्बान करना, फिदा करना

सिपास = (سپاس) धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति

सिपाह = (سپاہ) सेना, फ़ौज, लश्कर

सिपाह सालार = (سپاہ سالار) सेनापति, कमांडर इन चीफ़, सेना प्रमुख

सिपाही = (سپاہی) सैनिक, योद्धा, पुलिस वाला, फ़ौजी, संतरी

सिपर = (سپر) ढाल, आड़, रोक, कवच

सिफ़ारतख़ाना = (سفارت خانہ) दूतावास, राजदूत का कार्यालय, एम्बेसी

सिफ़ारिश = (سفارش) अनुशंसा, काम करवाने के लिये सक्षम व्यक्ति से ज़ोर लगवाना

सिफ़ाल = (سفال) मिट्टी, ठीकरा

सिफ़्त = (سفت) मोटा, गाढ़ा

सिफ़्ल = (سفل) नीचा, उतार, ढलान

सिफ़ली = (سفلی) जादू टोना, तन्त्र मंत्र, आत्माओं को वश में करना

सिबाक़ = (سباق) संदर्भ, दौड़ में आगे बढ़ना, गणित में प्रवीण होना

सिब्त = (سبط) बेटे या बेटी की औलाद , नवासा या पोता, ग्रैंडसन

सिमटना = (سمٹنا) सुकड़ना, इकट्ठे होना, सरक जाना

सिर = (سر) सर, खोपड़ी, चोटी, शीश, स्वामी, मालिक

सिरा = (سرا) किनारा, अंत, प्रारम्भ

सिराज = (سراج) प्रकाश, दीपक, सूर्य

सिरहाना = (سرہانا) सिर रखने की जगह, तकिया, क़ब्र का उपरी भाग

सिवा = (سوا) अतिरिक्त, अलावा, बग़ैर, बिना, फ़ालतू

सिव्वइयाँ = (سوئیاں) सेवई, भारतीय मुसलमानों के घर में बनने वाला ईद का मीठा व्यंजन

सिव्वुम = (سوم) तृतीय, तीसरा

सिल = (سل) तपेदिक़, क्षय रोग, टी बी, मसाला पीसने वाला पत्थर

सिलफची = **(سلفچی)** हाथ धोने का बर्तन

सिसकी = (سسکی) दर्द के कारण दांत भींच कर सांस लेना, ज़्यादा रोने से साँसें उलटना

सियाक़ = (سیاق) संदर्भ, विषय से सम्बंधित, गणित, गिनती

सियादत = (سیادت) नेतृत्व, सरदारी, अध्यक्षता, शासन

सियाना = (سیانا) कंजूस, चालाक, समझदार, होशियार

सियार = (سیار) गीदड़

सियासत = (سیاست) राजनीति, पॉलिटिक्स

सियाह = (سیاہ) काला, मनहूस, अशुभ

सियाही = (سیاہی) कालक, अंधेरा, रौशनाई, इंक

सीख़ = (سیخ) लोहे की सरिया जिस पर कबाब भूनते हैं

सीधा = (سیدھا) सज्जन, शरीफ़, खरा, सरल, आसान, स्पष्ट, दाहिनी ओर, डायरेक्ट

सीढ़ी = (سیڑھی) ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने का साधन, ज़ीना

सींक = (سینک) झाड़ु की तीली

सीना = (سینہ) छाती, शरीर में सामने से गर्दन और पेट के बीच का भाग

सीनाकूबी = (سینہ کوبی) मातम करना, छाती पीटना

सीम = (سیم) चांदी, रूपया, धन

सीमा = (سیما) माथा, मुख, चेहरा

सीमाब = (سیماب) पारा, मरकरी

सीर = (سیر) लहसुन, लस्सन

सीरत = (سیرت) चरित्र, आदत, स्वभाव, गुन, कौशल, पैग़म्बर साहिब की जीवनी

सीलन = (سیلن) दीवारों और छतों में नमी आना

सुकूत = (سکوت) सन्नाटा, ख़ामोशी

सुकून = (سکون) शांति, चैन, ठहराव, शांत

सुकूनत = (سکونت) वास, स्थाई निवास, रहने की जगह, घर, मकान

सुकड़ना = (سکڑنا) घट जाना, जकड़ाव, ऐठन, सिमटना, कम होना (सिकुड़ना)

सुक़्म = (سقم) ख़रबी, त्रुटि, ऐब

सुक़ूत = (سقوط) गिर पड़ना, बरबादी, किसी राज्य पर विरोधी सेना का क़ब्ज़ा हो जाना

सुख़न = (سخن) बात, काव्य, बोल, गुफ़्तगु

सुख़न परवर = (سخن پرور) अच्छी बात करने वाला, कवि, लेखक

सुडौल = (سڈول) खुशनुमा, सुंदर, आनुपातिक

सुड़कना = (سڑکنا) निगल जाना, हड़प कर जाना, नाक से दवाई लेना

सुतून = (ستون) खम्भा, स्तंभ, लाट, मीनार, पिलर

सुतवां = (ستواں) पतली, नाज़ुक

सुथरा = (ستھرا) स्वच्छ, साफ़, उजला, बेदाग़

सुन = (سُن) संवेदनहीन, निष्क्रिय, मूर्छित, छूने पर पता ना चलना

सुनाना = (سُنانا) कहना, रचना प्रस्तुत करना, किसी को बुरा भला कहना, गाली देना

सुनार = (سنار) सोने के आभूषण बनाने वाला

सुनी = (سُنی) बात सुनना, बात मान लेना

सुनी-सुनाई = (سنی سنائی) अफ़वाह, सुनी हुई बात, हवाई बात

सुनैहरा = (سنہرا) स्वर्णिम, सोने के रंग का, पीला

सुन्नत = (سنت) अनुसरण, रास्ता, तरीक़ा, पैग़म्बर साहिब के आचरण का अनुसरण

सुन्नी = (سنی) मुस्लिम वर्ग

सुंबुला = (سنبلہ) कन्या राशि, जटा मासी, केश जैसी लता, विर्गो

सुनसान = (سنسان) एकांत, उजाड़, डरावना, वीरान

सुपारी = (سپاری) छलिया, डली, किसी को मारने का ठेका लेना

सुपुर्द = (سپرد) हवाले करना, सौंपना (सिपुर्द)

सुफ़ूफ़ = (سفوف) चूर्ण, पाउडर, पिसी हुई दवाई

सुफ़्ता = (سفتہ) छेदा हुआ, सूराख़ किया हुआ

सुफ़रा = (سفرہ) भोजन, खाना

सुबुक = (سبک) हल्का, कम भार वाला, तेज़, चुस्त, चालाक

सुबकी = (سبکی) झेंप, लज्जा, शर्मिंदगी

सुबुकदोश = (سبکدوش) कांधो पर से बोझ उतरना, सेवा निवृत्त होना ,पद मुक्त होना

सबूत = (ثبوت) प्रमाण, साक्ष्य

सुबह = (صبح) भोर, प्रातः काल, सवेरा

सुबहा = (سبحہ) माला, तस्बीह

सुबहान अल्लाह = (سبحان اللہ) अल्लाह की कुदरत के क्या कहने, प्रशंसा करने का शब्द

सुम्मा = (ثمّ) फिर, पीछे, बाद

सुम = (سم) घोड़े या गधे का पांव

सुर = (سر) राग, रागनी, धुन, स्वर

सुरअत = (سرعت) तीव्र, त्वरक, तेज़ी, जल्दी, शीघ्र, त्वरित

सुराग़ = (سراغ) खोज, उंगली या पैर का निशान, पता, तलाश

सुरीला = (سریلا) अच्छा गाने वाला, जो सुर को सही तरह अदा करने वाला गायक

सुरूर = (سرور) मस्ती, हल्का सा नशा, ख़ुशी, ताज़गी

सुरैय्या = (ثریا) सप्तर्षि तारामन्डल, सात सितारों का समूह, तारों का झुरमुट

सुर्ख़ = (سرخ) लाल, रेड

सुर्ख़ी = (سرخی) लाली, शीर्षक, समाचार की हेड लाइन

सुर्ख़रू = (سرخرو) सफल, सम्मान प्राप्त करने वाला

सुरंग = (سرنگ) धरती के नीचे बना रास्ता, बारूद से अस्त्र, गुप्त मार्ग, टनल, माईन

सुरमगीं = (سرمگیں) सुरमा लगी आँखें

सुलूक = (سلوک) व्यवहार, आचरण, बर्ताव, रवय्या

सुल्तान = (سلطان) सम्राट, बाशाह, राजा, शासक

सुलफ़ = (سلف) घरेलू उपयोग की वस्तुएँ, सौदा, सामान

सुलफ़ची = (سلفچی) छोटे छोटे सामान रखने का डिब्बा

सुवारत = (سوارت) किसी चीज़ उचित उपयोग, व्यर्थ जाने वाला भोजन खा कर ख़त्म करना

सुस्त = (سست) धीमा, हर काम में देर लगाने वाला, हल्के चलने वाला

सू = (سو) तरफ़, ओर, दिशा

सूक़ = (سوق) बाज़ार

सूखा = (سوکھا) अकाल, वर्षा ना होने के कारण उपज ना होना, दुबला पतला, निर्बल

सूंघना = (سونگھنا) गन्ध लेना, बास लेना, महक मालूम करना

सूज़न = (سوزن) सूई

सूरज = (سورج) सूर्य

सूराख़ = (سوراخ) छेद, मोखा, झिरी

सूरत = (صورت) शक्ल, मामला, रास्ता, कुरआन का कोई अध्याय

सूद = (سود) ब्याज

सूना = (سونا)निर्जन, ख़ाली, ग़ैर-आबाद, उजाड़, अकेला

सूली = (سولی) फांसी का तख़्ता, वह खम्भा जिस पर फांसी पाने

वाले लटकाए जाते हैं

सूसन = (سوسن) आसमानी रंग का एक फूल

सेज = (سیج) फूलों का बिस्तर, चारपाई, पलंग

सेजना = (سیجنا) उबलना, खौलना, पसीना बहाना, रिसना, पिघलना, ऋण उतारना

सेंकना = (سینکنا) गर्मी पहुंचाना, सिकाई करना, तापना

सेंत = (سینت) निशुल्क, मुफ़्त, बिना कारण

सेंत रखना = (سینت رکھنا) कोई वस्तु भविष्य में उपयोग के लिये उठा कर रख देना

सेर = (سیر) पेट भरा, तृप्त, पुराने ज़माने में भार करने का बांट

सेराब = (سیراب) जिसकी प्यास बुझ गई हो, सिंचित, तर

सेहरा = (سہرا) दूल्हा के माथे पर बांधे जाने वाले फूलों की लड़ियां, विवाह पर लिखा गया काव्य

सैफ़ = (سیف) तलवार, शमशीर

सैर = (سیر) टहलना, घूमना फिरना, तफ़रीह, वाक करना

सैलाब = (سیلاب) बाढ़, पानी का चढ़ाव, नदी में जल स्तर बढ़ना

सो = (سو) वह, जो, तो, इस लिए

सोख़्ता = (سوختہ) जला हुआ, झुलसा हुआ, ब्लॉटिंग पेपर

सोग = (سوگ) शोक, वह अवधि जिसमें ख़ुशी के समारोह नहीं होते

सोगवार = (سوگوار) शोक मनाने वाला, शोक संतप्त

सोच = (سوچ) विचार, ध्यान, चिंता, परेशानी

सोज़ = (سوز) जलन, दुख, इमाम हुसैन की याद में पढ़ा जाने वाला शोक काव्य

सोज़िश = (سوزش) जलन खौलन, दर्द, तकलीफ़

सोना = (سونا) स्वर्ण, नींद, निद्रा, आंख लगना, आराम करना

सोब = (ثوب) वस्त्र, कपड़ा, लिबास, अरब के पुरुष जो लम्बा सा कुर्ता पहनते हैं

सोहान = (سوہان) रेती, लकड़ी या लोहे को रेतने वाला कांटेदार यन्त्र

सोहाने रूह = (سوہان روح) आत्मा का दुख पहुंचाने वाला, मन को कष्ट देने वाली कोई चीज़

सोहन = (سوہن) एक प्रकार का ईरानी हलवा जिसे भारत में

पपड़ी हलवा कहते हैं

सौ = (سو) शत

सौग़ात = (سوغات) भेंट, तोहफ़ा, उपहार, स्मृति चिन्ह

सौदा = (سودا) जुनून, धुन, ख़रीदी हुई चीज़, व्यापार, घरेलु उपयोग का सामान

सौदागर = (سوداگر) व्यापारी, सामान बेचने वाला

सौदाई = (سودائی) दीवाना, पागल, किसी की धुन में मस्त

सौंपना = (سونپنا) किसी पर विश्वास कर के कोई चीज़ निगरानी में देना, हवाले करना

सौर = (ثور) बैल

ह (ح، ہ، ھ)

हाए = (ہائے) दुख,पीड़ा, चोट और कष्ट में प्रयोग होने वाला शब्द

हाएं = (ہائیں) रोकने और टोकने के लिये प्रयोग होने वाला शब्द

हाएल = (حائل) अड़चन, रुकावट, बीच में आ जाने वाला

हकीम = (حکیم) बुद्धिमान, होशियार, वैद्य, उपचारक, रोग का निदान करने वाले

हक्क = (حک) रगड़ना, खुरचना, छीलना, दूर करना

हक्का बक्का = (ہکا بکا) आश्चर्य चकित, हैरान, भौचक्का हो जाना

हकम = (حکم) न्याय धीश, मध्यस्थ, सरपंच

हकलाना = (ہکلانا) अटक अटक कर बोलना

हक़ = (حق) सत्य, ठीक, सच्चाई, अधिकार, न्याय, योग्य, पुरस्कार, पारिश्रमिक

हक़ाएक़ = (حقائق) वास्तविकता, सच्चाई, असली बात

हक़ीक़त = (حقیقت) सच्चाई, तथ्य, वास्तविकता, भेद

हक़ीक़ी = (حقیقی) सगा, असली, जो बनावटी न हो, खरा, सत्यता पर आधारित

हज = (حج) मुसलमानों की तीर्थयात्रा, सऊदी अरब में होने वाला वार्षिक पर्व

हजामत = (حجامت) सिर मूंडना, किसी की पिटाई करना, किसी को ठग लेना

हजो = (ہجو) आलोचना, निंदा, किसी की निंदा में लिखा गया काव्य

हज्जाम = (حجام) बारबर, केश सज्जा करने वाला, शेव बनाने वाला कारीगर

हज्म = (حجم) आयतन, मोटाई, फैलाव, जगह घेरने के क्षमता

हजर = (حجر) पत्थर

हजला ए ऊरूसी = (حجلۂ عروسی) दुल्हन के लिये फूलों से सजाया गया कमरा

हज़र = (ہذر) बकवास, बहुत बोलना, बक बक करना

हज़र = (حذر) इंकार, ख़तरा, डर, एहतियात

हज़ार = (ہزار) सहस्त्र

हज़ारा = (ہزارہ) पौधों में पानी देने वाला फ़व्वारा, लाले का फूल, एक अफ़ग़ानी क़बीला

हज़ारत = (حضارت) नगर में रहना, शहरी ज़िंदगी

हज़ीन = (حزین) दुखी, शोकाकुल, व्याकुल

हज़ीमत = (ہزیمت) पराजय, हार, पीछे हटना

हज़ीरा = (حظیرہ) लकड़ी या लोहे का घेरा, मक़बरे का गुंबद, क़ब्र पर रखा जाने वाला चौखटा

हज़्फ़ = (حزف) निकालना, दूर करना, किसी शब्द या वाक्य को हटाना, डिलीट करना

हज़्म = (حزم) सावधानी बरतना, सचेत रहना, दूरदर्शिता

हज़्म = (ہضم) पाचन, खा जाना, डकार जाना

हज़रत = (حضرت) श्री, श्रीमान, आदरणीय, मिस्टर,चालाक, चालू, होशियार, चलता पुर्ज़ा

हज़ल = (ہزل) व्यंगात्मक काव्य, हास्य ग़ज़ल

हड़क = (ہڑک) कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी, रेबीज़

हड़काना= (ہڑکانا) किसी को धमकाना, किसी पर रोब झाड़ना, तरसाना, भड़काना

हड़ताल = (ہڑتال)काम बंदी, स्ट्राईक, उत्पीड़न के विरोध में बंद का आयोजन

हड़प = (ہڑپ) बिना चबाए खा जाना, बेईमानी किसी का माल डकार जाना

हड़बड़ी = (ہڑبڑی) घबराहट, उतावला पन, हलचल

हड़बौंग = (ہڑبونگ) व्यवस्था बिगड़ना, खलबली, अफ़रा तफ़री, शोर शराबा, उधम

हटधर्मी = (ہٹ دھرمی) अड़ियल पन, अन्याय, बेईमानी

हताम = (حطام) बबर शेर

हतौड़ी = (ہتوڑی) लोहारों और बढ़इयों का औज़ार

हतक = (ہتک) निरादर, अपमान, रूसवाई

हतक ए इज़्ज़त = (ہتک عزت) मानहानि, बदनाम करना

हत्ता = (حتیٰ) यहाँ तक, फिर भी, जब तक, जहाँ तक

हत्ताब = (حطاب) लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला

हत्मी = (حتمی) पक्का, अंतिम, परम

हथियार = (ہتھیار) अस्त्र शस्त्र, युद्ध का सामान

हथियाना = (ہتھیانا) ज़बरदस्ती क़ब्ज़ा करना, बल पूर्वक कोई चीज़ छीन लेना

हथेली = (ہتھیلی) हाथ के पंजे का अंदरूनी भाग

हथकड़ी = (ہتھکڑی) अपराधियों के हाथ में पहनाई जाने वाली ज़ंजीर , हैंड कफ़

हथकंडा = (ہتھکنڈا) चालबाज़ी, धोखा देना, घात लगाना, चालाकी, अनुचित तरीक़े अपनाना

हद = (حد) सीमा, परिधि, अधिकार क्षेत्र, औक़ात

हदिया = (ہدیہ) उपहार, भेंट, तोहफ़ा, नज़राना, पवित्र पुस्तक की क़ीमत

हदीक़ा =(حدیقہ) चहार दीवारी से घिरा बाग़, खजूर का बाग़

हदीद = (حدید) लोहा

हदीस = (حدیث) कहानी, पुराने युग की कोई कथा, नई चीज़, पैग़म्बर साहिब का कथन

हदफ़ = (ہدف) लक्ष्य, निशाना, टारगेट

हदब = (حدب) टीला, उंची ज़मीन, कुबड़ा पन

हदरना = (ہدرنا) कांपना, थरथराना, हिलना

हदस = (حدث) पादना, नई चीज़, अविष्कार, अजूबा, शौच

हंग = (ہنگ) भारी भरकम पन, इरादा, बल, सेना

हंगाम = (ہنگام) समय, वक़्त, अवसर, ज़माना

हंगामा = (ہنگامہ) दंगा, फ़साद, बलवा, गड़बड़, उपद्रव, अराजकता

हंगामी = (ہنگامی) आपात, आकस्मिक

हंजार = (ہنجار) रास्ता, मार्ग, तारीक़ा, चलन

हनान = (حنّان) बहुत कृपा करने वाला, परम कृपालु

हनीफ़ = (حنیف) हज़रत इब्राहीम के धर्म को मानने वाला, अपने धर्म का पक्का व सच्चा

हनूज़ = (ہنوز) अभी तक, अब तक, अभी, इस समय तक

हनूत = (حنوط) लाश को सुरक्षित रखने के लिये प्रयोग होने वाले रसायन

हंकाना = (ہانکنا) खदेड़ना, भगाना, हकाना, हाँकना

हंडाना = (ہنڈانا) तड़ी पार करना, देश से निकालना, फिराना, प्रसार व प्रचार करना

हनफ़ी = (حنفی) सुन्नी मुसलमान जो इमाम अबू हनीफ़ा के बताए रास्ते पर चलते हैं

हंबली = (حنبلی) सुन्नी मुसलमान जो इमाम हंबल के बताए रास्ते पर चलते हैं

हफ़ीज़ = (حفیظ) रक्षक, पहरेदार, अल्लाह का एक नाम

हफ़्ता = (ہفتہ) सप्ताह, शनिवार, सनीचर

हफ़्त नामा = (ہفت نامہ) साप्तहिक पत्र, वीकली

हबाब = (حباب) पानी का बुलबुला, एक आभूषण, घर में सजाए जाने वाले शीशे

हबीब = (حبیب) प्यारा, दोस्त, निकटतम मित्र

हब्ब = (حب) दवा की गोली, टिकिया, बीज, टेबलेट

हब्बा = (حبّہ) दाना, दुंका, ज़रा सा, तनिक

हब्ल = (حبل) एकता, सहमति, रस्सी, जोड़, रग

हबशी = (حبشی) अफ़्रीक़ा के मूल नागरिक

हब्स = (حبس) हवा ना चलना, घुटन, क़ैद, कारावास

हब्से दवाम = (حبس دوام) उम्र क़ैद, अजीवन कारावास

हम = (ہم) मैं और मेरे साथी, मैं के स्थान पर लखनऊ वाले ख़ुद को हम कहते हैं

हमीद = (حمید) जिस की बहुत स्तुति की जाती हो

हमीम = (حمیم) गर्म पानी, मित्र, रिश्तेदार, ग्रीष्म ऋतु की मध्यावधि

हमाएल = (حمائل) गले में पहना जाने वाला छोटा सा क़ुरआन, तलवार लटकाने का तस्मा

हमए = (ہمہ) सब, कुल, सारा, तमाम

हमें = (ہمیں) हम सब को, मुझको, हम तमाम लोगों को

हमेशा = (ہمیشہ) सदा, सदैव, आये दिन, नित्य, हर दम

हमज़ा = (حمزہ) शेर, बाघ

हमज़ुल्फ़ = (ہم زلف) साढ़ू, दो बहनों के पति

हम्द = (حمد) प्रभु की स्तुति, ईश्वर की वंदना

हमनशीन = (ہم نشین) साथ बैठने वाला, मित्र, साथी, संगी

हमबिस्तरी = (ہم بستری) यौन सम्बंध स्थापित करना, एक साथ सोना, संभोग करना

हम्माद = (حمّاد) बहुत अधिक स्तुति या वंदना करने वाला

हम्माम = (حمام) स्नान गृह, बाथरूम, स्नानागार

हम्माल = (حمّال) भार उठाने वाला, कुली, श्रमिक, मज़दूर

हम्मियत = (حمیّت)लज्जा, शर्म, लाज

हमल = (حمل) गर्भ में शिशु होना, बोझ, भार

हमला = (حملہ) धावा बोलना, चढ़ाई करना, हल्ला, वार, चोट

हमल इस्क़ात = (حمل اسقاط) गर्भ-पात

हमवार = (ہموار) प्रशस्त, बराबर, निर्बाध

हमशीर = (ہمشیر) सगे भाई बहन, एक ही माँ का दूध पीने वाले

हमशीरा = (ہمشیرہ) बहन

हमसाया = (ہم سایہ) पड़ोसी

हमसुख़न = (ہم سخن) बात करने वाला, साथी, मित्र

हराम = (حرام) प्रतिबन्धित, निषिद्ध, जिस की धर्म अनुमति न दे, नापाक, अपवित्र

हरारत = (حرارت) ताप, गर्मी, हल्का बुख़ार, जोश, ग़ुस्सा

हर्राफ़ा = (حرّافہ) मक्कार औरत, चालाक महिला

हरावल = (ہراول) सेना की सर्व प्रथम टुकड़ी, सेना का नेतृत्व करने वाला घुड़सवार दस्ता

हरीक़ = (حریق) जली हुईचीज़

हरीफ़ = (حریف) प्रतिद्वंद्वी, विरोधी, प्रतियोगी, मुक़ाबला करने वाला, बुरा चाहने वाला

हरीम = (حریم) घर की चहार दीवारी, पवित्र काबा परिसर की बाहरी दीवार

हरीमा = (حریمہ) रुकावट, निषेध, मनाही

हरीरी = (حریری) रेशमी वस्त्र, महीन, पतला

हरीस = (حریص) लालची, ईर्ष्या करने वाला, पेटू, देखा देखी काम करने वाला

हरकत = (حرکت) गतिविधि, कार्यकलाप, गति, गायक द्वारा गायन को प्रभाव शाली बनाना

हरगिज़ = (ہرگز) कभी नहीं, किसी क़ीमत पर नहीं

हर्ज = (ہرج) आपत्ति की बात, बलवा, उपद्रव, गड़बड़ी, घाटा

हरज = (حرج) नुक़सान, हानि, देर, कमी

हरजाना = (ہرجانہ) किसी के नुक़सान की भरपाई, अर्थदंड, तावान

हरज़ा = (ہرزہ) बेहूदा, अनुचित, बेतुका, अर्थहीन

हर्फ़ = (حرف) अक्षर, वर्ण, बात, बोल

हर्ब = (حرب) युद्ध, लड़ाई, जंग

हरम = (حرم) काबा परिसर जहाँ वध या युद्ध की अनुमति नहीं है, महिलाओं का कक्ष

हरमसरा = (حرم سرا) अमीरों और राजाओं के महलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान

हर = (ہر) प्रति, प्रत्येक, तमाम, सब

हर्रा = (حرّہ) पत्थरीली ज़मीन

हया = (حیا) लाज, लज्जा, शर्म

हयात = (حیات) जीवन, ज़िन्दगी

हयूला = (ہیولیٰ) छाया-आकृति, ढांचा, डोल

हयहात = (ہیہات) शोक व्यक्त करने या दुख जताने का शब्द

हलाक = (ہلاک) मरना, हत्या, दुर्घटना में मृत्यु

हलाकत = (ہلاکت) विनाश, मौत, बरबादी

हलीफ़ = (حلیف) मित्र, सहयोगी, एक दूसरे से संबद्ध

हलीम = (حلیم) विनम्र, सहनशीलता रखने वाला, एक स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजन

हलाल = (حلال) वैध, जिस पर प्रतिबंध ना हो, इस्लामी रीत से जानवरों को ज़बह करना

हलाल जानवर = (حلال جانور) वह पशु पक्षी जिनका मांस खाने की इस्लाम ने अनुमति दी है

हलाला = (حلالہ) तीन तलाक़ के बाद किसी और पुरुष से निकाह करंने का नियम

हलावत = (حلاوت) मिठास, स्वाद, ज़ायक़ा, आराम, सुख

हल्का = (ہلکا) घटिया, कम भार वाला, अपमानित

हल्कान = (ہلکان) थका मांदा, परेशान, अचेत

हल्ल = (حل) भेद खोलना, समाधान, सुलझाना, मुश्किल को आसान करना,

हल्लाक़ = (حلّاق) बाल काटने वाला, बारबर, केश सज्जा करने वाला, हेयर ड्रेसर

हल्लाज = (حلّاج) धुनिया, रूई बेचने वाला

हल्क़ = (حلق) गला, टेटुवा, मुंह का अंदरूनी भाग

हल्क़ा = (حلقہ) घेरा, क्षेत्र, परिधि, संगठन, लोहे या लकड़ी का गोल कुंडा

हल्क़ा-ए-इंतिख़ाब = (حلقۂ انتخاب) चुनाव क्षेत्र

हलफ़ = (حلف) शपथ लेना, वचन देना, क़सम खाना

हवा = (ہوا) वायु, पवन

हवाई = (ہوائی) एक प्रकार का पटाख़ा, अफ़वाह, उड़ाई हुई ख़बर, बेतुकी बात

हवेली = (حویلی) विशाल गृह, कोठी, बहुत बड़ा घर, महल जैसा मकान

हवाबाज़ = (ہواباز) वायु यान उड़ाने वाला, विमान-चालक, पायलट

हवारी = (حواری) वफ़ादार मित्र, हज़रत ईसा मसीह के साथी

हवाला = (حوالہ) संदर्भ, उल्लेख, उद्धृत

हवाला = (حوالا) देश विदेश से धन का ग़ैर क़ानूनी कारोबार

हवालात = (حوالات) थाने में बना बंदी गृह, सज़ा होने से पहले तक की अवधि

हवाले करना = (حوالے کرنا) संरक्षण में देना, सुपुर्द करना

हवलदार = (حولدار) हेड कांस्टेबल

हव्वा = (حوّا) हज़रत आदम की पत्नी का नाम

हवास = (حواس) होश, इन्द्रियाँ, समझ, स्पर्श को महसूस करने की शक्ति

हवस = (ہوس) वासना, अधिक से अधिक पाने की चाहत

हशाश = (ہشّاش) हंस मुख, प्रसन्न, ख़ुश

हशाश बशाश = (ہشّاش بشّاش) बहुत ख़ुश, प्रसन्नचित, बाग़ बाग़

हशमत = (حشمت) वैभव, गौरव, महिमा, सेवकों का समूह, सैन्य

दस्ते, संसाधन की बहुतायत

हश्र = (حشر) प्रलय, संसार का अंतिम दिन, हंगामा, शोर-गुल

हसीब = (حسیب) हिसाब लेने वाला, लेखा जोखा रखने वाला

हसीन = (حسین) सुंदर, ख़ूबसूरत

हसीन = (حصین) मज़बूत, सुरक्षित

हस्त = (ہست) जीवन, हस्ती, ज़िंदगी

हस्ती = (ہستی) अस्तित्व, वास्तविकता, मौजूदगी, बिसात, दुनिया, संसार

हसद = (حسد) जलन, ईर्ष्या, द्वेष, कपट

हसन = (حسن) नेक, अच्छा, सुंदर, हज़रत अली के बड़े पुत्र का नाम हसन था

हस्पताल = (ہسپتال) चिकित्सालय, अस्पताल, हास्पिटल, उपचार केंद्र

हस्ब = (حسب) अनुसार

हसब-नसब = (حسب نسب) वंश, पूर्वजों का सिलसिला, माँ बाप का पारिवारिक संबंध

हसरत = (حسرت) वह इच्छा जो पूरी ना हो, वह अरमान जो दिल में रहा, नाकाम आरज़ू

हस्सान = (حسّان) बहुत बुद्धिमान, बहुत अच्छा, अरबी के सुप्रसिद्ध शायर हस्सान बिन साबित

हाक = (ہاک) हाँकना, आवाज़, ध्वनि

हाकिम = (حاکم) शासक, राजा, सम्राट, प्रधान, हुक्म चलाने वाला

हाजिब = (حاجب) पहरेदार, रक्षक, प्रहरी

हाजिरा = (ہاجرہ) बहुत गर्म दोपहरी, गर्मी की दोपहर, हज़रत इस्माईल की माता का नाम

हाजत = (حاجت) आवश्यकता, आशा, निवेदन, आरज़ू, शौच लगना

हाजी = (حاجی) हज कर चुका व्यक्ति

हाजी = (ہاجی) व्यंग्य करने वाला, हास्य अभिनेता

हाज़ा = (ہذا) यह, इस

हाज़िक़ = (حاذق) विशेषज्ञ, अपने क्षेत्र के उस्ताद, बुद्धिमान

हाज़िर = (حاضر) उपस्थित, मौजूद, तैयार, जो सामने हो

हाज़िरी = (حاضری) अदालत,स्कूल या कार्यालय में उपस्थिति, शहीदों की याद में महाभोज

हाज़िरीन = (حاضرین) उपस्थित जन समूह

हाज़िमा = (ہاضمہ) पाचन शक्ति

हातिम = (حاتم) दानी, उदार, बड़े दिल वाला

हातिम ताई = (حاتم طائی) अरब के एक महादानी का नाम

हातिफ़ = (ہاتف) अनदेखी अवाज़ आकाश वाणी

हाथी = (ہاتھی) गजराज

हादिसा = (حادثہ) दुर्घटना, वारदात, सदमा

हादी = (ہادی) मार्गदर्शन करने वाला, रहनुमा, पेशवा

हाँ = (ہاں) अच्छा, सही, भला, हूँ, ठीक

हाँकना = (ہانکنا) पशुओं को डंडे से आगे बढ़ाना, डींग मारना

हाँडी = (ہانڈی) खाना पकाने का बर्तन, शीशे का सजावटी पात्र जिसमें बल्ब लगते हैं

हाँपना = (ہانپنا) सांस फूलना, जल्दी-जल्दी सांस लेना, सांस उखड़ना (हांफना)

हाफ़िज़ = (حافظ) रक्षक, प्रहरी, पहरेदार, जिसने पूरा क़ुरआन याद किया हु आहो

हाफ़िज़ा = (حافظہ) स्मरण शक्ति, याददाश्त

हामिज़ = (حامض) खट्टा

हामिद = (حامد) स्तुति करने वाला, प्रशंसा करने वाला

हामिल = (حامل) बोझ उठाने वाला, मज़दूर, श्रमिक

हामिला = (حاملہ) गर्भवती, महिला जिस के पेट में शिशु पल रहा हो

हामी = (حامی) समर्थक, सहायता कारने वाला, स्वीकार, हाँ कहना, इक़रार करना

हामून = (ہامون) मैदान, जंगल, वीराना, रेगिस्तान, मरुस्थल

हार = (ہار) पराजय, मात, गले में डाली जाने वाली माला

हारिज = (حارج) रोकने वाला, प्रतिरोध करने वाला

हारिज़ = (حارز) अण्डों से बना हु आखाना

हारिब = (ہارب) भागने वाला, भगोड़ा

हारिस = (حارث) किसान, कृषक, खेतिहर

हारून = (ہارون) आसानी से क़ाबू में ना आने वाला घोड़ा, हज़रत मूसा के भाई का नाम

हारूनी = (حارونی) अडियल, ढीट, अवज्ञाकारी

हारसिंगार = (ہارسنگار) ऐसे फूलों का एक पेड़ जिसके पुष्प रात में

खिलते हैं और सुबह बिखर जाते हैं

हाल = (حال) वर्तमान युग, दशा, स्थिति, झटका, चाल, गति, क़व्वाली में मन्त्र मुग्ध होना

हाला = (ہالا) शराब, दारू मदिरा

हाला = (ہالہ) दाएरा, चांद का कुंडल

हाला = (حالا) अभी, इसी वक़्त,

हालात = (حالات) परिस्थिति, माहौल (हालत का बहु वचन)

हालिया = (حالیہ) हाल में घटित, वर्तमान समय में

हाली मवाली = (حوالی موالی) आसपास बैठने वाले, साथी संगी, सम्बंधित लोग

हालत = (حالت) स्थिति, अवस्था, कंडीशन

हावी = (حاوی) भारी पड़ने वाला, प्रबल, घेरने वाला

हावन = (ہاون) ओखली, खरल

हाशा = (حاشا) खंडन के लिये प्रयोग होने वाला शब्द, हरगिज़ नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं

हाशिम = (ہاشم) दुग्ध दोहने वाला, सूप बांटने वाले , पैग़म्बर साहिब के पर-दादा का नाम

हाशिया = (حاشیہ) किनारा, पुस्तक या कापी के चारों ओर का सादा हिस्सा, फ़ुट नोट, पाद लेख

हासिद = (حاسد) ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला, शत्रु, बुरा चाहने वाला

हासिल = (حاصل) प्राप्ति, पाना, बिक्री, आय, मतलब, परिणाम, फल

हिकायत = (حکایت) कथा, कहानी, मिथक, किसी दिलचस्प घटना का विवरण

हिकमत = (حکمت) बुद्धिमानी, उपचार, चतुराई, विधि, हकीमी इलाज की पद्धति

हिक़ारत = (حقارت) तिरस्कार, तुच्छ, घृणा, अपमान, गिरा हुआ

हिचकिचाना = (ہچکچانا) झिझकना, संकोच, अनिच्छा और इच्छा के बीच की मनोस्थिति

हिचकी = (ہچکی) आवाज़ के साथ रुक रुक कर सांस निकलना, अंतिम सांस

हिजाब = (حجاب) शर्म, हया, लाज, लज्जा, पर्दा, नक़ाब, सिर पर स्कार्फ़ या दुपट्टा ढांकना

हिज्जा = (ہجّہ) हिज्जे, वर्तनी, शब्द-विन्यास, इमला

हिजाज़ = (حجاز) सऊदी अरब का पुराना नाम

हिजड़ा = (ہجڑہ) किन्नर, ना पुरुष ना स्त्री

हिजरी = (ہجری) पैग़म्बर साहब के मक्का से पलायन के वर्ष से शुरु होने वाला इस्लामी वर्ष

हिजरत = (ہجرت) पलायन, उत्प्रवास, पैग़म्बर साहिब का मक्के से मदीना पलायन

हिजरां = (ہجراں) विरह, जुदाई, बिछड़ना, अलग होना, विच्छेद,

हिज्र = (ہجر) अकेलापन, जुदाई, विरह

हिज़्ब = (حزب) दल, पार्टी, संगठन, पक्ष

हिज़्बे इक़्तिदार = (حزب اقتدار) सत्तापक्ष

हिज़्बे इख़्तिलाफ़ = (حزب اختلاف) विपक्ष, विरोधी दल

हिज़यान = (ہذیان) बुखार में बड़ बड़ाना, अर्थ हीन बात कहना, अपने आप से बात करना

हिद्दत = (حدت) गर्मी की तेज़ी, ज़ोर, जोश

हिदायत = (ہدایت)निर्देशन, मार्ग दर्शन, समझाना, सिखाना

हिदायतकार = (ہدایت کار)निर्देशक, डायरेक्टर

हिफ़्ज़ = (حفظ) स्मरण, ज़बानी याद रखना, रक्षा, सम्मान

हिफ़ाज़त = (حفاظت) सुरक्षा, बचाव, सलामती , रक्षा, पहरेदारी

हिना = (حنا) मेहंदी

हिंद = (ہند) भारत वर्ष

हिंदी = (ہندی) देवनागरी में लिखी जाने वाली राज भाषा, भारतीय मूल का व्यक्ति

हिंदू = (ہندو) सनातन धर्मी, महबूब के गाल का काला तिल, प्रेमिका के काले केश

हिंदवी = (ہندوی) हिंदी और उर्दू का पुराना नाम

हिंदसा = (ہندسہ) अंक, आंकड़ा, अदद, गिनती

हिबाला = (حبالہ) रस्सी, जाल, फंदा, बन्धन

हिबाला-ए-अक़्द = (حبالۂ عقد) विवाह का गठबन्धन, शादी का विशेष लिबास

हिबा = (ہبہ) भेंट स्वरूप किसी के नाम जायदाद लिख देना, दान करना, वक़्फ़ करना

हिमाएत = (حمایت) समर्थन, तरफ़दारी, सहायता

हिमाक़त = (حماقت) मूर्खता, बेवक़ूफ़ी

हिमार = (حمار) गधा, बेवक़ूफ, मूर्ख

हिम्मत = (ہمت) साहस, हौसला, शौर्य

हिरासत = (حراست) गिरफ़्तारी, कारागार भेजा जाना, अभिरक्षा, कस्टडी

हिर्ज़ = (حرز) तन्त्र मन्त्र, दुआ तावीज़, आश्रय स्थल

हिरफ़त = (حرفت) कला, कौशल, कारीगरी, पेशा, चालाकी, मक्कारी

हिरमान = (حرمان) उदासी, निराशा, दुर्भाग्य

हिर्स = (حرص) लालच, हवस, लोभ

हिलाल = (ہلال) पहली रात का चांद

हिल्म = (حلم) नम्रता, सहिष्णुता, नर्मी

हिशाम = (ہشام) उदार, दरिया दिल

हिस = (حس) संवेदन शीलता, हिल्ने डुलने में सक्षम

हिसाब = (حساب) अंक गणित, गणना, गिनती, लेन देन, भाव, समझ, लेखा जोखा

हिसार = (حصار) घेरा, चक्र, चहार दीवारी

हिस्सा = (حصّہ) अंश, भाग, टुकड़ा, साझेदारी, विभाजन, कम्पनी का शेयर

ही = (ہی) केवल, सिर्फ़, अकेला

हीच = (ہیچ) कोई, कुछ नहीं, कम, फीका, निकम्मा, नाकारा

हीमा = (ہیمہ) ईंधन

हीमीया = (ہیمیا) जादू का ज्ञान

हीला = (حیلہ) बहाना करना, धोखा देना, चाल बाज़ी, रोज़गार, काम

हुकूमत = (حکومت) सरकार, राज, शासन

हुक्म = (حکم) आदेश, फ़रमान, ताश के पत्तों में काले रंग का पान

हुक्मरानी = (حکمرانی) शासन करना, राज करना, बादशाहत

हुक्काम = (حکّام) अधिकारीगण, प्रशासक मण्डल

हुक़्क़ा = (حقّہ) आग के नीचे तम्बाकू रख कर पानी के अंदर से धूम्रपान करने का यंत्र

हुजूम = (ہجوم) भीड़, जन समूह, झुंड

हुजरा = (حجرہ) शयन कक्ष, मस्जिद से मिला हुआ छोटा सा कमरा, कोठरी

हुज्जत = (حجّت) तकरार, बहस, झगड़ा, वाद-विवाद

हुज़ूर = (حضور) माननीय, सम्मानीय, आदरणीय (को सम्बोधित करने

का शब्द)

हुज़्न = (حزن) रोना, दुख व्यक्त करना, आंसू बहाना

हुदा = (ہدیٰ) सीधा रास्ता, निर्देशन

हुदूद = (حدود) सीमाएँ, श्रेणियां , लिमिट्स

हुन = (ہن) पुराने युग में दक्षिणी भारत में चलने वाला सिक्का, मुद्रा, दौलत, धन

हुंकार = (ہنکار) हामी भरना, किसी काम के लिये हाँ कहना

हुंडार = (ہنڈار) भेड़िया

हुनर = (ہنر) कौशल, कला, कारीगरी, प्रतिभा, शिल्प

हुबूबात = (حبوبات) अनाज, ग़ल्ला, ज़मींदार को भेंट स्वरूप दी जाने वाली उपज

हुबूब = (حبوب**)** हवा का चलना

हुबूब = (حبوب) गोलियां, दाने

हुब्बुलवतन = (حب الوطن) देश प्रेम

हुब्ब = (حبّ) प्रेम, मोहब्बत, प्यार, शौक़, आरज़ू

हुड़कना = (ہڑکنا) किसी की जुदाई में व्याकुल होना, बच्चों का किसी को याद करना, तरसना

हुड़दंग = (ہڑدنگ) हंगामा, शोर शराबा, युवकों की उछल कूद

हुरमत = (حرمت) सम्मान, आबरू, पवित्रता, निषेध, प्रतिबंधित

हुर्र = (حر) जो व्यक्ति किसी का दास ना हो, स्वतंत्र, आज़ाद

हुर्रियत = (حرّیت) आज़ादी, स्वतंत्रता, ग़ुलामी से मुक्ति

हुमायूं= (ہمایوں) शुभ, भाग्यवान, आशीष

हुमुक़ = (حمق) मूर्खता, बेवक़ूफ़ी, नादानी

हुमैरा = (حمیرہ) लाल रंग की

हुमकना = (ہمکنا) शिशु का एक गोद से दूसरी गोद में जाने के लिए उतावला होना

हुलिया = (حلیہ) बहरूप, भगल, अपराधी या खोए व्यक्ति की शक्ल-सूरत और वस्त्र का विवरण

हुलूल = (حلول) एक चीज़ का दूसरी चीज़ में पूरी तरह घुल जाना

हुसाम = (حسام) तलवार, शमशीर

हुसैन = (حسین) हज़रत अली के दूसरे बेटे, जिनकी याद में हर वर्ष मोहर्रम मनाया जाता है

हुस्न = (حسن) सुंदरता, सौंदर्य, ख़ूबसूरती

हू = (ہو) मस्ती में मुँह से

निकलने वाली आवाज़, शोर शराबा, हुल्लड़, भय, डर

हूक = (ہوک) वह दर्द जो दिल में बार बार उठे, या अचानक उठे

हूत = (حوت) व्हेल मछली

हूदा = (ہودہ) ठीक , सही, उचित

हूर = (حور) स्वर्ग की अप्सरा

हूल = (ہول) धक्का मारना, सदमा

हेकड़ी = (ہیکڑی) शेख़ी, नक़्शेबाज़ी, दबंगई, ज़ोर ज़बरदस्ती

हेरा-फेरी = (ہیرا پھیری) धोखा-धड़ी, कोई वस्तु ख़रीद कर बार-बार वापस करने जाना

है = (ہے) उपस्थित होना, मौजूद

हैएत = (ہیئت) संरचना, बनावट, रूप, शक्ल

हैकल = (ہیکل) यहूदी धर्म स्थल, शरीर की काठी, गले में पहना जाने वाला तावीज़ या आभूषण

हैजान = (ہیجان) उबाल, उत्तेजना, तेज़ी,ज़ोर,

हैदर = (حیدر) शेर, बाघ, सिंह, हज़रत अली का उपनाम

हैफ़ = (حیف) दुख, अफ़सोस, खेद, दमन, उत्पीड़न

हैरान = (حیران) अचंबित, हक्का बक्का, दंग

हैरत = (حیرت) अचंभा, ताज्जुब, हैरानी

हैवान = (حیوان) प्राणी, जानवर, पशु, मवेशी, जंगली

हैसियत = (حیثیت) दर्जा, स्थिति, क्षमता

होड़ = (ہوڑ) मुक़ाबला बाज़ी, शर्त, दाव, आपा-धापी, घात

होत = (ہوت) धन, बल, शक्ति, पूंजी

होता = (ہوتا) होने वाला, नहीं होने और होने के बीच का शब्द, नातेदार, सम्बंधी

होले = (ہولے) धीरे धीरे, आहिस्ता, सहजता

होश = (ہوش) सुद्ध, बुद्धि, आपे में आना, समझ, संभलना, जागरूक होना

होशियारी = (ہوشیار) बुद्धिमानी, चतुराई, सावधानी, समझदारी

हौका = (ہوکا) लालच, बहुत अधिक खाने की तमन्ना, किसी चीज़ को पाने की बहुत इच्छा

हौज़ = (حوض) तरण ताल, जल संग्रह करने के लिये बनाया जाने वाला छोटा टैंक

हौदज = (ہودج) लकड़ी का बना हौदा जो ऊंट या हाथी की पीठ पर बैठने के लिये रखा जाता है

हौल = (ہول) मन में भय बैठ

जाना, घबराहट

हौसला = (حوصلہ) उत्साह, प्रेरणा, प्रोत्साहन, हिम्मत, दिलेरी, अरमान

उर्दू शब्दावली

उर्दू अक्षर माला

अलिफ़ =	ا
बे =	ب
पे =	پ
ते =	ت
टे =	ٹ
से =	ث
जीम=	ج
चे =	چ
बड़ी हे=	ح
ख़े =	خ
दाल=	د
डाल =	ڈ
ज़ाल =	ذ
रे =	ر
ड़े =	ڑ
ज़े =	ز
ज़ेह =	ژ
सीन =	س
शीन =	ش
सुआद=	ص
ज़ुआद=	ض
तोए =	ط
ज़ोए =	ظ
ऐन =	ع
ग़ैन =	غ
फ़े =	ف
क़ाफ़ =	ق
काफ़=	ک
गाफ़=	گ
लाम =	ل
मीम =	م
नून=	ن
वाओ=	و
छोटी हे =	ہ
दोचश्मी हे =	ھ
हमज़ा =	ء
छोटी ये =	ی
बड़ी ये =	ے

ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔تاہم ملک کی تمام زبانوں میں اردو اور ہندی بے حد اہم ہیں۔ ویسے تو ہمارے ملک میں انگریزی کا چلن بہت عام ہوگیا ہے۔لیکن اس سے اردو اور ہندی کی اہمیت کم نہیں ہوجاتی۔ ہندی ہمارے ملک کی قومی زبان ہے اور اردو کو ملک کے کئی صوبوں میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔اردو کی شیرینی نے ہر خاص وعام کو اپنے دام محبت میں گرفتار کیا ہے۔نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس کی زلفوں کے گرفتار نظر آجاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہندی اردو دو سگی بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ بولنے کی سطح پر دونوں زبانوں میں بہت معمولی فرق ہے۔اس بات سے قطع نظر کہ فارسی آمیز اردو اور سنسکرت آمیز ہندی میں زمین آسمان کا فرق ہوجاتا ہے۔ ہندی میں ز، ذ، ض، ظ وغیرہ کی جگہ صرف ج (ज) کا استعمال کافی سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لفظوں کے معنی میں اتنا فرق ہوجاتا ہے کہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد بن جاتے ہیں۔ جیسے ذلیل کو جلیل بولنا اس کے علاوہ مخالفت کی جگہ خلافت بولنا وغیرہ۔اس طرح کی بہت سی مثالیں فاضل مصنف نے کتاب میں دی ہیں۔ چنانچہ اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہورہی تھی کہ ایک ایسی کتاب تیار کی جائے جس کے ذریعہ غیر اردو داں طبقہ جو اردو سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بول چال میں صحیح تلفظ کے ساتھ اردو الفاظ کی ادائیگی کر سکے۔ یہ کتاب اس اہم ضرورت کو بہت حد تک پورا کرتی ہے۔

شکیل حسن شمسی مشہور اردو اخبار انقلاب کے ایڈیٹر ہیں۔موصوف میدان صحافت میں 33 سال سے بھی زیادہ کا تجربہ رکھتے ہیں۔ وہ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔21 برس دوردرشن میں بھی رہے۔دوردرشن کے مختلف پروگرام بنانے کے علاوہ سینکڑوں نیوز بلٹین پروڈیوس کیے۔ وہ درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ان کی خدمات کے پیش نظر انھیں متعدد انعامات واعزازات سے نوازا جاچکا ہے۔

ISBN 978-93-87510-86-9

9 789387 510869

فروغ اردو بھون
NCPUL
New Delhi

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان
وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند
فروغ اردو بھون ایف سی، 33/9
انسٹی ٹیوشنل ایریا، جسولا، نئی دہلی-110025

قیمت -/110 روپئے